

# **B.A. (3 Year Programme)**

**(POLITICAL SCIENCE)**

# **POLS-101**

**Indian Constitution (Semester – 1)**



**Directorate of Distance Education**

**Guru Jambheshwar University of Science &  
Technology**

**HISAR-125001**

## **Political Science : Syllabus 101 Indian Constitution (Semester – 1)**

<b>Subject :</b> jktuhfrd foKku	
<b>Course Code : 101</b>	<b>Author : Dr. Deepak</b>
<b>Lesson No. : 1</b>	<b>Vetter :</b>
Hkkj rh;   fo/kku & fodkl ]   ksr] fo”शता और प्रस्तावना	

---

व/; क; & 1 हक्कजह; | फोक्कु & फोड़क्ल ] | क्षर] फू”शता और  
प्रस्तावना

---

1-1 वफ़्रेमन्स”; (**Learning Objectives**)

1-2- इल्कूक (**Introduction**)

1-3- व/; ; उ द्स एप्ले फूल्हू (**Main Points of Text**)

1-3-1 संविधान की परिभाशा (**Definition of Constitution**)

1-3-2- | फोक्कु डक फुएक्ल **(Constitution Making)**

1-3-3- मन्स”; | एक्यूक्ह इल्को (**Objective Proposal**)

1-4- इक्ब द्स व्हक्स डक एप्ले हक्क इल्को (**Further main body of the text**)

1-4-1- | फोक्कु फुएक्ल **(Frame Work of the Constitution)**

1-4-2- हक्कजह; | फोक्कु द्स इक्सर (**Sources of Indian Constitution**)

1-4-3- fodkl ओन्हे | क्षर (**Evolutionary Source**)

1-4-4 हक्कजर डक | फोक्कु & इक्प्ले क्षर (**Constitution of India - Salient Features**)

1-5- विउह इक्फर टक्पी (**Check your progress**)

1-6- | क्ज क्वक्ल (**Summary**)

1-7- सूचक भाव्हद (**Key Words**)

1-8- Lo; a eW; kdū gsw i”u (**Self Assessment Questions**)

1-9- vi uh i”fr dh tkp djus ds fy, mUkj (**Answer check your progress**)

1-10- I UhHk xJFk@fun”kr i”Lrdi (**References/Suggested Reading**)

1-1 vf/kxe mnfn”; (**Learning Objectives**)

इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों के बारे में बताया गया है :—

- भारतीय संविधान का विकास
- भारतीय संविधान के विकास के स्रोत
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भूमिका
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या

1-2- i”Lrkouk (**Introduction**)

हक्क रह; I fo/kku dh Hkfedk & भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। साधारण शब्दों में संविधान सभा का अर्थ किसी देश के लिए संविधान बनाने वाली सभा से लिया जाता है। , ul kbDyki hfM; k vKQ I k”ky I kbl st (Encyclopaedia of Social Sciences) के अनुसार, “I fo/kku I Hkk , d , s h i”frfuf/k I LFkk gksrh gS ft I s uohu I fo/kku ij fopkj djus vkj vi ukus ; k orleku I fo/kku ei egUoi wkl i”fj orlu djus ds fy, fuokfpr fd; k tk, A\*\* विवर के इतिहास में हमें संविधान सभा का पहला उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलता है। अमेरिकन संविधान एक ऐसा लिखित संविधान है जिसकी रचना के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की गई थी। उसके पांच सन् 1789 में फ्रांस में नए संविधान का निर्माण किया गया। 19वीं शताब्दी में यूरोप के कई अन्य देशों में संविधान सभा की माँग की गई जिसके परिणामस्वरूप संविधान सभा की स्थापना की गई।

1-3- v/; ; u ds eq[; fcUnq (**Main points of text**)

1-3-1 संविधान की परिभाशा :- मन्त्रिमण्डल मिशन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निर्वाचित की गई थी। इनमें से 292 ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमिशनर वाले प्रान्तों के प्रतिनिधि होने थे।

प्रत्येक प्रान्तों को उसकी जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व दिया जाना था और लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक प्रतिनिधि होना था। संविधान सभा के चुनावों के लिए मतदाताओं को तीन प्रकार के वर्गों में बांटने का निर्णय किया गया—

- (क) साधारण — जिनमें हिन्दू पारसी, एंगलो-इंडियन तथा भारतीय ईसाई शामिल थे।
- (ख) मुस्लिम तथा
- (ग) सिक्ख (केवल पंजाब में)

देसी रियासतों को भी उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का निर्णय किया गया, जो उनके शासकों द्वारा मनोनीत किए जाएँगे।

प्रान्तों के 296 सदस्यों के चुनाव जुलाई, 1946 में कराए गए। इनमें से 208 स्थान कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को तथा 15 स्थान अन्य दलों को प्राप्त हुए। कांग्रेस की इस शानदार सफलता को देखकर मुस्लिम लीग को बड़ी निरा”ग हुई और उसने संविधान सभा का बहिष्कार करने का निर्णय किया, परन्तु मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बावजूद संविधान सभा ने अपना कार्य 9 दिसम्बर, 1946 को प्रथम बैठक के साथ आरम्भ किया। इस संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य 26 नवम्बर, 1949 को पूरा कर लिया था। परन्तु संविधान को 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया क्योंकि इस दिन लागू करने का कारण कांग्रेस ने दिसम्बर, 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संघर्ष का निर्णय लिया था और 26 जनवरी, 1930 को पूर्ण स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया इसलिए 26 जनवरी, 1930 के दिन के ऐतिहासिक महत्व की यादगार को हमेशा”ग बनाए रखने के लिए, संविधान निर्माताओं ने जान-बूझकर 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू किया।

1-3-2- | fo/kku dk fuekl.k (Making of the Constitution) & संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा (जो संविधान सभा में सबसे वृद्ध अधिक आयु वाले थे।) की अध्यक्षता में हुई और 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया।

1-3-3- mnññ”; | ECU/kh i Lrko (Objective Resolution) — 13 दिसम्बर, 1946 को पं. जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किए, जो इस प्रकार थे —

(क) संविधान सभा भारत को एक प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रजातन्त्रीय गणराज्य घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए संविधान बनाने के अपने दृढ़ और पवित्र निर्वाचन की घोषणा करती है, तथा

(ख) जो क्षेत्र इस समय ब्रिटिश भारत में या भारतीय रियासतों के अन्तर्गत हैं तथा भारत के ऐसे अन्य भाग जो ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के बाहर हैं, वे सभी अगर प्रभुसत्ता सम्पन्न भारत में मिलना चाहते हैं, तो सभी मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे, तथा

(ग) जिसमें उपरोक्त क्षेत्रों को अपनी वर्तमान सीमाओं सहित या ऐसी सीमाओं सहित, जो संविधान सभा द्वारा और उसके बाद संविधान की विधि द्वारा निर्वाचन की जाएँगी, स्वायत्त इकाइयों का पद मिलेगा और वह सरकार शासन की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी, सिवाय उन अधिकारों के जो संघ को दिए गए हैं, तथा

(घ) जिसमें प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र भारत, इसके संगठित भागों और सरकार के अंगों की समस्त शक्ति तथा अधिकार जनता से प्राप्त की गई होगी, तथा

(ङ) जिसमें भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद तथा अवसर व कानून के समक्ष समानता, विचार, विवास, धर्म, पूजा, व्यवसाय, समुदाय बनाने की, कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अनुसार स्वतन्त्रता मिली हुई होगी और सुरक्षित होगी, तथा

(च) जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़े हुए कबीलों और जातियों की सुरक्षा की व्यवस्था होगी, तथा

(छ) जिसके द्वारा सभ्य राष्ट्रों के कानून तथा न्याय के अनुसार गणतन्त्र के स्थायित्व जल, थल व वायु पर अधिकार होगा।

(ज) यह प्राचीन भूमि विवरण में उचित व सम्मानजनक स्थान प्राप्त करेगी तथा विवरण शान्ति और मानव कल्याण के लिए अपना पूर्ण ऐच्छिक योगदान देगी।

1-4- इक्षु द्वारा दिए गए अधिकार (Further main body of the text)

1-4-1- फ्रेम वर्क ऑफ़ दी कॉन्स्टिट्यूशन (Frame Work of the Constitution) –

फ्रेम वर्क ऑफ़ दी कॉन्स्टिट्यूशन (First Draft of the Constitution) – यह संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता बी.एन.राव के निर्देशन में संविधान सभा के कार्यालय के द्वारा तैयार किया गया। प्रारूप तैयार करने से पहले कार्यालय ने लगभग 60 देशों के

संविधानों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य तीन ग्रंथों में प्रकाशित किए और उनकी प्रतिलिपियाँ सभा के सदस्यों को दी प्रथम प्रारूप तैयार होने के पश्चात् संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने संवैधानिक परामर्शदाता श्री बी.एन. राव को विवाह के प्रमुख संविधान विषयों से विचार-विमर्श के लिए अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड तथा इंग्लैण्ड आदि देशों में भेजा।

I fo/kku | Hkk dk Lrj (**Status of the Constituent Assembly**) — सन् 1946 में जब संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो वह एक प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्था नहीं थी, परन्तु 1947 के भारत स्वतन्त्रता अधिनियम के पास होने के पश्चात् यह पूरी तरह से प्रभुसत्ता सम्पन्न बन गई। अब इसे भारत का संविधान बनाने में पूर्ण स्वतन्त्रता थी और इस पर अब किसी प्रकार का कोई बाहरी नियन्त्रण नहीं था। इसके अतिरिक्त संविधान सभा को अब दो रूपों में कार्य करना था। एक रूप में तो इसे भारत का संविधान बनाना था और दूसरे रूप में इसे भारत के लिए साधारण कानूनों का भी निर्माण (संसद का कार्य) करना था।

el kñk | fefr dh fu; fDr (**Appointment Drafting Committee**) — विभिन्न समितियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त, 1947 को एक सात सदस्यीय मसौदा समिति की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर थे तथा अन्य सदस्य थे —

- (क) गोपाल स्वामी आयंगर,
- (ख) अलादी कृष्णास्वामी अय्यर,
- (ग) के.एम. मुन्नी,
- (घ) बी.एल. मित्तर,
- (ङ) सैयद मुहम्मद सादुला,
- (च) डी.पी. खेतान

1-4-2- Hkkj rh; I fo/kku ds | kr (**Sources of Indian Constitution**) & भारतीय संविधान के स्रोतों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है —

1- tle | ECU/kh | kr (**Seminal Sources**) तथा 2- fodkl oknh | kr (**Developing Sources**).

जन्म—सम्बन्धी स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जिन्होंने संविधान के निर्माण पर प्रभाव डाला था और जिनसे हमारे संविधान के निर्माताओं ने कई सिद्धान्त तथा नियम ग्रहण करके भारतीय संविधान में शामिल किए थे। ये स्रोत भारतीय संविधान के निर्माण से पहले मौजूद थे।

विकासवादी स्रोत में वे तथ्य शामिल हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे स्रोत संविधान के लागू होने के प”चात अस्तित्व में आए थे।

1- **Hkkj r | j dkj vf/kfu; e] 1935 (Government of India Act, 1935) –** भारत के वर्तमान संविधान के अधिकां”। भाग भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित हैं। रॉबर्ट एल. हार्ड्येव ने लिखा है, “भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ई. के अधिनियम से या तो शब्द”। लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है।” डी.डी. बसु ने हार्ड्येव की भाँति ही लिखा है कि भारतीय संविधान का 75 प्रति”त भाग, अनुभव पर आधारित किन्हीं सं”गोधनों सहित, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे नए संविधान की भाषा, विषय—सूची और आकार पर भारत सरकार अधिनियम, 1935 का बहुत अधिक प्रभाव है, जो निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है –

- (i) वर्तमान संविधान में संघ—”गासन की व्यवस्था 1935 के अधिनियम पर आधारित है। प्रान्तों तथा रियासतों (States) को मिलाकर संघ की स्थापना करने का सुझाव इस एकट में दिया गया था।
- (ii) संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी 1935 के एकट पर आधारित है। उस एकट में शक्तियों का तीन सूचियों – संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची – में विभाजन किया गया था। नए संविधान में भी ये ही तीनों सूचियाँ अपनाई गई हैं।
- (iii) 1935 के एकट की भाँति नए संविधान में भी संघीय सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्ति”गाली बनाया गया है।
- (iv) 1935 के एकट की भाँति नए संविधान में भी द्वि—सदनीय विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है।

- (v) नए संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था का आधार 1935 के एकट का अनुच्छेद 93 है।
- (vi) वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 256 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का निर्माचत रूप से पालन हो और संघ की कार्यपालिका शक्ति को इस सम्बन्ध में उचित निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो। ऐसी ही व्यवस्था 1935 के एकट के अनुच्छेद 126 में की गई थी।
- (vii) नए संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां 1935 के एकट के अनुच्छेद 10 की प्रतिलिपि हैं।
- (viii) केन्द्रीय तथा राज्य के कानूनों में विरोध की स्थिति से निपटने की व्यवस्था नए संविधान के अनुच्छेद 251, 1935 के एकट के सैक्षण्य 107 के अधीन की गई व्यवस्था से मिलती-जुलती है।
- (ix) 1935 के एकट की भाँति नए संविधान में भी कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है।
- (x) संघ तथा राज्यों के सम्बन्धों के बारे में भी वर्तमान संविधान और 1935 के एकट में एक-जैसी व्यवस्था है।

## 2- **f0n"kh | fo/kkukl dk i Hkko (Influence of Foreign Constitutions) –**

भारत के संविधान पर विदेश के विभिन्न देशों के संविधानों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसार के अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अपने देश का संविधान बनाते समय उन देशों में प्रचलित संवैधानिक प्रणालियों में से वे बातें अपनाई, जो हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल थीं। मुख्य विदेशी संविधान, जिनका प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है, निम्नलिखित हैं –

**(i) fcfV"k | fo/kku (British Constitution) –** भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटिश संविधान का है। यह शायद इस कारण है कि अंग्रेजों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया और इस बीच भारतीयों को उनकी राजनीतिक संस्थाओं का काफी अनुभव हुआ। ब्रिटिश संविधान की हमने निम्नलिखित बातें अपनाई हैं –

- (1) इंग्लैण्ड के सप्राट् की भांति भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक मुखिया है।
- (2) संसदीय प्रणाली इंग्लैण्ड की प्रतिलिपि है।
- (3) मन्त्रिमण्डल में प्रधानमन्त्री का श्रेष्ठ स्थान है तथा मन्त्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका है, जैसा कि ब्रिटेन में है।
- (4) मन्त्रिमण्डल सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
- (5) ब्रिटेन के समान संसद में द्वि-सदनीय विधानमण्डल है और लोकसभा इंग्लैण्ड के कॉमन सदन की भांति अधिक शक्ति” गाली है।
- (6) कानून के शासन (Rule of Law) का होना।

भारत और ब्रिटेन के संविधान में इन सब बातों में एकरूपता होते हुए भी मूल अन्तर इस बात का है कि इंग्लैण्ड में इन सबके बारे में कोई लिखित व्यवस्था नहीं की गई है जबकि भारत में इन्हें लिखित संविधान द्वारा अपनाया गया है।

**(ii) वेस्ट ज़ीक डॉक्यू (American Constitution)** – भारत के संविधान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रभाव निम्नलिखित व्यवस्थाओं पर पड़ा –

- (1) हमारे संविधान के आरम्भ से पूर्व एक प्रस्तावना है। इसमें अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना की भांति यह लिखा गया है कि संविधान का निर्माण करने वाले ‘हम, भारत के लोग’ हैं।
- (2) हमारे मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के Bill of Rights से मिलते-जुलते हैं।
- (3) भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) के कार्य और दर्जा अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जैसे हैं।
- (4) संविधान में सं”ोधन करने की विधि भी दोनों देशों में एक-जैसी है। कई विषयों के सम्बन्ध में सं”ोधन करने के लिए हमारे देश में भी अमेरिका की भांति संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति लेनी पड़ती है।
- (5) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त।
- (6) उप-राष्ट्रपति के कार्य और दर्जा।

(iii) **duMK dk | fo/kku (Canadian Constitution)** – कुछ बातें हमने कनाडा के संविधान से भी अपनाई हैं; जैसे –

- (1) कनाडा की भाँति हमने भारत को राज्यों का संघ माना है।
- (2) संघात्मक ढांचा अपनाने के साथ–साथ केन्द्र को अधिक शक्ति”ली बनाया है।
- (3) शेष शक्तियाँ केन्द्र को दी गई हैं।

(iv) **VKLVfy; k dk | fo/kku (Australian Constitution)** – आस्ट्रेलिया की भाँति हमारे संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था और केन्द्र–राज्यों में झगड़ों का निपटारा करने की विधि (अनुच्छेद 251) अपनाई गई है।

(v) **Vk; j yM dk | fo/kku (The Irish Constitution)** – राज्य–नीति के निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रपति के संविधान पर आधारित है।

(vi) **tki ku dk | fo/kku (Constitution of Japan)** – भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर जापान के संविधान का प्रभाव पड़ा है और उसके द्वारा भारतीय संविधान में सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में सन्तुलन लाने का प्रयत्न किया गया है।

3- **eI kñk | fo/kku] 1948 (Draft Constitution of 1948)** – भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत 21 फरवरी, 1948 को प्रस्तुत मसौदा संविधान है, जिसे डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त, 1947 को 7 सदस्यीय स्थापित की गई मसौदा समिति ने तैयार किया था। इसमें 315 अनुच्छेद तथा 8 सूचियाँ थीं, जिन पर संविधान सभा में खूब वाद–विवाद हुआ। सदस्यों द्वारा इसमें 7635 सं”गोधन पेट” किए गए जिनमें से 2473 पर विचार किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले नए संविधान के अधिकाँ अनुच्छेद इसी मसौदा संविधान में से ही लिए गए हैं।

4- **fotklu | fefr; k dh fj i kVñ (Reports of Various Committee)** – मसौदा समिति की स्थापना से पूर्व संविधान सभी द्वारा अनेक समितियों की स्थापना की गई थी, जिनमें मुख्य इस प्रकार थीं –

- (i) संघीय शक्तियों की समिति (Union Powers Committee)
- (ii) संघीय संविधान समिति (Union Constitution Committee)

- (iii) अल्पसंख्यकों तथा मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित परामर्शदात्री समिति (Advisory Committee on Minorities and Fundamental Rights)
- (iv) संघ तथा राज्यों में वित्तीय सम्बन्धों की समिति (Provincial Constitution Committee)

इन समितियों ने विचार-विमर्श के प्रचात् अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के सामने पेटा की। इन पर वाद-विवाद के प्रचात् सदस्यों द्वारा आवश्यक संगोष्ठन पेटा किए गए। मसौदा समिति को इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर ही संविधान का मसौदा तैयार करने का आदेता संविधान सभा द्वारा दिया गया था। 4 नवम्बर, 1948 को संविधान का मसौदा पेटा करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि कुछ एक विषयों को छोड़कर मसौदा समिति ने संविधान सभा के निर्देशों के अनुसार ही संविधान का मसौदा तैयार किया है। हमारे संविधान के अनेक अनुच्छेदों का आधार इन समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट है।

**1-4-3- fodkl oknh | ksr (Evolutionary Source)** – भारतीय संविधान के विकास एवं विस्तार में योगदान देने वाले तथ्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के रूप में किया जा सकता है –

1- l d n }kjk ikl fd, x, vf/fu; e (**Acts passed by the Parliament**) – संविधान के अनुसार अनेक शासनीय व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अधीन संसद द्वारा बनाए गए अग्रलिखित कानून उल्लेखनीय हैं –

- (i) निरोधक नजरबन्दी अधिनियम, 1950 (Preventive Detention Act, 1950)
- (ii) 1950, 1951 का जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of Peoples Act 1950, 1951)
- (iii) 1951 का वित्त आयोग का अधिनियम (Finance Commission Act, 1951)
- (iv) 1952 का राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम (Presidential and Vice-Presidential Election Act, 1952)
- (v) भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 (Indian Citizenship Act, 1955)
- (vi) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (States Re-organization Act, 1956)
- (vii) सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम, 1956 (Supreme Court's 'Number of Judges' Act, 1956)

- (viii) बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (Bombay Re-organization Act, 1960)
- (ix) नागालैण्ड राज्य अधिनियम, 1962 (State of Nagaland Act, 1962)
- (x) सरकारी भाषा अधिनियम, 1963 (Official Language Act, 1963)
- (xi) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (The Punjab Re-organization Act, 1966)
- (xii) 1967 का गैर-कानूनी गतिविधियों के बचाव सम्बन्धी अधिनियम (The Unlawful Activities Prevention Act, 1967)
- (xiii) 1971 का आन्तरिक सुरक्षा स्थापित रखने सम्बन्धी अधिनियम (Maintenance of Internal Security Act, 1971)
- (xiv) 1974 का विदेशी मुद्रा की रक्षा तथा स्मगलिंग के बचाव सम्बन्धी अधिनियम (The Conservation of the Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974)
- (xv) 1977 का प्रधानमन्त्री तथा स्पीकर के चुनाव-विवादों के सम्बन्ध में अधिनियम (Disputed Elections of Prime Minister and Speaker Act 1977) क

2- **U; kf; d fu. k;** (**Judicial Decisions**) – भारतीय संविधान के विकास में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय भी विशेष महत्व रखते हैं और ये भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन न्यायालयों ने संविधान के रक्षक और व्याख्याकर्ता होने के नाते कई प्रसिद्ध फैसले दिए हैं जो अब संविधान का भाग बन गए हैं; जैसे Gopalan V/s State of Madras के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने निजी स्वतन्त्रता के क्षेत्र की व्याख्या की। इसी प्रकार Madras V/s Champakam Dorairajan के मुकदमे में न्यायालय ने यह फैसला दिया कि राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं है।

3. **I m'kkfud fo"शज्ञों के विचार (Views of Constitutional Experts) & संवैधानिक विशेषज्ञों ने संविधान के बारे में अपने-अपने विचार अपने-अपने संवैधानिक लेखों में व्यक्त किए हैं। भले ही इन विचारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन विचारों का प्रभाव हमारे कानून-निर्माताओं तथा न्यायाधीशों पर अवश्य पड़ता है। इस श्रेणी के विशेषज्ञों में मुख्य व्यक्ति हैं –**

4. **I m'kkfud I f"kk/kU (Constitutional Amendments) & संविधान के लागू होने के समय से लेकर 2021 तक 105 संशोधन हो चुके हैं, जो अब संविधान के अभिन्न**

अंग है तथा एक मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इन संघों द्वारा मूल संविधान में बहुत परिवर्तन आए हैं। इनमें बहुत-सी बातों की वृद्धि हुई है तथा कुछ को संविधान से निकाल दिया गया है। प्रथम संघों द्वारा नागरिकों के स्वतन्त्रता के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की गई।

5. **संविधान के अनुच्छेद 74 के अधिकार** & यद्यपि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, फिर भी इस देश में महत्वपूर्ण प्रथाएँ विकसित हुई हैं, जो संविधान के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इनमें से कुछ प्रथाएँ इस प्रकार हैं –

- (i) संविधान के अनुसार कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं परन्तु प्रथा यह है कि वह मन्त्रिमण्डल के परामर्शों के अनुसार ही कार्य करता है।
- (ii) संविधान के अनुच्छेद 74 में मन्त्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है न कि मन्त्रिमण्डल का। मन्त्रिमण्डल प्रथा पर आधारित है। जो कि वास्तविक अर्थ में देश के शासन का संचालन करती है।
- (iii) राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, परन्तु प्रथा के आधार पर संघीय सरकार किसी राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमन्त्री की सलाह लेती है।
- (iv) अब यह भी प्रथा बन गई है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए।
- (v) लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष (स्पीकर) निष्पक्षता के साथ अपना कार्य करते हैं, चाहे वे किसी दल से संबंधित क्यों न हों।
- (vi) लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से करने का प्रयास परम्परा पर ही विकसित हुआ है। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष के पद पर विपक्षी दलों के प्रत्याशी को चुनना भी परम्परा पर ही आधारित है।

1-4-4 **भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ** (Constitution of India - Salient Features) %&

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ नीचे सूचीबद्ध और संक्षिप्त हैं :

1- लोकसभा का नियन्त्रण करने के लिए :

- संविधानों को लिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे अमेरिकी संविधा, या अलिखित, जैसे ब्रिटिश संविधान।
- भारत के संविधान को दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है।
- यह एक बहुत व्यापक, विस्तृत और विस्तृत दस्तावेज है।
- भारतीय संविधान के हाथी के आकार में योगदान देने वाले कारक है –
  - **राष्ट्रीयता** की विविधता।
  - **उदाहरण** के लिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव, जो भारी था।
  - **केंद्र** और राज्यों दोनों के लिए एकल संविधान।
  - **संविधान सभा** में कानूनी दिग्गजों का प्रभुत्व।
- भारत के संविधान में न केवल शासन के मूलभूत सिद्धांत बल्कि विस्तृत प्रावधान भी हैं।
- न्यायोचित और गैर-न्यायिक दोनों अधिकार संविधान में शामिल है।

2- भारत के संविधान के अधिकारों को विभिन्न अन्य दोनों के संविधानों के साथ-साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम (1935 के अधिनियम के लगभग 250 प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया है) से उधार लिया है।

- डॉ बीआर अम्बेडकर ने गर्व से प्रावधानों को विभिन्न अन्य दोनों के संविधानों को तोड़कर बनाया गया है।
- संविधान का संरचनात्मक हिस्सा काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है।
- संविधान का दार्दिनिक भाग (मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) क्रमांक अमेरिकी और आयरिश संविधानों से अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

- संविधान का राजनीतिक हिस्सा (कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध) काफी हद तक ब्रिटि”। संविधान से लिया गया है।

3- | j dkj dk | ॥ nh; Lo: i %&

- भारत के संविधान ने सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय ब्रिटि”। संसदीय शासन प्रणाली को चुना है।
- संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है जबकि राष्ट्रपति प्रणाली दो अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है।
- संसदीय प्रणाली को सरकार, जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के ‘वेस्टमिंस्टर’ मॉडल के रूप में भी जाना जाता है।
- संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है।
- संसदीय प्रणाली में, प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई है, और इसलिए इसे ‘प्रधानमंत्री सरकार’ कहा जाता है।

4- Hkkj r e॥ ॥ nh; | j dkj dh fo”शताएं क्या है।

भारत में संसदीय सरकार की वि”षताएं इस प्रकार है :

- वास्तविक और नाममात्र के अधिकारियों की उपस्थिति।
- बहुमत दल शासन।
- विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी।
- विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता।
- प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व।
- निचले सदन का विघटन (लोकसभा या विधानसभा)

5- | ॥ nh; | i Hkjk vkj U; kf; d | ”लेशण :-

- संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटि”। संसद से जुड़ा है जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के साथ जुड़ा हुआ है।
- जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटि”। प्रणाली से भिन्न है, उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान (अनुच्छेद 21) में निहित ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ के खिलाफ ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ प्रदान करता है।
- इसलिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटि”। सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित संलेषण को प्राथमिकता दी है।
- सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
- संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के बड़े हिस्से में संगोष्ठन कर सकती है।

#### 6- कानून का भासन :—

- इस स्वयंसिद्ध के अनुसार, लोग कानून द्वारा शासित होते हैं लेकिन पुरुषों द्वारा नहीं, यानी मूल सत्यवाद कि कोई भी व्यक्ति अचूक नहीं है। लोकतंत्र के लिए स्वयंसिद्ध महत्वपूर्ण है।
- अधिक महत्वपूर्ण यह अर्थ है कि कानून लोकतंत्र में संप्रभु है।
- कानून का मुख्य घटक रिवाज है जो कि वर्षों की लंबी संख्या में आम लोगों की अभ्यस्त प्रथाओं और विवासों के अलावा और कुछ नहीं है।
- अंतिम विवेषण में, कानून के शासन का अर्थ है आम आदमी की सामूहिक बुद्धि की संप्रभुता।
- इस महत्वपूर्ण अर्थ के अलावा, कानून के शासन का मतलब कुछ और चीजें हैं जैसे
  - मनमानी की कोई गुंजाइ”। नहीं।

- प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, और
  - सर्वोच्च न्यायपालिका दे”। के कानून की पवित्रता को बनाए रखने का अंतिम अधिकार है।
  - भारत के संविधान ने इस सिद्धांत को भाग 3 में शामिल किया है और अनुच्छेद 14 को अर्थ प्रदान करने के लिए (सभी कानून के समक्ष समान हैं और सभी को कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है), लोक अदालतों का प्रचार और सर्वोच्च न्यायालय के उद्यम के रूप में जाना जाता है ‘जनहित याचिका’ लागू की गई है।
  - साथ ही, दे”। के आज के कानून के अनुसार, कोई भी पीठासीन न्यायिक प्राधिकारी से अपील कर सकता है। वह मामले पर स्वयं बहस करे या न्यायपालिका की सहायता से कानूनी सहायता प्राप्त करे।
- 7- , dhdr vky Lor= U; k; i kfydk %&
- भारत में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है।
  - साथ ही, भारतीय संविधान भारतीय न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त करने में सक्षम बनाकर स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में खड़ा है। उच्चतम न्यायालय के नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है।
  - एक उच्च न्यायालय के तहत, अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम है, जो कि अदालतें और अन्य निचली अदालतें हैं।
  - सुप्रीम कोर्ट एक संघीय अदालत है, अपील की सर्वोच्च अदालत, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी और संविधान का संरक्षक है। इसलिए, संविधान ने अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए हैं।
- 8- ekfyd vf/kdkj %&
- भारतीय संविधान का भाग 3 सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
  - मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विषयताओं में से एक है।

- संविधान में बुनियादी सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक इसान के रूप में कुछ अधिकारों का आनंद लेने का अधिकार है और ऐसे अधिकारों का आनंद किसी बहुमत या अल्पसंख्यक की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है।
- किसी भी बहुमत को ऐसे अधिकारों को निरस्त करने का अधिकार नहीं है।
- मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ाव देने के लिए हैं।
- वे कार्यपालिका के अत्याचार और विधायिका के मनमाने कानूनों पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं।
- वे प्रकृति में न्यायोचित है, अर्थात् उनके उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है।

9- j kT; ds uhfr fun"kd fl ) k :-

- डॉ बीआर अम्बेडकर के अनुसार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक 'उपन्यास विषयोषता' है।
- इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है।
- हमारे लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था।
- निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जहाँ कुछ के हाथों में धन का संकेद्रण नहीं होगा।
- वे प्रकृति में गैर-न्यायिक हैं।
- मिनर्वा मिल्स मामले (1980) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है।

10-ekfyd dr]; %&

- मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था।
- मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था।
- यह भारत के सभी नागरिकों के लिए दस मौलिक कर्तव्यों की एक सूची देता है।

- बद में 2002 के 86वें संविधान संगोधन अधिनियम ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा।
- जबकि अधिकार लोगों को गारंटी के रूप में दिए जाते हैं, कर्तव्य वे दायित्व हैं जो प्रत्येक नागरिक से निभाने की अपेक्षा की जाती है।
- हालांकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह, कर्तव्य भी प्रकृति में गैर-न्यायिक है।
- कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं।

11-Hkj r̥; /kefuj i §krk %

- भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए खड़ा है।
- इसलिए यह किसी विषय को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानता है।
- भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की विषयाएँ हैं :
  - राज्य स्वयं की पहचान किसी धर्म के साथ नहीं करेगा या उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होगा
  - जबकि राज्य सभी को किसी भी धर्म को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है (जिसमें विरोधी या नास्तिक होने का अधिकार भी शामिल है) यह उनमें से किसी को भी अधिमान्य उपचार नहीं देगा
  - राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उसके धर्म या आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाया जाएगा तथा
  - प्रत्येक नागरिक को किसी भी सामान्य शर्त के अधीन, राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में प्रवेश करने का अधिकार साथी नागरिकों के समाना होगा। राजनीतिक समानता जो किसी भी भारतीय नागरिक को राज्य के तहत सर्वोच्च पद पाने का अधिकार देती है, संविधान द्वारा परिकल्पित धर्मनिरपेक्षता का दिल और आत्मा है।
- अवधारणा का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में धर्म विरोधी है।

- धर्मनिरपेक्षता की पाँचमी अवधारणा धर्म और राज्य (धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा) के बीच पूर्ण

12- , dkkRed i nökIxg ds | kFk | kh; 0; oLFkk %&

- भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली की स्थापना करता है।
- इसमें एक संघ की सभी सामान्य विषेषताएं शामिल हैं, जैसे कि दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता।
- हालाँकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर-संघीय विषेषताएँ भी शामिल हैं, जैसे कि एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्यायपालिका, और इसी तरह।
- इसके अलावा, 'फेडरेटिव' शब्द का इस्तेमाल संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 1, भारत को 'राज्यों के संघ' के रूप में वर्णित करता है जिसका तात्पर्य दो चीजों से है :
  - भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है।
  - किसी भी राज्य को महासंघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
- इसलिए, भारतीय संविधान को केसी व्हेयर द्वारा 'संघीय रूप में लेकिन भावना में एकात्मक', 'अर्ध-संघीय' के रूप में वर्णित किया गया है।

13- I kohkkfed o; Ld erkf/kdkj %&

- भारतीय लोकतंत्र 'एक व्यक्ति एक वोट' के आधार पर कार्य करता है।
- भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या स्थिति के बावजूद चुनाव में मतदान करने का हकदार है।
- भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है।

14- , dy ukxfjdrk :-

- एक संघीय राज्य में आमतौर पर, नागरिक दोहरी नागरिकता का आनंद लेते हैं जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है।
- भारत में केवल एक ही नागरिकता है।
- इसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है, चाहे उसका निवास स्थान या जन्म स्थान कुछ भी हो।
- वह झारखण्ड, उत्तरांचल या छत्तीसगढ़ जैसे संविधान राज्य का नागरिक नहीं है, जिससे वह संबंधित हो सकता है, लेकिन भारत का नागरिक बना रहता है।
- भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और भारत के सभी हिस्सों में समान रूप से सभी अधिकारों का आनंद ले सकते हैं।
- संविधान निर्माताओं ने क्षेत्रवाद और अन्य विघटनकारी प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए जानबूझकर एकल नागरिकता का विकल्प चुना।
- एकल नागरिकता ने निस्संदेह भारत के लोगों में एक भावना पैदा की है।

#### 1-5- vi uhi i xfr tkpi (Check your progress)

नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करें :—

- (i) भारत के लिए संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी।
- (ii) मसौदा समिति के प्रधान कौन थे?
- (iii) भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी।
- (iv) संविधान सभा का अन्तिम सम्मेलन कब हुआ था।
- (v) संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था?
- (vi) भारत के संविधान का पिता कौन माना जाता है?

#### 1-6- I kj kik (Summary) – ऊपर दिए गए विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान के अनेक स्रोत हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधानों से बहुत-सी बातें ली हैं जिनके परिणामस्वरूप कई बार इसे ^m/kkj yhi xbl oLrMvk dk Fkyk\* (Bag of Borrowings) अथवा ^f0fo/k I fo/kkuk\* dh f[kpMh\* (Hotch Potch) कहकर पुकारा जाता है, परन्तु यह आलोचना न्यायसंगत नहीं है। वास्तव में उनके द्वारा विदेशी संविधानों की उन धारणाओं तथा व्यवस्थाओं को अपने संविधान में ग्रहण कर लिया गया जो उन देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही थीं और भारत की परिस्थितियों के

अनुकूल थीं। इस प्रकार भारतीय संविधान विदे”गों से उधार लिया हुआ संविधान नहीं, बल्कि विभिन्न विदे”गी संविधानों की आद”र्फ—व्यवस्थाओं का संग्रह है। संविधान सभा के अध्यक्ष MKW jktJn i॥ kn ने कहा था कि यदि हम अन्य संविधानों से आद”र्फ व्यवस्थाएं ग्रहण नहीं करते तो सम्भवतः अपने अहम् की सन्तुष्टि करते, परन्तु भारत की व्यावहारिक आव”यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त द्वितीय महायुद्ध के बाद के समय तक संवैधानिक सिद्धान्तों का पर्याप्त विकास हो चुका था और ऐसी स्थिति में किसी मौलिक संविधान के निर्माण की बात सोचना सम्भव नहीं था। वास्तव में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता का ही कार्य किया। विदे”गी संविधान की आँख मूंदकर नकल नहीं की गई है, बल्कि विभिन्न संविधानों की विषेषताओं के संग्रह से भारतीय संविधान में मौलिकता भी आ गई है। अतः भारतीय संविधान को उधार ली गई वस्तुओं का थैला कहना सरासर गलत है।

### 1-7- सूचक भाव (Key Words)

संविधान प्रस्तावना, मन्त्रिमंडल, स्थगन प्रस्ताव, संविधान सभा

| fo/kku & संविधान कानूनों का ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी दे”र की सरकार को चलाया जाता है, ये कानून दे”र की सभी संस्थाओं पर लागु होते हैं तथा बाध्य होते हैं।

| Lrkou & प्रस्तावना, संविधान का मूल रूप है जिसके आधार पर संविधान का निर्माण होता है।

efl=e. My & मन्त्रिमण्डल में सरकार के सभी मन्त्रिगण शामिल होते हैं जो कानूनों के निर्माण में सलाहकारी कार्य करने के साथ कानूनों को बनाने में भूमिका निभाते हैं।

LFkxu | Lrko & स्थगन प्रस्ताव से हमारा अभिप्राय उन प्रस्तावों से है जिनके आधार पर सरकार उन कानून के निर्माण के कार्यों को विपक्ष रोकने का प्रयास करता है जो जनता के हित में न हो।

| fo/kku | Hkk & संविधान सभा का निर्माण संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। संविधान सभा में प्रारम्भ में 389 सदस्य थे।

### 1-8- Lo; a eV; kdu gsa॥ i”u (Self Assessment Questions) :-

- भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें।

Describe the main sources of Indian Constitution.

2. “भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धान्तों का समूह है।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं? वर्णन करें।

“The Constitution of India is a bag of borrowings.” Do you agree to this statement? Explain.

3. ‘भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम, 1935 का “गौरवपूर्ण संस्करण” है।’ इस कथन की दृष्टि में भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए।

‘The Constitution of India is a “glorified edition” of the government of India Act, 1935’. In the light of this statement, describe the main sources of Indian Constitution.

4. “हमारे संविधान—निर्माताओं ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि वे कोई मौलिक संविधान बनाएँगे, वे तो एक व्यावहारिक संविधान बनाना चाहते थे।” इस कथन की दृष्टि से भारतीय संविधान के स्रोतों का वर्णन कीजिए।

‘It was not the purpose of our constitution makers to produce an original or unique constitution. What they wanted was a good and a workable one.’ In the light of this statement describe the sources of Indian Constitution.

5. भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में संविधान के संगोधनों तथा परम्पराओं का वर्णन कीजिए।

Describe the various Amendments of the Constitution and the conventions as the sources of Indian Constitution.

6. भारतीय संविधान एक उधार लिया गया थैला है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? वर्णन करें।

Indian Constitution is a Bag of Borrowing. Do you agree with this statement? Explain.

1.9- विनियोगी संविधान के स्रोतों का वर्णन करें। (Answer to check your progress)

- (i) स्वराज दल ने
- (ii) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

- (iii) 12
- (iv) 24 जनवरी 1950
- (v) डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा
- (vi) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर

#### **1.10. | ઉન્હીનું પરિચય માટે (References / Suggested Readings)**

1. Public Administration, McGraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. પ્રાસનિક ચિંતક; પ્રસાદ એણ્ડ પ્રસાદ સત્યનારાયણ; જવાહર પબ્લિકેન્ચ એણ્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યૂન |

<b>Subject :</b> jktuhfrd foKku	
Course Code : <b>BA101</b>	Author : <b>Dr. Deepak</b>
Lesson No. : <b>2</b>	Vetter :
ekfyd vf/kdkj] ekfyd dÙkD; vkj jkT; uhfr ds funs'kd fl ) kr	

---

✓; k; &2 ekfyd vf/kdkj] ekfyd dÙkD; vkj jkT; uhfr ds funs'kd  
fl ) kr

---

2-1 vf/kxe mnfs'; (**Learning Objectives**)

2-2- i Lrkouk (**Introduction**)

2-3- ✓; u ds eq[; fcUnq (**Main Points of Text**)

2-3-1 ekfyd vf/kdkj D; k gñ (**What are Fundamental Rights?**)

2-3-2- ekfyd vf/kdkj dh fo"शताएं (**Features of Fundamental Rights**)

2-3-3- ekfyd vf/kdkjks dks I fo/kku esj [kus dk mnfs'; (**Purpose of including Fundamental Rights in the Constitution**)

2-3-4- ekfyd dÙkD; (**Fundamental Duties**)

2-4- i kB ds vkxs dk eq[; Hkkx (**Further main body of the text**)

2-4-1- I ॥kkRed I jdkj dk vFkz (**Meaning of Federal Government**)

2-4-1- mnfs'kd (Preamble)

2-5- vi uh i xfr tkp (Check your progress)

2-6- I kj kd'k (**Summary**)

2-7- सूचक भाष्ट (Key Words)

2-8- Lo; a eW; kdu grw i "u (Self Assessment Questions)

2-9- vi uh i xfr dh tkp djus ds fy, mÙkj (Answer to check your progress)

2-10- I UnHkz xJFk@funf"kr i Lrd (References/Suggested Reading)



## 2-1 विषयीकृत लक्षण (Learning Objectives)

इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे :—

- मौलिक अधिकारों का अध्ययन
- मौलिक कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी
- संघवाद की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण
- संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन
- भारतीय संविधान का संक्षिप्त विवरण


## 2-2- इंट्रोडक्शन (Introduction)

राज्य तथा व्यक्ति के आपसी सम्बन्धों की समस्या सदा से ही बहुत अधिक जटिल समस्या रही है और वर्तमान समय की लोकतन्त्रीय व्यवस्था में इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक ओर शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियन्त्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ सीमाएँ लगाना आवश्यक है ताकि राज्य मनमाने तरीके से कार्य करते हुए नागरिकों की स्वतन्त्रता एवं अधिकारों के विरुद्ध कार्य न कर सके। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था राज्य की स्वेच्छाचारी शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने का एक श्रेष्ठ उपाय है।

भारतीय संविधा के तीसरे भाग (अनुच्छेद 12–35) में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये वे अधिकार हैं, जो एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नति के लिए आवश्यक समझे जाते हैं और यह अनुभव किया जाता है कि इनका प्रयोग किए बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इन अधिकारों की व्यवस्था केवल भारतीय संविधान में ही नहीं, संसार के अन्य संविधानों में भी की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों के संविधानों में भी इनका वर्णन किया गया है इसका कारण यह है कि इनकी व्यवस्था लोकतन्त्रीय शासन–प्रणालीके लिए बहुत ही आवश्यक है। इन अधिकारों के प्रयोग से ही राज्य में ऐसी परिस्थितियों की स्थापना हो सकती है, जिनमें नागरिक अपना शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास कर सकते हैं। लोकतन्त्रीय शासन–प्रणाली में सत्ता बहुसंख्यक दल के हाथों में होती है, जो इसका प्रयोग अपने सदस्यों की भलाई के लिए करता है। नागरिकों द्वारा मौलिक अधिकारों का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग ही उसे ऐसा करने से रोक सकता है। **ठीक-उत्तम कृष्ण (G.N. Joshi)**

ने लिखा है, 'मौलिक अधिकार ही एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा एक स्वतन्त्र लोकतन्त्रीय राज्य के नागरिक अपने सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक जीवन का आनन्द पा सकते हैं। इन अधिकारों के बिना लोकतन्त्रीय शासन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता और बहुमत की ओर से सदा अत्याचार का भय बना रहता है।

## 2-3- वृहि; u d; e[; fclnq (Main points of text) %&



### 2-3-1 ekfyd vf/kdkj D; k g\ (What are Fundamental Rights?)

मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार हैं जो सभी नागरिकों को गारंटीकृत हैं। मौलिक अधिकारों को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू भी किए जा सकते हैं।

मौलिक अधिकारों को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। इस अवधारणा को अमेरिकी अधिकारों की सूची से लिया गया है। मूल अधिकारों के प्राचीन ज्ञात तथ्य प्राचीन भारत, ईरान आदि में भी मौजूद थे। मौलिक अधिकारों का यह नाम इसलिए है

क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षित किया जाता है, जोकि राष्ट्र का मूलभूत नियम है। वे इस अर्थ में भी 'मौलिक' हैं कि वे व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक) के लिए सबसे जरूरी हैं।

eljyf vf/kdkj : भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित, मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त बुनियादी मानवाधिकार है। छह मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल हैं।

### 2-3-2- eljyf vf/kdkj dli fo"”शाताएं (Features of Fundamental Rights)

1. राष्ट्रीय आंदोलन के भावना के अनुकूल : भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के समझ बार-बार अपने अधिकारों की मांग रखी थी। स्वतंत्रता के प"चात् सौभाग्यव"ा भारतीय संविधान सभा के लिये राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बहुमत में निर्वाचित हुए थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय की अपनी पुरानी मांग को भारतीय संविधान में सर्वोपरी प्राथमिकता देते हुए मौलिक आधिकारों की व्यवस्था की।
2. l okf/kd foLrr , o1 0; ki d vf/kdkj %& भारतीय संविधान के तृतीय भाग में अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो अन्य दे"गों के संविधान में किये गये वर्णन की तुलना में सर्वाधिक है।
3. 0; kogkfj drk i j vk/kkfj r :— भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सिद्धांत न होकर व्यावहारिक और वास्तविकता पर आधारित है। किसी भेदभाव के बिना समानता के आधार पर सभी नागरिकों के लिए इनकी व्यवस्था की गयी है। साथ ही अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग की उन्नति एवं विकास के लिए विषेष व्यवस्था भी की गयी है।
4. Vf/kdkj kls nks : i %& मौलिक अधिकारों के सकारात्मक एवं नकारात्मक दो रूप है। सकारात्मक स्वरूप में व्यक्ति को विषाघ अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता धर्म शिक्षा और संस्कृति आदि से संबंधित अधिकारों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इस प्रकार सकारात्मक अधिकार सीमित एवं मर्यादित है। नकारात्मक स्वरूप में वे अधिकार आते हैं जो निसेधाज्ञाओं के रूप में हैं और राज्य की शक्तियों को सीमि एवं मर्यादित करते हैं। इस प्रकार नकारात्मक अधिकार असीमित है।

5. ekfyd vf/kdkj vI hfer ugha %& भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित में सीमित करने की व्यवस्था की गयी। लोक कल्याण, प्र”ासनिक कु”लता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाये जा सकते हैं। संसद ने सन् 1979 में 44 वें संविधान द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को लेकर केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया है।
6. I j dkj dh fuj dI”krki j vdI”k %& मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक की स्वतंत्रता के द्योतक और उसकी भारतीय नागरिकता के परिचायक है। संविधान द्वारा इनके उपयोग का पूर्ण आ”वासन दिया गया है। अतः किसी भी स्तर की भारत सरकार मनमानी करते हुए उन पर अनुचित रूप से प्रतिबंध नहीं लगा सरकार, जिला-परिषद, नगर-निगम या ग्राम पंचायतें आदि समस्त निकाय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती।
7. j kT; ds I kekU; dkuluks I s Åij %& मौलिक अधिकार को ”दे” के सर्वोच्च कानून अर्थात् संविधान में स्थान दिया गया है और साधारणतया संविधान सं”गोधन प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मौलिक अधिकार संसद और राज्य-विधानमण्डलों द्वारा बनाये गये कानूनों से ऊपर है। संघीय सरकार या राज्य सरकार इनका हनन नहीं कर सकती। ‘गोपालन बनाम मद्रास राज्य’ विवाद में न्यायाधी”। श्री पातंजलि शास्त्री ने कहा था – “मौलिक अधिकारों की सर्वश्रेष्ठ विषेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित कानूनों से ऊपर हैं।”
8. U; k; ky; }kj k | j {k. k :— मौलिक अधिकार पूर्णतया वैधानिक अधिकार है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय न्यायपालिका को अधिकृत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार, भारत का प्रत्येक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालयों या सार्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप में प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। चूंकि भारतीय न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त है, इसलिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए वह संविधान द्वारा दिये गये

संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आव”यक निर्देश” भी निर्गत कर सकती है।

9. Hkkj rhl; ukxfj dk; rFkk fons”k; k; e; vrj %& भारतीय नागरिकों तथा भारत में निवास करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारों में अंतर है। मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों के साथ-साथ विदेशीयों को भी प्राप्त है, जैसे जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, परन्तु शेष अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही सुरक्षित है। इस प्रकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त समस्त मौलिक अधिकारों का उपभोग विदेशी नागरिक नहीं कर सकते।

### 2-3-3- ekfyd vf/kdkj k; dk I fo/kku e; j [kus dk mnfs”; (**Purpose of including Fundamental Rights in the Constitution**)

मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, जो व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए मौलिक तथा आव”यक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों के प्रयोग में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों के मौलिक होने का प्रथम कारण यह है कि ये व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए आव”यक माने जाते हैं और इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इन अधिकारों को देश के संविधान में स्थान दिया जाता है, ताकि संवैधानिक सं”ोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन न किया जा सके। दूसरे, मौलिक अधिकार साधारणतः अनुल्लंघनीय होते हैं अर्थात् विधानमण्डल, कार्यपालिका अथवा सत्तारूढ़ दल द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अन्त में, मौलिक अधिकार न्याय-संगत (Justiciable) होते हैं अर्थात् न्यायपालिका उनकी रक्षा के लिए उचित कदम उठा सकती है।

मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने के निम्नलिखित कारण थे –

1- I vYkkfud ijEijkvk; ds dkj.k (**Reasons for the Constitutional Traditions**) – भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का एक मुख्य कारण यह था कि संसार के अन्य सभी संविधानों में इन अधिकारों को रखा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पहले दस सं”ोधनों में इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त फ्रांस, जापान, स्विटजरलैण्ड तथा चीन आदि देशों में मौलिक

अधिकारों को संविधान में उचित स्थान दिया गया है। इस कारण भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भी अपने संविधान में इन अधिकारों को शामिल किया।

2- vr̄hr dk vukko (**Past Experience**) — भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में बहुत से सदस्य ऐसे थे, जिन्होंने भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था, ब्रिटिश कार्यपालिका के अत्याचार सहे थे और दण्डित हुए थे। अतः वे ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, जिसमें कार्यपालिका नागरिकों पर अत्याचार न कर सके। इस कारण भी मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया।

3- | ūkk: <+ ny ds VR; kpkj | s | j {kk (**Protection from the Tyranny of the Ruling Party**) — मौलिक अधिकारों को संविधान में रखने का एक मुख्य कारण यह भी है कि संविधान के निर्माता नागरिकों को सत्ताधारी दल के अत्याचार से बचाना चाहते थे। इसका अर्थ यह है कि यदि इन अधिकारों में सं”गोधन करने की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया की तरह साधारण होती तो सत्ताधारी दल इनमें सं”गोधन करके जनता पर अत्याचार कर सकता था।

4- eukoKlfud dkj . k (**Psychological Reasons**) — संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश मनोवैज्ञानिक कारणों से भी किया गया है। इससे नागरिकों में यह भावना पैदा होती है कि उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान किए गए हैं। इससे नागरिकों में नैतिकता का विकास होता है, अतः उनमें साहस की, अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष करने की तथा अपना विकास करने की भावना पैदा होती है। स्पष्ट है कि मौलिक अधिकारों का संविधान में समावेश राष्ट्र के चरित्र को उन्नत करता है।

5- vYi erk ds fgrk dhl j {kk (**Safeguard of Minorities**) — भारत एक विद्वाल देश है। यहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जो विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। भले ही देश में संस्कृति का आधार एक ही है, परन्तु सभ्यता में अन्तर होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में कहीं बहुसंख्यक अपने बहुमत के आधार पर कोई वस्तु अल्पमतों पर न थोड़े, इसलिए मौलिक अधिकारों को संविधान में रखा गया। अल्पमतों को धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion), सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights) आदि प्रदान किए गए।

6- Hkkj rh; itkrU= ds fy, vko”; d (**Necessary for Indian Democracy**) — भारत काफी समय तक ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा है, जिससे यहाँ

प्रजातन्त्रीय संस्थाओं का विकास नहीं हो सका। लोकतन्त्रीय शासन—प्रणाली को सफल बनाने के लिए लोकतन्त्रीय परम्पराओं का होना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों को सरकार के हाथों में रखना उचित नहीं था। इसलिए मौलिक अधिकारों को संविधान में रखना आवश्यक हो गया, ताकि कोई सत्ताधारी दल इन अधिकारों का उल्लंघन न कर सके।

**el&fyd vf/kdkj k़ dh fo”ोषताएँ (लक्षण) (Features Characteristics of Fundamental Rights)** – भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की मुख्य विषयों निम्नलिखित हैं –

1- **foLr`r RkFkk tfVy (Elaborate and Complex)** – भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार बहुत ही विस्तृत तथा जटिल हैं। विस्तृत होने का मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक अधिकार को विस्तारपूर्वक लिखा गया है और उनके हर भाग को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। इसके अतिरिक्त ये जटिल इस कारण से हैं कि प्रत्येक अधिकार पर प्रतिबन्ध और सीमा भी निर्दिष्ट की गई हैं; जैसे अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं परन्तु इसी अनुच्छेद के अलग—अलग प्रावधानों में उन प्रतिबन्धों का वर्णन किया गया है, जिसके अन्तर्गत सरकार इन अधिकारों के उपयोग पर आवश्यकतानुसार प्रतिबन्ध लगा सकती है।

2- **I j dkj k़ rFkk I j dkj h I LFkkvka ij i frcU/k (Restrictions on the Governments and governmental Authorities)** – मौलिक अधिकारों के अध्याय में उन उपबन्धों का भी वर्णन है, जो राज्य की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। अनुच्छेद 18 राज्य को आज्ञा देता है कि वह किसी नागरिक को फौक्षा या सेना सम्बन्धी उपाधि के सिवाय और उपाधि प्रदान न करे। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 13(2) में भी यह स्पष्ट व्यवस्था है कि ‘राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो संविधान के तृतीय भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है या घटाता है। यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा तो वह कानून उस सीमा तक रद्द समझा जाएगा, जिस सीमा तक इस धारा की अवहेलना करता है।’

3- **vf/kdkj fuj dI”k ugha (Rights are not Absolute)** – हमारे संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार पूर्ण और निरंकुश नहीं हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ—साथ उन पर प्रतिबन्ध भी लगाए गए हैं। कुछ अधिकारों पर तो ये सीमाएँ ओर

प्रतिबन्ध संविधान द्वारा ही निर्धारित कर दिए गए हैं और कुछ पर संसद को आवश्यकतानुसार प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

4- **ukxfj dk rFkk fonf"k; k; ei Hkn djuk (Distinction between Citizens and Aliens)** — मौलिक अधिकारों के उपभोग में नागरिकों और विदेशीयों में भेद रखा गया है। कानून के सामने समानता तथा धार्मिक स्वतन्त्रता जैसे अधिकार तो “देश” में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, परन्तु कई अधिकार केवल “देश” के नागरिकों को ही प्राप्त हैं; जैसे भाषण देने तथा एकत्र होने की स्वतन्त्रता। विदेशीयों को ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किए जाते।

5- **I fo/kku ds vfrfjDr vkj vf/kdkj dk u gkuk (No Rights outside the Constitution)** — हमारे “देश” के संविधान द्वारा किए गए मौलिक अधिकारों का विस्तारपूर्वक वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। नागरिकों को इस भाग में दिए गए अधिकारों के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं, जिन्हें मौलिक माना जा सकता है।

6- **I k/kj .k 0; fDr; k; rFkk I LFkkvki j i Hkko gkuk (Effect on Private Individuals and Organisations)** — संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का प्रभाव सरकार तथा सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त गैर-सरकारी व्यक्तियों और संस्थाओं पर भी है; जैसे छुआछूत को असंवैधानिक घोषित किया गया है।

7- **vf/kdkj dk fuyECU (Suspension of Rights)** — संविधान निर्माता जानते थे कि मौलिक अधिकार नागरिकों को केवल साधारण परिस्थितियों में ही दिए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने संकटकाल के समय “देश” के व्यापक हितों को सुरक्षित रखने के लिए इन अधिकारों के निलम्बित किए जाने की व्यवस्था भी की है। संकटकाल में राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत प्रदान किया गया स्वतन्त्रता का अधिकार स्थगित किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति नागरिकों का न्यायपालिका की शरण लेने का अधिकार भी निलम्बित कर सकता है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत यह स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत दी गई जीवन एवं निजी स्वतन्त्रता की सुरक्षा का अधिकार संकटकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता।

8- **I dn dks ekfyd vf/kdkj dk I #गोधन करने की भावित (Parliament's Power to amend Fundamental Rights)** — संविधान के अन्तर्गत संसद

को मौलिक अधिकारों में सं”गोधन करने की शक्ति भी प्राप्त है, जिसके लिए उसे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती। गोलकनाथ के प्रसिद्ध मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की इस शक्ति को नहीं माना, परन्तु संविधान इस बारे में स्पष्ट नहीं।

9- udkj kRed rFkk | dkj kRed vf/kdkj (**Negative and Positive Rights**) – भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों प्रका के हैं। नकारात्मक अधिकार निषेधों की तरह हैं, जो सरकार की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। उदाहरणस्वरूप, साधारण काल में सरकार कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे कि नागरिकों की स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार का आघात हो।

ekfyd vf/kdkj k| dk oxhldj .k (**Classification of Fundamental Rights**) – भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग (अनुच्छेद 12–35) में किया गया है। इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 का सम्बन्ध अधिकारों के सामान्य रूप से है।

अनुच्छेद 12 में ‘राज्य’ शब्द की परिभाषा की गई है, जिसके अर्थ में केन्द्रीय कार्यपालिका, संसद, राज्यों की सरकारों और विधानसभाओं के अतिरिक्त भारत के क्षेत्र में स्थित सभी स्थानीय सरकारें तथा अन्य विभाग सम्मिलित हैं, जिन पर भारत सरकार का नियन्त्रण स्थापित है। इस प्रकार ‘राज्य’ शब्द का बहुत व्यापक अर्थ लिया गया है, जिसमें सरकार का प्रत्येक विभाग आ जाता है, चाहे वह कार्यपालिका है या विधानपालिका, केन्द्रीय है या प्रान्तीय। इन सबको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने की मनाही की गई है।

44वें सं”गोधन के पास होने से पूर्व संविधान में दिए मौलिक अधिकारों को प्रायः सात श्रेणियों में बांटा गया था, परन्तु इस सं”गोधन के अनुसार, ‘सम्पत्ति के अधिकार’ (Right to property) को मौलिक अधिकारों के अध्याय से निकालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित छः मौलिक अधिकार प्राप्त है—

- क. समानता का अधिकार (Right to Equality)
- ख. स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom)
- ग. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)
- घ. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)
- ঢ. सांस्कृतिक तथा शिक्षा—सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights)
- চ. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

#### d- I ekurk dk vf/kdkj (**Right to Equality**) %&

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14–18 में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। जब संविधान सभा ने संविधान बनाया तो संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले समानता के अधिकारों को रखा क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को समाज में समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने भी समानता के अधिकारों को रखा। इन अधिकारों का विवरण निम्नलिखित है :—

1- dkuu ds I e{ k I ekurk & अनुच्छेद 14 (Equality before Law – Article 14) – संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार “भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

2- /ke] uLy] tkfr] fyx vFkok tue&LFku ds vk/kj ij HknHkko dh eukgh (Prohibition of Discrimination on grounds of Religion, Race, Caste, Sex, Place of Birth or any of them – Article 15) – अनुच्छेद 15 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म–स्थान आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा।

3- I jdkjh ukdj iks dk I eku vol j & vuPNn 16 (Equality of Opportunity in Matters of Public Employment – Article 16) – अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी पाने के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस सम्बन्ध में धर्म, वं”त, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा।

4- NvkNir dh I Ekkfir & vuPNn 17 (Abolition of Untouchability – Article 17) – अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया है। सन् 1955 में संसद के द्वारा ‘अस्पृ’यता अपराध अधिनियम (Untouchability Offence Act) पास किया, जो समस्त भारत पर लागू होता है।

5- mi kf/k; k dk vUr&vUkPNn 18 (Abolition of Titles – Article 18) – अनुच्छेद 18 में यह कहा गया है कि राज्य सैनिक अथवा शिक्षा सम्बन्धी उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगी।

[k- LorU=rk dk vf/kdkj & vuPNn] 19 I s 22 rd (**Right to Freedom – Articles, 19 to 22**) – संविधान में स्वतन्त्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22

तक किया गया है। सामूहिक रूप से चारों ही अनुच्छेद व्यक्ति-स्वतन्त्रता के अधिकार पत्र हैं और मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित अध्याय का मुख्य आधार है। इस प्रकार ये अधिकार 'मौलिक अधिकारों की आत्मा' हैं, क्योंकि इन अधिकारों के बिना अन्य अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहता। इन अधिकारों के आधार पर ही प्रजातन्त्रीय समाज की कल्पना की जा सकती है। इस विषय में पायली (Paylee) महोदय का कथन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है, "संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अध्याय में शामिल करके ठीक ही किया है तथा इस प्रकार प्रजातन्त्रीय समाज के विकास में सहायता की है।"

1- vupNn 19 ds }kj fuEufyf[ kr 6 i dkj ds LorU=rk, j i nku dh xb! g&

- d- भाषण तथा लेखन की स्वतन्त्रता (Freedom of Speech and Expression)
- ख. शान्तिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के इकट्ठा होने की स्वतन्त्रता (Freedom to Assemble Peacefully and without Arms)
- ग. संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता (Freedom to form Associations and Unions)
- घ. भारत के किसी भी क्षेत्र में आने-जाने की स्वतन्त्रता (Freedom to Move freely throughout the Territory of India)
- ड. भारत के किसी भी भाग में रहने या निवास करने की स्वतन्त्रता (Freedom of Reside and Settle in any part of the Territory of India)
- च. कोई भी व्यवसाय करने, पेंगा अपनाने या व्यापार करने की स्वतन्त्रता (Freedom to Practise any Profession or Carry on any Occupation, Trade or Business).

2- अपराध की दोश सिद्धि के विशय में संरक्षण (अनुच्छेद 20)

(Protection in Respect of Conviction for offence (Art 20)) – अनुच्छेद 20 में कहा गया है, "किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो।" इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दण्ड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

3- 0; fDrxr LorU=rk rFkk thou dh I j{kk dk vf/kdkj %vupNn

21½ (Right to Protection of Life and Personal Liberty (Art, 21) – प्रत्येक प्रजातन्त्रिक

संवैधानिक व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का होना अनिवार्य है। ब्रिटेन में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का आधार कानून का शासन (Rule of Law) है। भारत में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की व्यवस्था अनुच्छेद 21 में स्पष्ट की गई है।

4- cJnhdj.k dh voLFkk eI i j{k.k dk vf/kdkj ¼vupNn 22½ (Right to Protection against Arrest and Detention in certain Cases (Article 22) – संविधान के अनुच्छेद 22 के द्वारा गिरफ्तारी एवं बन्दीकरण की अवस्था में व्यक्ति को निम्नलिखित सुरक्षाएँ प्रदान की गई हैं –

क. किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध या बन्दी के कारणों को बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

ख. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने पेंट करना आवश्यक है।

ग. बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बन्दी को जेल में नहीं रखा जा सकता।

घ. बन्दी को कानूनी सलाह प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।

X- भांशण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद, 23–24 (Right against Exploitation – Article, 23-24) –

1- मानवीय व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी का निशेध (Prohibition of Traffic in human beings and forced labour) – संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के क्रय-विक्रय (Traffic in Human Beings) तथा बेगार अथवा किसी से जबरदस्ती काम करवाने की मनाही कर दी गई है और इसका उल्लंघन करना विधि के अनुसार दण्डनीय अपराध है। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों के शोषण की मनाही की गई है। भारत में अनेक शताब्दियों से किसी—न—किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार गरीबों, मजदूरों तथा स्त्रियों आदि पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। नए संविधान के अन्तर्गत शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दण्डनीय घोषित कर दिया गया है।

2- dkj [kkuk] vlfn eI cPpk dks yxkus dh eukgh (Prohibition of Employment of Children in factories etc.) – अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य किसी ऐसे जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधुआ

मजदूरों (Bonded Labour) के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। इस प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतन्त्र की स्थापना करना है।

?k- /kkfeld LorU=rk dk vf/kdkj & vupNj 25&28 (Right to Freedom of Religion – Article, 25-28) –

1- fdl h Hkh /keJ dks ekuus rFkk i pkj dj us dh LorU=rk (Freedom to protest and practice any religion) – अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि सार्वजनिक अनु”ासन, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने तथा प्रचार करने का अधिकार होगा; जैसे सिक्खों को कृपाण धारण करने का भी अधिकार है परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धर्म की आड़ में यदि कोई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य किया जाता है, तो सरकार को उस पर नियन्त्रण रखने तथा उसके सम्बन्ध में अधिनियम बनाने का पूरा अधिकार होगा। राज्य को सामाजिक कल्याण तथा सुधारों के हित में अनुसूचित जातियों व जनजातियों को मन्दिर आदि में प्रवेश करने के लिए कानून बनाने तथा हिन्दू धार्मिक संस्थाओं में समर्त हिन्दू वर्ग (जिसमें सिक्ख, जैन तथा बौद्ध आदि मत भी शामिल हैं) के प्रवेश के अधिकार सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार होगा।

2- /kkfeld ekeyk ds i c/k dh LorU=rk (Freedom to manage religious affairs) – अनुच्छेद 26 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदा अथवा उसके किसी भाग को धर्म अथवा दान सम्बन्धी उद्देश्य के लिए संस्थाएँ स्थापित करने तथा उन्हें चलाने, धर्म के मामलों में अपने कार्यों का स्वयं प्रबन्ध करने, चल तथा अचल सम्पत्ति को प्राप्त करने तथा कानून के अनुसार उस सम्पत्ति का प्रबंध करने का अधिकार होगा।

3- /kkfeld 0; ; ds fy, fuf”pr dh dh vnk; xh dh NIV (Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion) – अनुच्छेद 27 में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संस्था के लिए चन्दा अथवा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और सरका द्वारा न ही कोई ऐसा टैक्स लगाया जा सकता है, जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष के लिए खर्च की जाने वाली हो।

4- jktdh; f"kk{kk. k | LFkkvks e] /kfeld f"kk{kk ij vdi"k (Check on religious instructions in Government Institutions) – अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य के द्वारा स्थापित किसी भी धौक्षा संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक धौक्षा नहीं दी जा सकती और उन धौक्षा संस्थाओं में जो सरकार से आर्थिक सहायता लेती है। किसी भी विद्यार्थी को उसकी इच्छा के विरुद्ध धार्मिक धौक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

M- I kLdfrd rFkk f"kk{kk&I ECU/kh vf/kdkj & vuPNn] 29&30 (**Cultural and Educational Rights – Article, 29-30**) – भारत भिन्न-भिन्न भाषाओं तथा संस्कृतियों को अपनाने वाले लोगों का दें। है, इसलिए संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक की भाषा तथा संस्कृति आदि के मामलों में रक्षा की गई है।


1- vYi | a[; dk; ds vf/kdkj dh | j{kk (**Protection of interest of Minorities**) – अनुच्छेद 29 के द्वारा नागरिकों के प्रत्येक समूह को, जो भारत की धरती पर रहता है तथा जिसकी अपनी निर्चित भाषा (Language), लिपि (Script) तथा संस्कृति (Culture) है, अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि किसी भी राजकीय अथवा राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली धौक्षा संस्था में किसी भी विद्यार्थी को केवल भाषा, धर्म, जाति तथा वंश या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश पाने से नहीं रोका जा सकता है।

2- भौक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनका प्रबंध करने का vYi | a[; dk; dk; vf/kdkj (Right to Minorities to establish and administer educational institutions) – अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छानुसार धौक्षा संस्थाएँ स्थापित करने तथा उन्हें चलाने या प्रबंध करने का अधिकार होगा। इस धारा में यह भी कहा गया है कि राज्य द्वारा धौक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय किसी धौक्षा संस्था के प्रति इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह अल्पसंख्यकों के प्रबन्ध के अधीन है, चाहे वह अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर हों अथवा धर्म के आधार पर।

p- I vYkkfud mi pkj dk vf/kdkj & vuPNn] 32 (**Right to Constitutional Remedies-Article, 32**) – भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की

केवल घोषणा ही नहीं की गई है, वरन् उनको लागू करने के लिए भी उचित उपाय किए गए हैं।

अनुच्छेद 32 अनुसार नागरिकों को यह अधिकार है कि यदि कोई उनके अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करता है, चाहे वह सरकार ही क्यों न हो, तो वे उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उसके विरुद्ध न्याय की मांग कर सकते हैं। केन्द्रीय संसद अथवा कोई राज्य विधानमण्डल यदि इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कोई कानून बना देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को उसे अवैध घोषित कर रद्द करने का अधिकार है। यह धारा संविधान के इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि इसके बिना सभी मौलिक अधिकार निरर्थक हो जाते हैं। संविधान के निर्माण के समय इस अनुच्छेद की प्रांसा करते हुए डॉ बी.आर. अम्बेडकर (Dr. B.R. Ambedkar) ने संविधान सभा में कहा था।



### 2-3-4- ekfyd dūkṛ; (Fundamental Duties)

संविधान के 42वें संशोधन द्वारा सन् 1976 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का एक नया अध्याय चतुर्थ-ए (Part IV-A) संविधान में शामिल कर दिया गया। इस भाग में केवल एक ही अनुच्छेद (51-A) है, जिसमें नागरिकों के दस मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। यद्यपि यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दिसम्बर, 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रत्येक माता-पिता या संरक्षकों के लिए अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रोत्साहन करने संबंधी उचित सुविधाएँ एवं अवसर उपलब्ध करवाने संबंधी कर्तव्य को निर्दिष्ट करने के बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है।

### ukxfj dk ds ekfyd dūkṛ; (Fundamental Duties of the Citizens) —

- 1- इति क्षेत्रीय संघर्ष को राश्ट्रीय झंडे तथा राश्ट्रीय धर्म का सम्मान करना (To abide by the Constitution

and respect its ideals and Institutions, the National Flag and the National Anthem) — संविधान के आदर्माँ में राष्ट्रीय प्रभुसत्ता, धर्म—निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता, लोकतन्त्र आदि वे सब आदर्माँ आ जाते हैं, जो हमारे संविधान की आधाराँला हैं। एक अच्छे नागरिक का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह इन सबका सम्मान करे और सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करे ताकि दे”। का शासन ठीक से और बिना किसी अड़चन के चल सके।

2- mu mPp vkn”kkः dk | Eeku vkj i kyu djuk ftUgkus gekjh स्वतन्त्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को उत्प्रेरित किया (To Cherish and Follow the Noble Ideals which inspired our National Struggle for Freedom) — हमारे दे”। में स्वतन्त्रता संग्राम कुछ आदर्माँ को लेकर चलाया गया था, जिनका आज के स्वतन्त्र भारत में भी उतना ही महत्व है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया है कि प्रत्येक नागरिक इन आदर्माँ को अपनाए तथा इनका सम्मान करे और इस प्रकार राष्ट्र के विकास और पुनः स्थापना में सहायक हो। इन आदर्माँ में अहिंसा, बन्धुत्व, धर्म—निरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकता आदि आदर्माँ सम्मिलित हैं।

3- Hkkj r dh i Hkq Ukk] , drk rFkk v[k. Mrk dks cuk, j [kuk vkj | j f{kr j [kuk (to uphold and protect the Sovereignty, Unity and Integrity of India) — इस कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का उद्देश्य ऐसे तत्वों को अस्वीकार करना और रद्द करना है, जो क्षेत्रीय धारणाओं को महत्व देते हुए भारतीय एकता को अस्वीकार करते हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय हितों को हानि पहुँचाते हैं।

4- n”k dh j {kk djuk rFkk vko”यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना (To Defend the Country and Render National Service when called upon to do so) — ये मौलिक कर्तव्य संविधान में सम्मिलित करके नागरिकों को राष्ट्रीय सेवा के कार्य के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। रूस जैसे दे”। में हर नागरिक के लिए कुछ समय के लिए अनिवार्य सैनिक सेवा एक मौलिक कर्तव्य के तौर पर संविधान में लिखा गया है। 42वें संगोष्ठी के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ केवल सैनिक सेवा ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार की ऐसी सेवा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में हो।

5- धार्मिक, भाशायी तथा क्षेत्रीय अथवा वर्गीय भिन्नताओं से जो देना, स्त्रियों की प्रतिश्ठा का अपमान करने वाले व्यवहार को त्यागना (To promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women) — इस कर्तव्य का उद्देश्य भारत में रहने वाले लोगों में भिन्नताओं के स्थान पर आपसी मेल—मिलाप और भ्रातृत्व की भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना बिल्कुल भारतीय सभ्यता के अनुकूल है।

6- हमारी भानदार संयुक्त संस्कृति की परम्परा का सम्मान करना और मूल संस्कृति के शासनकाल में भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया था। पर्वचमी सभ्यता की तड़क—भड़क तथा प्राक्षा के प्रभाव ने भारतीयों को पर्वचम के दास बनाकर रख दिया था। स्वतन्त्रता—प्राप्ति के बाद भी ये प्रभाव कम नहीं हुए। अब हर नागरिक का यह कर्तव्य बना दिया गया है कि वह देश की शानदार संस्कृति का सम्मान करे और उसे समृद्ध बनाने का यत्न करे।

7- तायकि >ह्यकि उफनि कि रफ़कि तु&थोु लफ़रि इक्दफ़रि ओर्कोज़िक डक्सि लज़िफ़रि ज़िक्कुकि लप्पक्कुकि व्हक्कि लथो इक्फ़िक्कि डसि इफ़रि लग्कुह्कुफ़रि ज़िक्कुकि (To protect and Improve the Natural Environment Including Forests, Lakes and wild life and to have compassion for living creatures) — ये मौलिक कर्तव्य संविधान में सम्मिलित करके भारतीय नागरिकों को प्रकृति के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। पर्यावरण को शुद्ध बनाने का कर्तव्य नागरिक का मुख्य कर्तव्य माना गया है। पर्यावरण संरक्षण के साथ—साथ वन्य प्राणियों तथा अन्य सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार मानव का मुख्य कर्तव्य माना गया है।

8- ओक्फुद ऐक्ना"पि, मानवतावाद, अन्वेशण और सुधार की भावना फोड़ि र डजुकि (To develop the Scientific temper, Humanism, the Spirit of Investigation and Reform) — इस कर्तव्य का उद्देश्य भारत के लोगों को यह प्रेरणा देना है कि वे अन्धविद्वास को समाप्त करके अपने दृष्टिकोण को जागरूक और तर्कसंगत

बनाएँ। उनमें मानवतावाद जागृत हो और वे सुधारवादी रवैया अपनाएँ, ताकि राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ता रहे। यह कर्तव्य भारतीयों में उदारवादी भावना और विचारधारा उत्पन्न करने वाला है।

9- tu&| Ei fÙk dks | jf{kr j [kuk vkj fgdk dks R; kxuk (To safeguard the Public Property and to adjure Violence) – गत वर्षों में हमारे देश में तोड़-फोड़ की गतिविधियाँ इतना जोर पकड़ गई कि सार्वजनिक सम्पत्ति का नित्य ना”श होने लगा। जगह-जगह हुल्लड़बाजी, हिंसात्मक विद्रोह, बसों तथा इमारतों आदि को तोड़ना एवं आग लगाना नित्य दिन के समाचार बन गए। इस प्रकार की गतिविधियाँ राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत हानिकारक हैं। इस कर्तव्य द्वारा नागरिकों को ऐसी देश-द्रोही और जन-सम्पत्ति के लिए हानिकारक गतिविधियों को त्यागने का आदेश दिया गया है, ताकि सामाजिक जीवन शान्तिमय बन सके। रुस जैसे देश में जन-सम्पत्ति का ना”श करने वालों के लिए बहुत कड़ी सजा निर्देशन की गई है।

10- vykitgat और सामूहिक सरगर्मी के हर क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए यत्न करना, ताकि परिश्रम और प्राप्ति के उच्च स्तर की ओर राश्ट्र लगातार उन्नत gkrk jgs (To Strive towards Excellence in all spheres of Individual and Collective Activity so that our Nation Constantly Rises to Higher levels of Endeavour and Achievement) – इस कर्तव्य द्वारा लोगों में यह प्रेरणा विकसित करने का प्रयत्न किया गया है कि वे सामूहिक तौर पर, आपसी भिन्नताओं और मतभेदों की ओर ध्यान न देकर राष्ट्रीय उन्नति के पवित्र कार्य में जुटे रहें।

11- ekrk&firk }jk k vi us CPpk ds fy, f"kk{kk lckh vol jk dh 0; oLFkk djuk (To provide opportunities concerning the education of children by their parents) – 86वें संविधान सं”गोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 51-ए में सं”गोधन करके एक अन्य अनुच्छेद 51-K जोड़कर एक अन्य मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों अथवा संरक्षकों का यह दायित्व बनता है कि वह अपने बच्चों को ऐसी उचित सुविधाएँ एवं अवसर उपलब्ध करवाएँ जिनके फलस्वरूप बच्चे प्राक्षा ग्रहण कर सकें। अतः उपर्युक्त सं”गोधन द्वारा माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए प्राक्षा संबंधी अवसर उपलब्ध करवाने को अनिवार्य बनाया गया है।

2-4- i kB ds vkxs dk eq[; Hkkx (**Further main body of the text**)

#### 2-4-1- I HkkRed | j dkj dk vFk [ **(Meaning of Federal Government)**

वर्तमान काल में संघात्मक शासन—प्रणाली अधिक लोकप्रिय है और कई दे”गों में इसको अपनाया गया है। संघीय सरकार उसे कहते हैं जहाँ केन्द्र तथा प्रान्तों में शक्तियों का विभाजन होता है। केन्द्र व प्रान्तीय सरकारें अपने—अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करती हैं। सत्ता का विकेन्द्रीयकरण संविधान द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। केन्द्र व राज्यों को संविधान से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

संघ जिसे अंग्रेजी में ‘फेडरेशन’ (Federation) अथवा ‘फेडरल’ (Federal) कहा जाता है, वास्तव में लैटिन भाषा के एक शब्द ‘फोडस’ (Foedus) से बना है, जिसका अर्थ है ‘सन्धि’ अथवा ‘समझौता’।

1- ekWVLD; || (Montesquieu) के शब्दों में, “संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जहाँ बहुत—से एक—जैसे राज्य बड़े राज्य के सदस्य बनने के लिए सहमत हों।”

2- gfeVVu (Hamilton) का कथन है, “संघ राज्य, राज्यों का एक ऐसा समुदाय है जो एक नवीन राज्य की स्थापना करता है।”

3- xkujj (Garner) का कथन है, “संघ सरकार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुसत्ता के अधीन होती हैं। ये सरकारें संविधान द्वारा अथवा संसदीय कानून द्वारा निर्धारित अपने—अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च होती हैं।”

#### I HkkRed | j dkj ds y{k. k **(Features of Federal Government)**

प्रत्येक संघीय व्यवस्था में कुछ बातों का होना आवश्यक है, जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि अमुक दे”गों में यह शासन—प्रणाली अपनाई गई है। संघात्मक सरकार के आवश्यक तत्व अथवा लक्षण निम्नलिखित हैं—

1- fyf[kr rFkk dBkj | fo/kku (Written and Rigid Constitution) — संघ राज्य कई राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम होता है, इसलिए समझौते की सभी शर्तें लिखित रूप में होनी चाहिए। साथ ही ये शर्तें स्थायी हों। इसलिए संघ सरकार का संविधान केवल लिखित नहीं, कठोर भी होता है जिससे कोई भी इकाई मनमाने ढंग से इसमें परिवर्तन न कर सके। संविधान में सं”ोधन करने के लिए एक विशेष अपनाई जाती है, ताकि केन्द्र और राज्य दोनों की सहमति से सं”ोधन किया जा सके।

2- भावितयों का बैंटवारा (Distribution of Powers) — संघात्मक सरकार में केन्द्रीय महत्व के विषय केन्द्रीय सरकार को तथा प्रान्तीय और स्थानीय महत्व के विषय राज्य सरकारों को सौंप दिए जाते हैं। दोनों सरकारें अपने—अपने क्षेत्र में कानून बनातीं तथा प्रासन चलाती हैं। वे एक—दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती। भारत में शक्तियों के विभाजन के अधीन तीन सूचियाँ केन्द्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची बनाई गई हैं। अमेरिका की स्थिति में केन्द्रिय सरकार की शक्तियाँ निर्धारित कर दी गई हैं और शेष शक्तियाँ राज्यों के लिए छोड़ दी गई हैं।

3- IorlU= rFkk | okPp U; k; i kfylk (Independent and Supreme Judiciary) — संघात्मक शासन में एक निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र संघीय न्यायालय का होना भी जरूरी है। संघ सरकार में यद्यपि केन्द्र व राज्यों में अधिकारों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है फिर भी उनमें कई बातों में विवाद होना स्वभाविक है। संघ न्यायालय उनके विवादों को हल करता है। यह न्यायालय संविधान के संरक्षण का भी कार्य करता है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें संविधान के विरुद्ध कानून न बना सकें, इसके लिए एक स्वतन्त्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है।

4- nks | nuh; fo/kkui kfylk (Bi-cameral Legislature) — संघात्मक सरकार में दो सदनीय विधानमण्डल की आवश्यकता पड़ती है। विधानमण्डल का निम्न सदन सारे राष्ट्र की जनता का तथा उच्च सदन संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपरी सदन राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए गठित किया जाता है। इसमें संघ की इकाइयों को बराबर सीट देने की व्यवस्था की जाती है, जिससे उनमें संवैधानिक समानता स्थापित हो सके।

5- I fo/kku dhl | okPprk (Supremacy of the Constitution) — संघात्मक शासन—प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की जाती है। इसका अर्थ है कि संविधान को “देश” का सर्वोच्च कानून घोषित किया जाता है और इसके विरुद्ध कार्य करने और कानून बनाने का अधिकार किसी को भी नहीं होता। संविधान की रक्षा के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका का गठन किया जाता है, जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। न्यायपालिका संविधान के विरुद्ध बने किसी भी कानून को अवैध घोषित करके संविधान की सर्वोच्चता की सुरक्षा करती है।

6- दोहरा भासन (Dual Administration) – संघात्मक सरकार में दोहरा शासन प्रबन्ध होता है। एक केन्द्रीय शासन तथा दूसरा स्थानीय अथवा प्रान्तीय शासन। संघ तथा प्रान्तों के अधिकार संविधान द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। दोनों सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होती हैं।

7- nkgj h ukxfj drk (Double Citizenship) – संघ सरकार में प्रायः नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। एक उस राज्य नागरिकता जहाँ वह निवास करता है तथा दूसरी संघ की नागरिकता; जैसे अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता के ही सिद्धान्त को अपनाया गया है।

#### Hkkj rh; | Rikokn dk Lo: lk (**Nature of Indian Federalism**)

भारतीय संविधान के अनुसार, भारत में संघीय शासन—प्रणाली की गई है। यद्यपि संविधान में 'संघ' (Federation) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तथापि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है। संघ के स्थान पर 'राज्यों का संघ' शब्दों के प्रयोग का कारण बताते हुए संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ० अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, "मसौदा समिति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत एक संघ—राज्य है, परन्तु यह संघ—राज्य किसी प्रकार से राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।" इस प्रकार मसौदा समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती थी कि यदि भारत को एक संघ बनना है तो यह संघ राज्यों के द्वारा संघ में शामिल होने के लिए किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। यद्यपि "देता तथा जनता को शासन की सुविधा के लिए विभिन्न राज्यों में बांटा गया है, परन्तु देना अखण्ड तथा एक पूर्ण इकाई है।" डॉ० अम्बेडकर ने यह कहा कि राज्यों तथा संघ (यूनियन) का इकट्ठा होना ही संघवाद है, जिससे कोई अलग नहीं हो सकता और जिसके अन्दर रहकर ही दोनों को कार्य करना चाहिए।

#### 2-4-2- mnf"dk (Preamble)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित है :—

"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्म—निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक,

आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, वि”वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चत करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़—संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 (मिति मार्ग”र्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म—समर्पित करते हैं।”

वास्तव में प्रस्तावना संविधान की आधार”ला एवं प्रेरणा है। भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्यों एवं सिद्धांतों को संविधान की प्रस्तावना में समाविष्ट किया गया है। डॉ एस.सी. क”यप के अनुसार, “संविधान राष्ट्र का मूलभूत अधिनियम है, वह राज्य के विभिन्न अंगों का गठन कर उन्हें शरीर देता है, शक्ति देता है। उनके शरीर गठन के पीछे, अंगों की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरणा होती है, एक आत्मा होती है जिसको शब्द रूप मिलता है प्रस्तावना में।”

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि प्रस्तावना मुख्य रूप से तीन बातों पर प्रका”। डालती है :—

- (क) संविधान का स्रोत क्या है ?
- (ख) भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है ?
- (ग) संविधान के उद्देश्य या लक्ष्य क्या है ?

## 2-5- vi uhi i xfr tkps (Check your progress)

नीचे कुछ प्र”न दिए गए हैं जिनका आपने उत्तर देना है :—

- (i) भारतीय संविधान के ..... अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।
- (ii) वर्तमान में संविधान में ..... मौलिक अधिकार है।
- (iii) वर्तमान में संविधान में ..... मौलिक कर्तव्य है।
- (iv) संविधान में धार्मिक अधिकार ..... दिए गए हैं।
- (v) संविधान में से कौन—सा मौलिक अधिकार निकाल दिया गया है।

## 2-6- I kj k”k (Summary)

इस अध्याय में हमने भारतीय संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, संविधान की प्रस्तावना तथा संघवाद के बारे में पढ़ा है। ऊपर दिए गए विवरण के

बाद हम कह सकते हैं कि संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करके हमें जीने की स्वतन्त्रता तथा विकास करने का अधिकार प्रदान नहीं किए होते तो कोई भी नागरिक न तो आसानी से अपनी बात कह सकता और न ही अपने धर्म को अपना सकता और अपनी आजादी का सही तरीके से पालन कर सकता ? इसके साथ-साथ हमें मौलिक कर्तव्य भी प्रदान किए गए। क्योंकि जहां पर राज्य ने हमें मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं तो हम नागरिकों का भी यह अधिकार है कि हम संविधान के द्वारा दिए गए कानूनों या कार्यों का पालन करें और यह कर्तव्य है कि हमारे संविधान का आदर करें। मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों साथ-साथ ही कार्य करते हैं।

संविधान की प्रस्तावना हमें अपने संविधान के आधार के बारे में बताती है। प्रस्तावना संविधान को रूपरेखा प्रदान करती है। कुछ विषयों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा तक कहा है, क्योंकि प्रस्तावना के बिना संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। अंत में हम हमारे संविधान के संघवाद के बारे में विचार-विमर्श करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत एक देश होता जो राज्यों से मिलकर बनेगा। अर्थात् अलग-अलग राज्यों का संविधान प्रदान नहीं करता। सभी के लिए एक संविधान है। एकल नागरिकता है एक स्तरीय भाषा है और सभी के लिए एक देश है जिसे राज्यों का संघ कहा जाता है। अर्थात् संघवाद भारत को राज्यों का संघ कहता है।

## 2-7- सूचक भाव (Key Words)

ekfyd vf/kdkj & नागरिकों के लिए मूल-अधिकार जो देशवासियों को नागरिक बनाते हैं, उन्हें आजादी प्रदान करता है।

ekfyd d\k\; & नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो राज्य के मौलिक-अधिकारों के बदले में नागरिक राज्य के लिए अपना दायित्व दर्ता हैं।

i Lrkouk & संविधान की नींव जिस पर सम्पूर्ण संविधान तैयार किया गया है।

i \k\okn & संघवाद से हमारा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें शक्तियों का विभाजन केन्द्र राज्यों में होता है।

i fo/kku & संविधान नियमों की व्याख्या है, कार्य करने का तरीका दर्ता है तथा कानूनों का ज्ञाता है।

| ऐसीका & सम्प्रभुता से हमारा अभिप्राय उस शक्ति से है जिसमें राज्यों को अपने निर्णय लेने का अधिकार हो और कानून बनाने का अधिकार हो।

2-8- Lo; a eY; kdu gswi t'u (**Self Assessment Questions**) :

- Q.1. मौलिक अधिकारों का विवरण दीजिए।
- Q.2. मौलिक कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं ?
- Q.3. प्रस्तावना की व्याख्या कीजिए।
- Q.4. संघवाद की प्रकृति के बारे में आप क्या जानते हैं।
- Q.5. मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों में अन्तर दर्शाएं।

2-9- vi u h i xfr dh tkp djus ds fy, mUkj (**Answer to check your progress**)

- |              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| (i) 12 से 35 | (ii) 6                 | (iii) 11 |
| (iv) 25—28   | (v) सम्पत्ति का अधिकार |          |

2-10- | UnHk xJFk@funT"kr i Frdi (**References/Suggested Reading**)

1. Public Administration, McGraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. "प्रासनिक चिंतक; प्रसाद एण्ड प्रसाद सत्यनारायण; जवाहर पब्लिकेटन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटन।

<b>Subject : jktuhfrd foKku</b>	
Course Code : <b>BA101</b>	Author : <b>Dr. Deepak</b>
Lesson No. : <b>3</b>	Vetter :
I ॥k fo/kkf; dk % I d n & I j puk vKj dk; I yksdI Hkk v/; {k % <b>कार्य और भावित</b>	

- 3-1 vf/kxe mnñ"; (**Learning Objectives**)
- 3-2 i Lrkouk (**Introduction**)
- 3-3 v/; u ds eq[; fcUnq (**Main Points of Text**)
- 3-3-1- yksdI Hkk dh j puk (**Composition of Lok Sabha**)
- 3-3-2- pñuko dk <x (**Mode of Election**)
- 3-3-3- tuçfrfufek I åkketu vfèkfu; e 1996 }kj k fd, x, çeñk çkoëkku (**Major Provisions made by the Representation of the People Amendment Act 1996**)
- 3-3-4- yksdI Hkk dh 'kfä; ka , oa dk; l (**Powers and Functions of Lok Sabha**)
- 3-3-5- j kT; I Hkk (**Rajya Sabha**)
- 3-4- i kB ds vkxs dk eq[; Hkkx (**Further main body of the text**)
- 3-4-1- j kT; I Hkk dh 'kfä; ka rFkk dk; l (**Powers and Functions of Rajya Sabha**)
- 3-4-2- j kT; I Hkk dh vkykpuk vFkok foi {k es rdz (**Criticism or argument in opposition to Rajya Sabha**)
- 3-4-3- j kT; I Hkk ds i {k es rdz vFkok j kT; I Hkk dh mi ; kfxrk (**Arguments in favor of Rajya Sabha or utility of Rajya Sabha**)
- 3-4-4- yksdI Hkk rFkk j kT; I Hkk es I cdk (**Relations between Lok Sabha and Rajya Sabha**)
- 3-4-5- Hkkj rh; I d n dh 'kfä; ka rFkk vfekdkj (**Powers and Powers of the Indian Parliament**)
- 3-4-6- yksdI Hkk dk v/; {k ॥Li hdj ॥ (**Speaker of Lok Sabha**)
- 3-4-7- Li hdj ds dk; l (**Speaker Functions**)
- 3-4-8- Li hdj dh fLFkfr (**Speaker Position**)
- 3-5- vi uh i xfr tkpi (**Check your progress**)
- 3-6- I kj kñ'k (**Summary**)
- 3-7- सूचक भाष्ट (Key Words)
- 3-8- Lo; a eñY; kdu gñw i t'u (**Self Assessment Questions**)
- 3-9- vi uh i xfr dh tkp djus ds fy, mÙkj (**Answer check your progress**)
- 3-10- I UnHkz xJFk@funñ"kr i Lrdi (**References/Suggested Reading**)

### 3-1- विषय के मुख्य लक्ष्य (Learning Objectives)

इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों के बारे में बताया गया है :—

- संसद
- लोकसभा
- राज्यसभा
- बजट

### 3-2- इंतेहा (Introduction)

संसद की कल्पना विवरण को अंग्रेजों की देन है इसलिए ब्रिटिश संसद को सांसदों की जननी कहा जाता है। भारतीयों पर अंग्रेजी राजनीतिक सभ्यता का पूर्ण प्रभाव रहा है और हमने अंग्रेजी संस्थाओं से अच्छी जानकारी प्राप्त की थी हम अन्य शासन प्रणालियों से परिचित नहीं थे इसलिए स्वतंत्रता के बाद हमने संसदीय प्रणाली को ही अपनाया भारतीय संविधान में केंद्रीय विधान मंडल को संसद का नाम दिया गया है और इसके दो सदन हैं। लोकसभा व राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति तथा दो सदन होंगे जिनका नाम राज्य से बदतर लोकसभा होगा लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्यसभा में भारतीय संघ का इकाइयों अर्थात् राज्यों के प्रतिनिधित्व दिया गया है। लोकसभा के सदस्य साधारण तथा मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुने जाते हैं जबकि राज्यसभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यहां इस अध्याय में संसद के गठन एवं शक्तियों के संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे।

### 3-3- विषय के मुख्य बिंदु (Main Points of Text)

#### 3-3-1- लोकसभा का गठन (Composition of Lok Sabha)

आरंभ में लोकसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 500 नीचे दी गई थी सन 1956 में इसे बढ़ाकर 520 वर्ष 1963 में से 525 कर दिया गया सन 1973 में संविधान के किस संशोधन द्वारा इसके निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 कर दी गई सन 1987 के पास किए गए गोवा दमन तथा दूध पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इसे 550 कर दिया

गया इनमें से 530 सदस्य राज्यों में से तथा 20 सदस्य केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में से चुने गए जाएंगे इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करें कि चुनाव के द्वारा एंगलो इंडियन जाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका तो वह अनुच्छेद 331 के अधीन इस जाति के 2 सदस्यों की लोकसभा में मनोनीत कर सकता है इस प्रकार अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है वर्तमान लोकसभा में 545 सदस्य हैं इनमें से 543 सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं और दो एंगलो इंडियन सदस्य होते थे जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता था यहां यह उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2019 में पारित 104 में संवैधानिक संसोधन द्वारा एंगलो इंडियन जाति की मनोनयन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया गया है ऐसी स्थिति में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 की जगह 550 ही रह जाएगी यद्यपि इस संशोधन को भारत संघ के आधे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलेगी

### 3-3-2- प्रकार के (Mode of Election)

लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं संविधान के 61 में संशोधन के द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मताधिकार प्रदान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त मताधिकार तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं यह निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि लोकसभा का एक सदस्य कम से कम पांच लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें इस संबंध में अधिकतम सीमा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती रहेगी मूल संविधान में लोकसभा में विभिन्न राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग संसद के आदेशानुसार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन करेगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग की देखरेख और संसद की अंतिम स्वीकृति के अधीन किया जाता है। सन 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग के द्वारा अगली लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में निर्णय लिए गए हैं 42 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन क्षेत्र वही रहेंगे जो सन 1971 की जनगणना के आधार पर निश्चित किए गए हैं परंतु 87 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया

है। इस संशोधन के अनुसार लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। पंद्रहवीं लोकसभा चुनाव से पूर्व गठित परिसीमन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करते हुए नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि 15वीं लोकसभा के चुनाव परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही संपन्न हुए थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 31 अगस्त 2000 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय एवं संसद द्वारा 2001 में पास किए गए संवैधानिक संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में लोकसभा के कुछ स्थान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित किए गए किंतु बाद में यह अवधि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात बढ़ाई जाती रही। जैसे 95 संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान 25 जनवरी 2020 तक बढ़ाए गए जिसमें लोकसभा में 84 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए तथा 47 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं यह। यहां यह उल्लेखनीय है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व गठित नई परिसीमन आयोग के बाद आरक्षित स्थानों में परिवर्तन हो चुका था क्योंकि इससे पूर्व अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए यह आरक्षण क्रमशः एवं 40 सीटों का था। दिसंबर 2019 में संविधान में किए गए 104 वे संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दी गई है।

; क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए

- 1 वह भारत का नागरिक हो
- 2 उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो
- 3 वह संसद द्वारा निश्चित की गई योग्यताएं रखता हूँ
- 4 वह भारत सरकार अथवा किती राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो
- 5 उसका नाम मतदाताओं की सूची में अंकित हो
- 6 उसे किसी गंभीर अपराध में सजा मिल चुकी हो

यह विधेयक पारित करके 56 ऐसे पदों को लाभ के पद के क्षेत्र से मुक्त करने का निर्णय लिया गया जिन पर आसीन व्यक्ति संसद व राज्य विधान मंडलों के सदस्य बन सकते हैं जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों के पद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद उत्तर प्रदेश विकास परिषद भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता हिन्दू विकास प्राधिकरण भारत का राष्ट्रीय कृषि गत सहकारी बाजार संस्थान लिमिटेड भारतीय कृषक उत्पादक लिमिटेड कृषक भारतीय सहकारी लिमिटेड मौलाना आजाद शिक्षण संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आदि को लाभ के पद में सम्मिलित नहीं माना जाएगा यद्यपि इस विधेयक को 30 मई 2006 को राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार करने के उद्देश्य से संसद को वापस भेज दिया गया था परंतु संसद द्वारा पुनः 27 जुलाई 2006 को इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर राष्ट्रपति को भेज दिया गया जिसे राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2006 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

19 नवंबर 1976 को संसद ने छुआछूत के विरुद्ध एक कानून पास किया जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति को इस कानून के अधीन सजा मिलती है तो वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता।

### 3-3-3- तुच्छित लोकसभा विधान 1996 } का फैसला, ख, चैफ़ क्रोकु (Major

#### **Provisions made by the Representation of the People Amendment Act 1996)**

जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा लोकसभा की सदस्यता के निर्वाचन के संबंध में किए गए प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं –

1. पंजीकृत राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों का नामांकन कम से कम 1 मतदाता द्वारा और निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन कम से कम 10 मतदाताओं को प्रस्तावित करना चाहिए।
2. एक व्यक्ति एक साथ लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता।
3. जमानत धनराशि लोकसभा के सामान्य उम्मीदवार के लिए ₹10000 तथा विधानसभा के लिए ₹5000 होगी अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए यह धनराशि क्रमशः ₹5000 तथा ₹2500 होगी।

4. जो व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने या राष्ट्रीय गान को रोकने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध निर्मित किया गया है वह विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं होगा।

5. चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर उस राजनीतिक दल से 7 दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करने के लिए कहा जाएगा जिसके लिए चुनाव की तिथि बढ़ाई जा सकती है लेकिन चुनाव रद्द नहीं होगा। चुनाव प्रचार जिसमें सिनेमा दूरदर्शन सभा करना आदि सम्मिलित हैं चुनाव समाप्ति से 48 घंटे पूर्व समाप्त कर दिया जाएगा।

6. चुनाव के दौरान हिंसक उपद्रव करना संगे अपराध माना जाएगा तथा ऐसे व्यक्ति को यदि अपराधी घोषित किया गया है तो 6 माह का कारावास तथा ₹2000 तक का दंड दिया जा सकता है।

7. उद्योग एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारी को मतदान वाले दिन अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि सेवा संयोजक अवकाश नहीं देंगे तो वे दंडित किए जा सकेंगे।

8. किसी सांसद या विधायक की मृत्यु हो जाने पर छह माह के भीतर उत्थान के लिए चुनाव करा लिया जाएगा।

9. निर्वाचन पर्यवेक्षक की स्थिति सरकारी कर्मचारी के समक्ष होगी जिसकी सूचना पर चुनाव आयोग मतदान या मतगणना में हुई गड़बड़ी को ध्यान में रखकर कार्य करेगा। राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार के ऊपर किया गया खर्च प्रदर्शित किया जाना चाहिए अन्यथा वह भी उम्मीदवार का व्यक्तिगत व माना जाएगा।

10. कोई भी व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 2 से अधिक स्थानों से एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता।

13 मार्च 2003 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय अनुसार लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपने नामांकन पत्र के साथ कुछ सूचनाएं देने आवश्यक होंगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए अपनी संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगा। यही नहीं पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज लोकसत्ता और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक याचिका पर न्यायमूर्ति एमबी शाह न्यायमूर्ति

पीवी रेड्डी और न्यायमूर्ति डीएम धर्माधिकारी की खंडपीठ ने अपने सर्वसम्मति फैसले में यह भी कहा है कि संसद द्वारा संशोधित जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 33 वी का अब अस्तित्व नहीं है। गौरतलब है कि 2 मई 2002 को उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के लिए अपनी संपत्ति तथा आपराधिक रिकॉर्ड के खुलासे को अनिवार्य बनाए जाने के बाद संसद ने राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन के जरिए बेमतलब बना दिया था। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 मार्च 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया।

तीनों वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि देश के मतदाताओं को सूचना का संविधान सम्मत मौलिक अधिकार प्राप्त है लेकिन संसद द्वारा जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर दिए जाने से सूचना का मूल अधिकार खतरे में पड़ जाता है क्योंकि अपने चुने जाने वाले प्रतिनिधि के बारे में उसे चुनने से पहले जानना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है लेकिन इस संशोधन के जरिए मतदाता यह जानकारी नहीं पा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

I Çhe dkVl ds bl fu.kl; ds ckn fdI h Hkh mEehnokj dks vi uk ukekdu i = Hkj rs | e; fuEufyf[kr 5 | puk, a nuk vfuok; l gks x; k gS %&

- 1      क्या उम्मीदवार को पहले आपराधिक मामले में दोषी पाया गया है दोषमुक्त किया गया है अथवा परी किया गया है। अगर ऐसा है तो क्या उसे जेल की सजा या जुर्माना किया गया है
- 2      नामांकन पत्र भरने से 6 महीने पहले क्या उम्मीदवार किसी ऐसे अपराध के लंबित मामले में आरोपी ठहराया गया है जिसमें 2 या उससे अधिक हो साल की सजा का प्रावधान है।
- 3      उम्मीदवार और उसके पति अथवा पत्नी तथा आश्रितों की परिसंपत्तियों इत्यादि।
- 4      उम्मीदवार की देनदारियों यदि कोई हो तो विशेषकर क्या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अथवा सरकार की देनदारी बाकी है।
- 5      उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता।

यहां यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सन 1950 और 1951 के प्रतिनिधित्व अधिनियम में कई संशोधन किए हैं जो एक फरवरी 2010 से लागू हुए। सन 1950 के प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 व 23 के तहत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध संशोधन के अनुसार अपील अब डीएम कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर से की जाएगी। डीएम कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध आगामी अपील प्रदेश के समक्ष की जाएगी। इसके अतिरिक्त लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की प्रतिभूति राशि बढ़ाकर ₹25000 तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रत्याशियों के लिए राशि आधी अर्थात् 12500 रु. होगी।

लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी के खर्च करने हेतु अधिक से अधिक सीमा में वृद्धि सोलवीं लोक सभा चुनाव 2014 से पूर्व सरकार ने उम्मीदवारों द्वारा किए जा सकने वाले खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि फरवरी 2014 में की। मतदाताओं व मतदान केंद्रों की संख्या के साथ-साथ महंगाई में वृद्धि के चलते चुनावी खर्च की सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव चुनाव आयोग ने किया था जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 28 फरवरी 2014 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। ताजा स्वीकृत संरचना के तहत लोकसभा हेतु चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा बड़े राज्यों में 7000000 रुपय छोटे राज्यों जैसे गोवा तथा पूर्वोत्तर के राज्य में अधिकतम ₹100000 कर दी है। इससे पूर्व लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव खर्च की सीमा को फरवरी 2011 में 25–25 ₹200000 से बढ़ाकर ₹40000 किया गया था। केंद्र शासित क्षेत्रों में दिल्ली में चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा जहां 7000000 रुपय होगी वहीं अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों में यह 54 54 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

dk; lky & 42 वें संशोधन से पहले लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था। 42 वें संशोधन द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था लेकिन 44 में संशोधन द्वारा यह अवधि 5 वर्ष कर दी गई है। इस अवधि से पूर्व राष्ट्रपति जब चाहे लोकसभा को भंग कर सकता है लेकिन व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेगा जब ऐसा करने की सलाह प्रधानमंत्री द्वारा दी गई हो। हमारे देश में पहले कई प्रधानमंत्रियों के अनुरोध पर पूर्व राष्ट्रपतियों के द्वारा कई बार लोकसभा को भंग किया गया है। जैसे सन 1991 में राष्ट्रपति वेंकटरमन ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सलाह पर तथा 1997 में राष्ट्रपति केआर

नारायणन में प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के परामर्श पर लोकसभा को भंग किया था और फरवरी—मार्च 1998 में 12 वीं लोकसभा के चुनाव कराए गए परंतु 26 अप्रैल 1999 को लोकसभा को केवल 13 महीने की अल्पावधि के पश्चात भंग कर दिया जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे कम कार्यकाल है फुल असुरों को सितंबर अक्टूबर 1999 में तेल में लोकसभा के चुनाव कराए गए। चुनावों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संगठन के बहुमत प्राप्त हुआ लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी के परामर्श पर समय पूर्व ही तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम में 6 फरवरी 2004 को तेरहवीं लोकसभा को भंग कर दिया था। फलस्वरूप मई 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। यहां यह उल्लेखनीय है कि अब तक छह निम्न सदन समय पूर्व ही या अपूर्ण कार्यकाल वाले रहे हैं। तेरहवीं लोकसभा के अतिरिक्त चौथी, छठी, नौवीं, चारहवीं एवं बारहवीं लोकसभा भी समय से पूर्व ही बिना कार्यकाल पूर्ण किए भंग हो गई थी।

संकट के समय लोकसभा की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। एक समय में यह 1 वर्ष से अधिक तथा संकटकालीन स्थिति में समाप्त होने के 6 माह से अधिक इसे नहीं बढ़ाया जा सकता।

vfekos' ku & राष्ट्रपति तथा जहां उचित समझे समय—समय पर संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन बुला सकता है परंतु संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि गत अधिवेशन की अंतिम तिथि तथा आगामी अधिवेशन की प्रथम तिथि के मध्य 6 माह से अधिक समय व्यतीत नहीं होने दिया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि वर्ष में दो बार संसद का अधिवेशन पुराना अनिवार्य है। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति द्वारा इसका विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है।

X.ki वर्ष & संविधान के अनुसार लोकसभा की बैठक जारी रखने के लिए लोकसभा की कुल सदस्यों का दसवां भाग गणपूर्ति निश्चित की गई है। यदि गणपूर्ति नहीं है तो पीठासीन अधिकारी सदन की कार्यवाही गणपूर्ति होने तक स्थगित कर देता है।

I nu ds i nkfekdkjh & संविधान के अनुसार लोकसभा की बैठक जारी रखने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों में से रिकवर डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है यह दोनों इन पदों पर उसी समय तक बने रह सकते हैं जब तक वे सदन के सदस्य रहते हैं। सदन की सदस्यता समाप्त होते ही उन्हें अपने पदों से अलग होना पड़ता है। सोलवीं लोक सभा चुनाव के बाद लगभग 3 दशकों बाद स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई भाजपा अध्यक्ष

एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में अधिक सशक्त एवं स्वतंत्र नजर आई और इसलिए सत्ता पक्ष द्वारा लोक सभा हेतु लगातार आठ बार निर्वाचित होकर पहुंची श्रीमती सुमित्रा महाजन का सर्वसम्मति अध्यक्ष बनने का रास्ता आसान हो गया। इस तरह श्रीमती सुमित्रा महाजन के रूप में देश को मीरा कुमार के बाद दूसरी महिला स्पीकर मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ और 6 जून 2014 को श्रीमती सुमित्रा महाजन को सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु राज्य के अन्नाद्रमुक पार्टी के एम थंबीदुरई को लोकसभा का उपाध्यक्ष 13 अगस्त 2014 को सर्वसम्मति से चुना गया था। सत्र में लोकसभा चुनाव 2019 के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के कोटा लोकसभा राजस्थान से निर्वाचित लोकसभा सदस्य श्री ओम बिड़ला को सर्वसम्मति से 19 जून 2019 को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि लोकसभा के अध्यक्ष इस पद को ग्रहण करते समय इस पद के लिए कोई शब्द नहीं लेते। अध्यक्ष प्रारंभ में केवल संसद सदस्य होने की शपथ लेते हैं।

India needs one – संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को समान वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि मिलते हैं। वर्तमान में संसद सदस्यों का वेतन भत्ता तथा पेंशन भत्ता संशोधन अधिनियम 2010 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदस्य को ₹50000 मासिक वेतन ₹45000 निर्वाचन क्षेत्र भत्ता अधिवेशन के दिनों में प्रत्येक सदस्य को ₹2000 प्रतिदिन भत्ता मिलता है। यहां तक यहां यह उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 1 फरवरी 2018 को बजट प्रस्तुत करते समय सांसदों के वेतन भत्तों में प्रस्तावित कानून के अनुरूप सांसदों के वेतन में संशोधन हो जाएगा। वित्त मंत्री के संशोधित प्रस्ताव के अनुसार मूल वेतन 50000 से बढ़ाकर एक लाख निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45 हजार से बढ़ाकर 70000 एवं सचिवालय भत्ता 30 हजार से बढ़ाकर 60 हजार दैनिक भत्ता दो हजार से बढ़ाकर चार हजार करने का निर्णय लिया गया जो एक अप्रैल 2018 से लागू होंगे। सांसदों को निशुल्क आवास परिवार सहित निशुल्क चिकित्सा सुविधा तीन लैंडलाइन टेलीफोन एवं एक बीएसएनल मोबाइल तथा एक मोबाइल निर्वाचन क्षेत्र हेतु जिसमें 160000 चौकों के साथ 20000 अतिरिक्त मुक्त काले भी दी गई हैं। प्रत्येक सांसद को कंप्यूटर हेतु मुफ्त सुविधा भी प्रदान की गई है इसके अतिरिक्त प्रत्येक सांसद को देश में लगभग छात्राएं

निशुल्क प्रदान की गई है सांसदों को मिलने वाली ₹35000 करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त 1988 में पास किए गए अधिनियम द्वारा सांसद की उसके कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति या उसके आश्रित को पेशन की सुविधा प्रदान की गई थी।

| ॥ n | nL; kः ds fo' k"kkfekdkj & संसद सदस्य अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन कर सकें इसके लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं एक संसद अथवा उसकी किसी समिति में कहीं-कहीं गई बात पर सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती। दो संसद का अधिवेशन आरंभ होने के 40 दिन पहले अधिवेशन काल में और अधिवेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में बंदी नहीं बनाया जा सकता परंतु फौजदारी मुकदमे में उन्हें पकड़ा जा सकता है। संसद सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना तुरंत ही स्पीकर को देनी आवश्यक है। तीन संसद कानून पास कर के सदस्यों के अन्य अधिकार तथा उन्मुक्त इयां प्रदान कर सकती है। संसद अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के विरुद्ध मानहानि की कार्यवाही कर सकती है और उसके लिए दंड निश्चित कर सकती है।

3-3-4- ykdl| Hkk dh 'kfः; ka , oः dk; l (**Powers and Functions of Lok Sabha**)&

लोकसभा हमारी संसद का निचला सदन है। इसके अधिकारों तथा कार्यों का क्षेत्र बड़ा विशाल है। भारतीय शासन प्रणाली में यह बड़ी व शक्तिशाली संस्था है। लोकसभा के अधिकार तथा कार्य निम्नलिखित हैं

1- oःkkfud 'kfः; ka & संसद की वैधानिक शक्तियों का वास्तव में प्रयोग लोकसभा ही करती है क्योंकि लोकसभा की इच्छा के बिना कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची में कई विषयों पर राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। अगर किसी प्रांत की सरकार विफल हो जाए तो उस प्रांत के लिए कानून भी लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। साधारण बिल संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है लेकिन आमतौर पर सभी महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। लोकसभा में बिल की स्वीकृति मिलने के बाद वे राज्यसभा में भेजे जाते हैं तथा वहां से पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए भेज दिए जाते हैं। अगर किसी बिल को राज्यसभा पास ना करें अथवा श्याम आज तक उस पर

कोई कार्यवाही ना करें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का इकट्ठा अधिवेशन बुलाता है जिसमें लोक सभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है ऐसे अधिवेशन में लोकसभा की ही विजय होती है क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा के सदस्यों से दोगुनी से भी अधिक होती है।

2- foÙkh; 'kfং; k & आधुनिक युग में सभी देशों में बजट का विशेष महत्व होता है। भारत में लोक सभा का बजट पर पूरा नियंत्रण होता है। लोकसभा वार्षिक बजट प्राप्त करती है तथा सभी प्रकार के खतरों की स्वीकृति देती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि बजट तथा अन्य सभी वित्तीय बिलों को पहले लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पास होने के बाद फिर उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर ऐसे बिलों को वापस करना पड़ता है अगर राज्यसभा ऐसा ना करें अथवा किन्हीं ऐसी सिफारिशों के साथ वापस भेज दे जो लोकसभा को स्वीकार ना हो तो लोकसभा उन बिलों को उसी स्थिति में जिसे उसने पहले पास किया था राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए भेज देती है। वित्तीय बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह बिल दोनों सदनों द्वारा पास किया हुआ समझा जाता है। इस संदर्भ में 9 मई 1978 को राज्यसभा ने वित्तीय महत्वपूर्ण संशोधन किए लेकिन उन संशोधनों को लोकसभा से नहीं माना। इस तरह वित्त बिल में अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है।

3- dk; lkfydk dk fu; =&.k & भारत में इंग्लैंड की तरह उत्तरदाई सरकार को अपनाया गया है जिसमें कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मंत्री परिषद अपने कार्य के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूर्व प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका जवाब संबंधित मंत्री को देना होता है। लोकसभा के सदस्य सरकार की किसी कार्यवाही की कड़ी आलोचना कर सकते हैं तथा उस विषय पर प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं। लोकसभा निम्नलिखित साधनों द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है :-

1 C'U & लोकसभा के अधिवेशन के दिनों में प्रतिदिन प्रश्नकाल का एक घंटा निश्चित होता है। सदस्य नियमन और नियमानुसार मंत्रियों से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्रियों को इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है।

2 cgl & सदस्य किसी विषय पर बहस में भाग लेकर कार्यपालिका की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं और कार्यपालिका को भी प्रभावित कर सकते हैं।

3 LFkxu çLrkō & कोई भी सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व वाले विषय पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकता है। यदि स्पीकर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो सदन की कार्यवाही रोक कर सदन पहले उस विषय पर बहस करता है। ऐसी बहस के समय मंत्रियों की आलोचना की जाती है।

4 è; kukd"kl k – प्रस्ताव अगर सदन का कोई भी सदस्य किसी महत्वपूर्ण घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है तो वह ऐसा करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर सकता है।

4 ll; kf; d 'kfä; k & लोकसभा को कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त है जब भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जाता है तो लोकसभा उस में भाग लेती है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है तथा दूसरा सदन जांच करके 2/3 बहुमत से रहने देता है। अगर दोनों सदन महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दें तो राष्ट्रपति को उसी समय त्यागपत्र देना पड़ता है।

5 pukō | cekh 'kfä; k & लोकसभा की कुछ चुनाव संबंधी शक्तियां भी प्राप्त हैं जो निम्नलिखित है :—

1 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।

2 लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है।

3 लोक सभा अपने सदस्यों में से स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है।

6- | pñkkfud 'kfä; k & संविधान बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अवश्य बदलना चाहिए अन्यथा क्रांति की संभावना होती है। लोकसभा संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पास कर सकती है लेकिन उस प्रस्ताव के लिए राज्यसभा की स्वीकृति अनिवार्य है लेकिन संविधान में यह स्पष्ट है कि यदि दोनों सदनों में किसी संवैधानिक बिल पर मतभेद हो जाए तो उसे कैसे दूर किया जाए सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद

बनाम संघीय सरकार के मुकदमे में यह निर्णय दिया था संवैधानिक संशोधन विधि भी एक वैधानिक विधि है उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के आधार पर संवैधानिक संशोधन पर गतिरोध उत्पन्न होने पर दोनों सदनों का इकट्ठा अधिवेशन बुलाया जा सकता है लेकिन अभी तक संशोधन बिल पर मतभेद पैदा होने पर इकट्ठा अधिवेशन कभी नहीं बुलाया गया।

7- fopkj dh 'kfä; k & भारत में लोकसभा एक महत्वपूर्ण विचार शील संस्था है जिसके द्वारा देश की सभी महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार किया जाता है। लोकसभा वास्तव में राष्ट्रीय का प्रतीक है जिसमें राष्ट्र के सभी हितों तथा वर्गों के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा अनेक आयोगों जैसे चुनाव आयोग भाषा आयोग वित्त आयोग संघ लोक सेवा आयोग नियंत्रक महालेखा परीक्षक इत्यादि के प्रतिवेदन आं पर विचार विमर्श करती है और सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करती है।

8- foñklu 'kfä; k fofoëk & शक्तियां निम्नलिखित है

- 1 लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकालीन घोषणाओं को स्वीकार अथवा रद्द करती है।
- 2 लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाती है।
- 3 लोक सभा राज्य सभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है।
- 4 लोकसभा राज्यसभा के साथ मिल कर दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।
- 5 लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संघ में नए राज्य को शामिल करती है।

### 3-3-5- j KT; I Hkk (**Rajya Sabha**) &

j KT; I Hkk dh j puk & राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। संविधान द्वारा इसके सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 निश्चित की गई है जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य कला विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के कारण प्रसिद्धि प्राप्त किए रहते हैं। 6 सदस्य राज्यों की

विधानसभाओं द्वारा एकल संक्रमणीय मत तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं।

| nL; k़ dh ; k़ rk, a &

संविधान के द्वारा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं :—

- 1 वह भारत का नागरिक हो।
- 2 वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- 3 वह संसद द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए लाभ के पद पर कार्य न करता हो।
- 4 वह दिवालिया अथवा पागल ना हो।
- 5 किसी भी राज्य का नागरिक देश के किसी भी अन्य राज्य से राज्यसभा हेतु चुनाव लड़ सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी उस राज्य में कम से कम 6 महीने से रह रहा हो जिस राज्य में वह राज्यसभा के स्थान के लिए चुनाव लड़ना चाहता है परंतु संसद द्वारा 2003 में इस अधिनियम में संशोधन करके इस शर्त को समाप्त कर दिया गया।

dk; lky & राज्यसभा एक स्थाई सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं अर्थात रिटायर होते हैं और इतने ही सदस्य नहीं चुन लिए जाते हैं। इस सदन को पूर्ण रूप से कभी भी फोन नहीं किया जा सकता।

vfkos' ku — राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। संविधान के अनुसार 1 वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन होने चाहिए। एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन में 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए फोन में राज्यसभा के विशेष अधिवेशन किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकते हैं।

x.ki fr — राज्यसभा की सदस्य संख्या का दसवां भाग निश्चित की गई है। के अनुसार निश्चित करने का अधिकार दिया गया है।

j kT; | Hkk dk | Hkk fr & भारत का उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसी तरह अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा

का उपसभापति भी अपने सदस्य मिले निर्वाचित किया जाता है। सभापति का प्रमुख उद्देश्य सदन की अध्यक्षता करना तथा अनुशासन को बनाए रखना है।

जट; | हक्क द्वारा द्वारा के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। सदन में दिए गए भाषणों के कारण उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय के द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अधिवेशन के दिनों में तथा उसे 40 दिन पूर्व अथवा बाद में भी उनको किसी दीवानी अंखियों के कारण गिरफतार नहीं किया जा सकता।

| न्यायालय के सदस्यों को वेतन व भत्तों की सुविधा लोकसभा के सदस्यों के सम्मान प्राप्त है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के वेतन व भत्ते समय—समय पर संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार दिए जाएंगे।

इकु द्वारा द्वारा के सदस्यों को भी लोकसभा के सदस्यों के समान पेंशन की सुविधा प्राप्त है। 2006 के संशोधित अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सदस्य को जो 4 वर्ष तक इस पद पर रहता है सेवानिवृत्त होने के पश्चात ₹20000 मासिक पेंशन मिलती है। इसके अतिरिक्त कार्य से सांसद के निधन की स्थिति में उसकी पत्नी या पति या आश्रित को आजीवन पेंशन उपलब्ध होगी।

| न्यायालय के सदस्यों को केंद्र में जनता पार्टी की सरकार ने सदन में विरोधी दल के नेता को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की और उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर मासिक वेतन निशुल्क निवास स्थान यात्रा भत्ता टेलीकॉम तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की।

3-4- इक्के द्वारा द्वारा के निम्नलिखित शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं :—

1. फैक्टरी कार्य कानूनों का निर्माण करना है और राज्यसभा को संसद का मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना है और धनवीर को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के साधारण बिल राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं और कोई भी बिल संसद से उस समय तक पास नहीं समझा जाता या उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जाता जब तक कि उसे राज्यसभा द्वारा भी पास ना कर दिया

जाए। संयुक्त अधिवेशन में साधारण बिल के भाग्य का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। ऐसी बैठक में विल प्राय लोकसभा की इच्छा अनुसार ही पास अथवा रद्द होने की संभावना होती है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्य सभा के सदस्यों की संख्या के दोगुने से भी अधिक है। इस प्रकार की संयुक्त बैठक पहली बार सन् 1961 में दहेज निषेध विधेयक के संबंध में और दूसरी बार सन् 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। तीसरी बार 26 मार्च 2002 को कोटा संबंधी कानून पर विचार करने के लिए संयुक्त अधिवेशन हुआ। अब तक केवल 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं।

2 foÙkh; 'kfä; k – वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा को बहुत ही कम शक्तियां प्राप्त हैं। धन बिल अथवा बजट पहले केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और उसके पास होने के पश्चात ही राज्यसभा में भेजा जाता है। यदि किसी बिल के वित्त विल होने के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

3 dk; lkfydk 'kfä; k & भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण मंत्री परिषद संसद के लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति ही उत्तरदाई है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद में लिए जा सकते हैं और उन्हें मंत्रियों से प्रसन्न तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं परंतु उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाने का अधिकार केवल लोकसभा को ही प्राप्त है।

4 ||; k; | cÙkh 'kfä; k – राज्यसभा को राष्ट्रपति अथवा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग चलाने का लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त है। यदि महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कर दें और उस प्रस्ताव को लोकसभा में 2/3 बहुमत से अनुमोदन करते तो पदाधिकारी को पद से हटा दिया जाता है।

5 | ØÙkkfud 'kfä; k – संविधानिक संशोधन के क्षेत्र में राज्यसभा लोकसभा के समान शक्तियों का प्रयोग करती है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और उस समय तक पास नहीं समझा जाता जब तक कि संसद के दोनों सदन उसे पास ना कर दें संविधान के कुछ विषयों के संबंध में संशोधन का प्रस्ताव पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों का साधारण बहुमत चाहिए और शेष के लिए प्रस्ताव का दोनों सदनों द्वारा 2/ 3 बहुमत से पास होना आवश्यक है।

6 fuokþpu | ڪـڪـ 'kfä; kə – राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य सभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा अपने उपसभापति का भी चुनाव करती है।

7 QMdj 'kfä; kə & उपर्युक्त दी गई शक्तियों के अतिरिक्त राज्य सभा को कुछ फुटकर शक्तियां भी प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं –

- 1 राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा की गई संकट काल की घोषणा को स्वीकृति प्रदान करती है।
- 2 संकटकालीन स्थिति में जब मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाता है तो उसके लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक होती है।
- 3 संघ लोक सेवा आयोग वित्त आयोग अनुसूचित जातियों एवं कवियों से संबंधित आयोग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर लोकसभा की भाँति राज्यसभा को भी विचार करने का अधिकार है।
- 4 संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सभा अपनी उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

j KT; | Hkk dk vkykþpu Red eW; kdu – राज्यसभा की शक्तियों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि लोकसभा की तुलना में यह एक बहुत ही कम शक्तिशाली अर्थात् दुर्बल सदन है। इसके सदस्यों के लिए जो चुनाव प्रणाली अपनाई गई है उसकी भी आलोचना की जाती है।

3-4-2- j KT; | Hkk dh vkykþpu vFkok foi {k ei rdz (**Criticism or argument in opposition to Rajya Sabha**)

1 v| ۾kh; | ۾Bu & राज्यसभा को असंघीय कहकर इसकी आलोचना की गई है। इसका संगठन और संघीय है क्योंकि संघीय प्रणाली में सभी प्रांतों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है लेकिन भारत में इस सिद्धांत की अवहेलना की गई है। राज्यों

को प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।

2 nyxr çfrfufekRo & राज्यसभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व ना होकर राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं जिसमें प्रत्येक दल को कुछ सीटें प्राप्त होती हैं।

3 vçR; {k pñkuo ç.kkyh & राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में भ्रष्टाचार की अधिक संभावना रहती है।

4 'kfäghu | nu & लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा की शक्तियों से कहीं अधिक है। धन बिल को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा धन बिल पर केवल 14 दिन तक रोक लगा सकती है तथा उसका कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं है। मंत्री परिषद के सदस्य सदन की परवाह नहीं करते।

5 fcylk dk nk gjukl ykhknk; d ugE gß & राज्यसभा का मुख्य कार्य बिलों को दोहराना है ताकि फिर जल्दी से पास ना हो। जल्दी से पास किए गए बिल में कमियां रहने की संभावना है। राज्यसभा अपने इसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि प्राइस एक ही दल के सदस्यों का बहुमत दोनों सदनों में होता है। इस कारण राज्यसभा आंखें मूँदकर बिलों को पारित करती है।

6 eukuhir | nL; & राज्यसभा प्रांतों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती क्योंकि 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसी संभावना हो सकती है कि यह 12 सदस्य केंद्र सरकार का पक्षपात करें तथा प्रांतों के हितों की ओर ध्यान ना दें। इस प्रकार मनोनयन की व्यवस्था प्रजातांत्रिक है।

7 jktuhfrd 'kj.k xg & आलोचकों के द्वारा राज्यसभा को राजनीतिक शरण ग्रह बताया गया है। राज्यसभा को सत्तारूढ़ दल ने वास्तविक रूप में राजनीतिक शरण ग्रह में परिवर्तित कर दिया है। सत्तारूढ़ दल के जो प्रभावी सदस्य चुनाव हार जाते हैं उन्हें पिछले दरवाजे से यानी राज्यसभा का सदस्य बनाकर राजनीति में जीवित रखा जाता है।

8 vuko'; d , oI mi ; kxh | nu & आलोचकों के द्वारा इस धन को अनावश्यक अनुपयोगी बताया गया है। दूसरे सदन के बारे में अवश्य ने कहा था यदि यह

सहमत होता है तो शरारती है और सहमत होता है तो फालतू है। इसी प्रकार बेंथम ने कहा था अगर द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो निरर्थक है और अगर हिम्मत है तो और प्रीति कर। इस प्रकार यह सदन अनुपयोगी है।

### 3-4-3- j kT; | Hkk ds i {k ei rdz vFkok j kT; | Hkk dh mi ; kfxrk (**Arguments in favor of Rajya Sabha or utility of Rajya Sabha**)

निसंदेह राज्यसभा की शक्तियों लोकसभा के बराबर नहीं है और ना ही यह सदन लोकसभा की तरह कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकता है। यह सदन वित्तीय मामलों में भी लोकसभा की तुलना में कमज़ोर सदन है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सदन निरर्थक है इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है राज्यसभा की अपनी कुछ उपयोगिताएं हैं। उसके कुछ गुण हैं। इसलिए इस सदन को बनाए रखा गया है। इस सदन के पक्ष में तर्क निम्नलिखित है :-

1 fcyk dk i ¶; fujh{k.k & राज्य सभा का प्रथम लाभ यह है कि लोकसभा के शीघ्रता पूर्वक तथा बिना विचार किए गए बिलों पर रोक लगती है। आधुनिक युग में बिलों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। लोकसभा की व्यवस्था तथा कम समय होने के कारण बिलों को जल्दी ही पास कर दिया जाता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि मिलों में कई त्रुटियां रह जाती हैं। राज्यसभा बिलों पर अधिक विचार-विमर्श करके कमियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करती है। सन 1979 में राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा विशेष न्यायालय विधेयक में महत्वपूर्ण संशोधन किए लोकसभा ने उसी समय मान लिया।

2 foookn ghu fcyk dk i ¶; gkuk & अधिकतर महत्वपूर्ण बिल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं लेकिन विवाद हैं ड बिल काहे राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं। राज्यसभा ऐसे बिलों पर अच्छी तरह विचार विमर्श करते तथा इसके बाद भी लोगों को लोकसभा के पास भेज दी है। होता है ऐसे भी लोग पर लोकसभा का अधिक समय बर्बाद नहीं होता। इस तरह राज्यसभा लोकसभा के बहुमूल्य समय को बचाती है जिससे लोकसभा इस समय का सदुपयोग अन्य महत्वपूर्ण बिलों पर करती है।

3 okn foookn dk Lrj Åpk gs & राज्यसभा में वाद विवाद का असर लोकसभा की अपेक्षा अधिक होता है। राज्यसभा में प्रत्येक बिल पर शांति पूर्वक विचार होता है। राज्य सभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की तुलना में कम है इसके

सदस्य अधिक अनुभवी व कुशल होते हैं। राज्यसभा कनाडा के सीनेट की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली तथा उपयोगी है। यह अपने विवादों तथा सरकार की आलोचना द्वारा जनता पर अधिक प्रभाव डालता है। राज्यसभा को हम आदर्श द्वितीय सदन कह सकते हैं। यह लोकसभा पद का कार्य करती है तथा लोकप्रिय सदन के मार्ग में अड़चनें पैदा नहीं करती।

4 LFkkĀ | nu rFkk fo'k"k vfekdkj & राज्य सभा एक स्थाई सदन है।

स्थाई सदन होने के कारण राज्यसभा उस समय भी जन्नत का प्रतिनिधित्व करती है जब लोकसभा भंग होती है। 21 जून 1977 को राज्यसभा की 25 वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कहा कि हमारी इस संवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा एक ऐसा निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता और जो लगातार बना रहता है। कई विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से कहीं अधिक शक्तियां प्राप्त हैं जैसे अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा अपने प्रस्ताव के द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को संसद के अधिकार क्षेत्र में ला सकती है। इसके अलावा राज्यसभा के परामर्श पर केंद्र सरकार नहीं अखिल भारतीय सेवाओं अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था कर सकती है।

5 ; k; 0; fä; k dk çfrfufekRo & इसमें देश के अनुभवी सज्जनप्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति द्वारा ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्होंने विज्ञान कला साहित्य देश सेवा आदि में प्रसिद्धि प्राप्त की होती है।

6 | i kkeku dh | eku 'kfä & संविधान में संशोधन करने की शक्ति राज्यसभा को लोकसभा के समान है संविधान में संशोधन राज्यसभा की स्वीकृति के बिना संभव नहीं हो सकता। अगस्त 1978 में राज्यसभा ने 40 व संशोधन प्रस्ताव के 6 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को रद्द कर दिया था और दिसंबर 1978 में लोकसभा ने 44 वें संशोधन बिल को उसी तरह पास कर दिया जिस तरह राज्यसभा ने पास किया था।

7 vki krdkyhu ?kks"k.k dLohkfr & भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा कर सकता है जिसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक होती है। ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा भंग हो तो यह स्वीकृति राज्यसभा के द्वारा ली जाती है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है राज्यसभा तब भी बनी रहती है।

8 | okPp U; k; ky; rFkk mPp U; k; ky; ds U; k; kekh'kks dks i n i nP; r djus e jKT; lHkk dks | eku 'kfä & उच्चतम न्यायालय तथा उच्च

न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होने से पहले केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाने के लिए आवश्यक है कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा अलग-अलग अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को भेजे।

9      Hkkj rhl; | vFkfu|d c. kkyh ds vuply & ब्रिटिश शासन काल में भारत में संसदीय संस्थाओं का विकास हुआ था ब्रिटिश शासन काल में भी केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों की स्थापना की गई थी। आते संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश काल से चली आ रही परंपरा का पालन करना ही अच्छा समझा।

10     | fkh; fl ) kar ds vuply & भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। संघीय प्रणाली में इकाइयों को प्रतिनिधित्व देने के लिए दूसरे सदन का होना जरूरी होता है इसलिए राज्यसभा इस शर्त को पूरा करने में सहायता करती है।

11     vkekfu|drk ds vuply & सदन के पक्ष में एक और तर्क यह दिया जाता है कि यह समय की धारा के अनुकूल है। आजकल द्विसदनीय प्रणाली अपनाने का एक फैशन सा बन गया है इसलिए आज के युग में जी सदस्य प्रणाली प्रजातांत्रिक तो ही ही यह एक फैशन भी है। इसको कई बार प्रजातांत्रिक परंपराओं का प्रतीक भी कहा जाता है। विगत वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्यसभा बहुत ही लाभदायक सदन है और इसे समाप्त करना मूर्खता है।

3-4-4- yksd| Hkk rFkk jKT; | Hkk e; | cek (**Relations between Lok Sabha and Rajya Sabha**)

भारतीय संसद के दोनों सदनों अर्थात् राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां तथा अधिकार सम्मान नहीं है क्योंकि लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए इस सदन को दूसरे सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है :—

1      eku | cekh fcyls vFkok ctV dks i kl djuk & धन संबंधी बिल को पास करने में लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त है। हमें हमारे संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धन संबंधी बिल अथवा वार्षिक बजट पहले लोकसभा

में ही पेश किया जाएगा उसे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। जब लोकसभा उस बिल को पास कर देती है तभी उसे राज्यसभा में भेजा जाता है

2 | kēkkj .k fcyk॥ dks i kl djuk & साधारण बिलों को पास करने में भी यद्यपि संसद के दोनों सदनों का समान अधिकार दिए गए हैं परंतु व्यवहार में इस क्षेत्र में भी लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। साधारण बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं और उसके कानून बनने के लिए उसका दोनों सदनों के द्वारा पास होना आवश्यक है परंतु यदि किसी साधारण बिल के पास करने में दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे लोकसभा ही अधिक शक्तिशाली बन गई है।

- 1 वह बिल दूसरे सदन द्वारा रद्द कर दिया जाए या
- 2 दोनों सदन बिल में संशोधन करने के प्रश्न पर असहमत हो जाएं या
- 3 दूसरे सदन में बिल के आने की तिथि से उसे पास किए बिना ही 6 महीने से अधिक समय बीत जाए तो राष्ट्रपति को उस दिन का फैसला करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है।

3- dk; l kfydk i j fu; & भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है इसलिए कार्यपालिका विधानमंडल अर्थात् संसद के प्रति उत्तरदाई है। व्यवहारिक रूप में वह केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदाई है राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न आदि तो पूछ सकते हैं परंतु उन्हें मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करने तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

4 | foekku e॥ | dkkku & यद्यपि संविधान के संशोधन के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार दिए गए हैं और संशोधन लागू होने के लिए उसका दोनों सदनों द्वारा पास होना आवश्यक है परंतु कुछ परिस्थितियों में इस क्षेत्र में भी लोकसभा की ही बात मानी जाती है। संविधान में इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि संविधान में संशोधन से संबंधित किसी प्रस्ताव को पास करने में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा।

j KT; | Hkk dh fo' k;k 'kfà; k &

1 संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने दो बटे तीन बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।

2 संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन राज्य सभा प्रस्ताव पास करके नहीं अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार संघीय सरकार को दे सकती है

### 3-4-5- Hkkj rh; l n dh 'kfä; ka rFkk vfekdkj (**Powers and Powers of the Indian Parliament**)

संसद संघीय सरकार का विदाई अंग है जिसका मुख्य कार्य कानूनों का निर्माण करना है परंतु संसद को इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की अन्य शक्तियां भी दी गई हैं जिन का अध्ययन निर्मल किन भागों में किया जा सकता है।

1 OÙkkfud dk; & संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना है क्योंकि भारत में संघीय सरकार की स्थापना की गई है इसलिए साधारण तरह संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के संबंध में ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर राज्य विधान मंडलों को भी कानून बनाने का अधिकार है परंतु यदि किसी विषय के संबंध में संसद तथा राज्य विधानमंडल कोई परस्पर विरोधी कानून बना देते हैं तो संसद द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता मिलती है।

2- foÙkh; vf/kdkj & संसद को महत्वपूर्ण वित्तीय अधिकार भी प्राप्त हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले वित्त-मंत्री वार्षिक बजट संसद के सामने ही पेंट करता है और उसे पास करवाता है। उसमें वह उस वर्ष की आय-व्यय का ब्यौरा देता है। जो व्यय भारत की संचित निधि के लिए दिए गए हैं, उनको छोड़कर शेष विषयों के सम्बन्ध में संसद को कटौती आदि करने का भी अधिकार है। वह सरकार द्वारा पेंट की गई “पूरक मांगों” को भी अपनी स्वीकृति देती है।

3- fuoklpu | ECU/kh dk; & संसद के सदस्य राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उप-राष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा संयुक्त बैठक में किया जाता है।

4- U; k; | ECU/kh dk; | & संसद को कुछ न्याय सम्बन्धी शक्तियां भी प्राप्त हैं। वह राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति को, यदि वे संविधान के उल्लंघन में कार्य करें, महाभियोग द्वारा उनके पद से हटा सकती है। ऐसा प्रस्ताव किसी भी सदन में उस समय तक पें”। नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी पूर्व सूचना सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षरों सहित कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को न दे दी जाए।

### 3-4-6- ykd| Hkk dk v/; {k %Li hdj % (**Speaker of Lok Sabha**)

लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में कहा गया है, “लोकसभा, यथा”ग्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा और जब कभी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का यह स्थान खाली होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथारिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगा।

इससे स्पीकर के बारे में तीन बातें स्पष्ट होती हैं –

1. वह लोकसभा का सदस्य होता है।
2. स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्य स्वयं करते हैं।
3. स्पीकर लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

dk; ldky & साधारणतः स्पीकर को लोकसभा के कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है, परन्तु इससे पहले भी उसे निम्नलिखित कारणों से पद से हटाया जा सकता है—

1. यदि स्पीकर लोकसभा का सदस्य न रहे तो उसे अपना पद त्यागना पड़ता है।
2. वह अपनी इच्छा से त्याग— पत्र दे सकता है।
3. सदन के कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है। लोकसभा भंग होने की रिति में वह अपना पद नई लोकसभा के प्रथम अधिवें”न की प्रथम बैठक से पहले खाली नहीं करता।

puko – लोकसभा के स्पीकर का चुनाव सदन के सदस्यों के द्वारा अपने में से किया जाता है। लोकसभा के चुनाव के पश्चात उस की पहली बैठक में लोकसभा का मुख्य कार्य स्पीकर का चुनाव करना होता है। व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री स्पीकर के चुनाव के लिए विरोधी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करता है कि किस व्यक्ति का नाम सदन के सामने स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर के लिए रखा जाए। हमारे देश में धीरे-धीरे यह प्रथा बनती जा रही है कि पीकर शासक पार्टी में से तथा डिप्टी स्पीकर विरोधी पार्टी में से लिया

जाता है। सदन में शासक पार्टी का कोई सदस्य लोकसभा के स्पीकर के लिए नाम प्रस्तुत कर देता है तथा अन्य विरोधी पार्टियों द्वारा सदस्य के नाम का अनुमोदन हो जाता है। इस तरह लोकसभा का स्पीकर सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है। 19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के लोकसभा सदस्य श्री ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया तथा गृह मंत्री श्री अमित शाह रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने उनके नाम का समर्थन किया। इस प्रकार श्री ओम बिरला को स्पीकर पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। परंपरा अनुसार अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित पदाधिकारी को प्रधानमंत्री एवं विपक्ष दल के नेता द्वारा आसन तक सम्मान से ले जाया जाता है और तत्पश्चात पदाधिकारी अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं।

Li hij dks gVkj; k tkuk & स्पीकर को उसके निश्चित कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है। उसे संसद के द्वारा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव संसद में कम से कम 14 दिन पहले लाया जाना जरूरी है और मेरा 14 दिन को गिनते समय प्रारंभ में अंत के दोनों दिनों को छोड़ दिया जाता है। जो सदस्य स्पीकर के विरुद्ध प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें यह सूचना लिखित रूप में सचिव को देनी पड़ती है। जब सदन में स्पीकर को हटाए जाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा होता है उसमें स्पीकर लोक सभा की अध्यक्षता नहीं करता। प्रस्ताव पास हो जाने पर स्पीकर को अपना पद रिक्त करना पड़ता है।

ORU & स्पीकर को संसद द्वारा निर्धारित वेतन तथा कई भत्ते मिलते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को ₹400000 मासिक वेतन मिलता है। उसे निशुल्क सरकारी निवास स्थान भी दिया जाता है। यह वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अभिप्राय यह है कि स्पीकर के वेतन तथा भत्ते उसके कार्यकाल में कम ही के जा सकते। स्पीकर के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। इस लोकसभा के स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण है। उसका देश के सर्वोच्च पदाधिकारियों की सूची में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान सातवां स्थान है।

### 3-4-7- Li hij ds dk; l (**Speaker Functions**)

लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है

1 Inu dhl cBdkh dh vè; {krk djuk & स्पीकर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोक सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है। वह इस कार्य को बिना किसी पक्षपात के करता है। इस व्यवस्था को अधिक निश्चित बनाने के लिए ही उसे पद से हटाए जाने के लिए सदन के समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास किए जाने की व्यवस्था की गई है ताकि वह किसी विशेष दल आदि के प्रभाव के अधीन आ रहे। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा का स्पीकर ही करता है।

2 Inu dks LFkfxr djuk & स्पीकर को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को गणपूर्ति ना होने की हालत में स्थगित कर सकता है। इसी प्रकार सदन में गंभीर प्रकार के उपद्रव होने की हालत में भी वह सदन की कार्यवाही को निलंबित कर सकता है।

3 okn foogn dk | e; fuf' pr djuk & सदन के नेता के परामर्श से स्पीकर राष्ट्रपति द्वारा सदन के आगे दिए भाषण पर वाद विवाद का समय निश्चित करता है। वहीं राष्ट्रपति के भाषण से संबंधित धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन का रूप निर्धारित करता है।

4 Inu dk dk; Øe fuf' pr djuk & सदन के नेता की सलाह से स्पीकर सदन का कार्यक्रम तथा उसका क्रम निर्धारित करता है। वह निर्णय करता है कि कौन सा बिल की समय सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए या कौन से विषय पर के सीन बहस की जाए और मेरा सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर के लिए भी समय और दिन स्पीकर ही निश्चित करता है।

5 Inu dhl dk; bkgh pykuk – सदन की कार्यवाही का संचालन करने की जिम्मेवारी स्पीकर की है। वह सदन के सदस्यों को भाषण देने की आज्ञा देता है और भाषण देने वालों का क्रम निर्धारित करता है। प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय भी स्पीकर ही करता है। वह बजट पर होने वाले वाद-विवाद का समय निश्चित कर सकता है और नीति कार्य को निर्धारित समय में समाप्त करने के लिए उचित कदम उठा सकता है। सदन के नियमों की व्याख्या का अधिकार भी स्पीकर को यह प्रार्थना और इस बारे में उसका निर्णय अंतिम होता है।

6 foÙkh; fcylk dks çekf.kr djuk & संविधान के अंतर्गत स्पीकर को यह प्रमाणित करने की शक्ति प्राप्त है कि विशिष्ट बिल वित्तीय बिल है या नहीं। इस बारे में उसका निर्णय अंतिम होता है। इस बिल को वह वित्तीय बिल प्रमाणित कर दे वह केवल

लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में नहीं। लोकसभा द्वारा पास होने के पश्चात राज्यसभा उसे 14 दिन से अधिक समय के लिए नहीं रोक सकती और लोकसभा की इच्छा के बिना ना ही वह इसमें संशोधन कर सकती है।

7 fcylk | s | cfekr 'kf़ि & कोई भी बिल स्पीकर की स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि वह किसी बिल्कुल सरकारी पत्रिका में प्रकाशित करने की आज्ञा दे दे तो उस बिल को औपचारिक तौर पर सदन में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहती। स्पीकर ही बिल पर सदन का मतदान लेने के पश्चात उसे सदन द्वारा पास किया गया प्रमाणित करता है।

8 ernku djokuk & स्पीकर विभिन्न विषयों पर वाद विवाद समाप्त होने के पश्चात उस पर मतदान करवाता है और उसके परिणाम की घोषणा करता है।

9 LFkxu çLrkko dh Lohकृि & जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर सोच विचार करने के लिए रखे जाने वाले स्थगन प्रस्ताव के लिए स्पीकर की सहमति लेना अनिवार्य है। वह से प्रस्ताव पर होने वाले वाद-विवाद का समय निर्धारित करता है फोन मेरा इसी प्रकार किसी बिल के बारे में हो रही बहस पर स्थगन प्रस्ताव के लिए भी पीकर की सहमति लेना आवश्यक है।

10 vupkk| u cuk, j [kuk & सदन में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेवारी भी स्पीकर की ही है और उसे इसके लिए आवश्यक शक्तियां प्राप्त है। वह किसी सदस्य को द्रव्य चार व्यवहार के लिए सदन से निकल जाने का आदेश दे सकता है। कोई यदि कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डाले तो स्पीकर उसे कार्य वंचित कर सकता है। यदि कोई सदस्य सदन के वाद-विवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो स्पीकर के विचार में नींद आत्मक अनुचित और संसदीय अशोभनीय है तो वह उन्हें सदन की कार्यवाही में से काट देने का आदेश दे सकता है। इस प्रकार वह सदन में हंगामा पैदा होने से रोक सकता है।

### 3-4-8- Li hDJ dh fLFkfr (**Speaker Position**)

स्पीकर के कार्य और शक्तियों को ध्यान पूर्वक देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे विशाल शक्तियां प्राप्त हैं। एमबी पाइली ने ठीक लिखा है पीकर सदस्यों के व्यक्तिगत और दलिया आधार पर प्राप्त अधिकारों और विशेष अधिकारों का अभी रक्षक है। संक्षेप में स्पीकर स्वयं सदन की शक्तियों कार्यवाही तथा सम्मान का प्रतीक है।

उसके पद की विशेषता यह है कि यदि लोकसभा भंग भी हो जाए तो स्पीकर का पद खाली नहीं होता। वह नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक अपना कार्य करता रहेगा। इसके अतिरिक्त वह पद से हटाए जाने के मामले में भी किसी विशेष वर्ग पर आश्रित नहीं होता। उसे सदन के सदस्यों के बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। सदन के अल्पसंख्यक वर्गों को सदा ही बहुसंख्यक वर्ग के निरंकुश व्यवहार से खतरा रहता है पर यह आयतन करता है कि सत्ताधारी दल अन्य दलों के प्रति अन्याय ना करें और विरोधी दलों के सदस्यों के अधिकार न छीने। स्वयं लोकसभा एवं दृष्टिकोण से सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और स्पीकर उसका रक्षक होने के नाते राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सुरक्षा का चिन्ह है। संविधान के लागू होने से लेकर आज तक के समय में स्पीकर के पद से संबंधित कई महत्वपूर्ण परंपराएं स्थापित हो गई हैं। उस दौरान एक ऐसा अवसर भी आया जो स्वतंत्र भारत में लोकसभा के स्पीकर श्री जीवी मावलंकर के विरुद्ध सदन के विरोधी दलों के सहयोग प्रियतम द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया। फिर भी इस प्रस्ताव पर हुए बाद विवाद के दौरान स्पीकर के पद के महत्व उसकी शक्तियों तथा स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर जोर डाला गया।

सन 1967 में स्पीकर के पद के बारे में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जब श्री नीलम संजीव रेड्डी ने स्पीकर के पद पर चुने जाने के पश्चात कांग्रेस दल से अपना त्यागपत्र दे दिया और इंग्लैंड जैसी परंपरा स्थापित करने का प्रयत्न किया परंतु श्री रेड्डी के बाद जब गुरदयाल सिंह ढिल्लों बलीराम भक्तों एवं संजीव रेड्डीसुमित्रा महाजन इत्यादि जो लोकसभा के स्पीकर निर्वाचित हुए उन्होंने इस परंपरा का पालन नहीं किया। भारत में स्पीकर का पद पूर्ण रूप से निष्पक्ष पद नहीं रहा है क्योंकि इस पेपर को रिटायर होने के पश्चात या कई बार अपने काम के दौरान ही उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। इसके महत्व को बताते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कल सदन का प्रतिनिधि है। वह सदन के गौरव सदन की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक है क्योंकि सदन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उचित ही है उसका पद सम्मानित तथा स्वतंत्र होना चाहिए और उच्च योग्यता तथा निष्पक्षता वाले व्यक्तियों के द्वारा ही इसे सुशोभित किया जाना चाहिए।

### 3-5- vi u! i xfr tkpi (Check your progress)

नीचे कुछ प्र”न दिए गए हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करें :—

- (i) लोकसभा के संगठन, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन करें?
- (ii) भारतीय संसद के संगठन, कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए?
- (iii) राज्यसभा के संगठन, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन करें?
- (iv) लोकसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) की नियुक्ति एवं उसकी शक्तियों का वर्णन करें?
- (v) लोकसभा के स्पीकर के चुनाव, शक्तियां तथा स्थिति के बारे में आप क्या जानते हैं?

3-6- | kj k”k (**Summary**) – उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि लोकसभा राज्यसभा के मुकाबले में बहुत अधिक शक्तिशाली है। धन संबंधी बिल तथा साधारण बिलों को पास करने में लोकसभा अधिक शक्ति का प्रयोग करती है। राज्यसभा धन संबंधी बिल को केवल 14 दिन तथा अन्य जिलों को 6 महीने तक रोक सकती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करने तथा उसे त्यागपत्र देने के लिए विवश करने की शक्ति भी केवल लोकसभा के पास है राज्यसभा के पास नहीं।

### 3-7- सूचक भक्ति (Key Words)

संसद, लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर

### 3-8- Lo; a eV; kdu g”u i”u (**Self Assessment Questions**)

1. लोकसभा स्पीकर किसको नियुक्त किया जाता है?
2. सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों का विवरण किस अनुच्छेद में है?
3. अखिल भारतीय सेवाओं का विवरण किस अनुच्छेद में है?
4. लोकसभा की विशेष शक्ति कौन सी है?
5. लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है?

### 3-9- vi u h i xfr dh tkp dj us ds fy, mUkj (**Answer check your progress**)

1. आयु में सबसे बड़े सदस्य को।
2. अनुच्छेद 124 में।
3. अनुच्छेद 312 में।
4. ध्यान निधेयक के सम्बन्ध में।
5. 2 सदस्यों को।

### 3-10- | UnHk xFk@funF”kr i f”rdi (**References / Suggested Reading**)

1. Public Administration, McGraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. "प्रासनिक चिंतक; प्रसाद एण्ड प्रसाद सत्यनारायण; जवाहर पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन |

<b>Subject : jktuhfrd foKku</b>	
<b>Course Code : BA101</b>	<b>Author : Dr. Deepak</b>
<b>Lesson No. : 4</b>	<b>Vetter :</b>
। fo/kku । द्विकालीन अधिकार & विधान परिषद्, फूलकु । Hkk	

---

## ॥४॥ & ४ । द्विकालीन अधिकार & विधान परिषद्, विधान सभा

---

- 4-1 विधान सभा के मुख्य लक्षण (Learning Objectives)
- 4-2- इनकाल (Introduction)
- 4-3- विधान सभा के मुख्य बहुताएँ (Main Points of Text)
- 4-3-1 । द्विकालीन अधिकार के द्वारा किए जाने वाले विधान सभा के लक्षण (Revision Process)
- 4-3-2 । द्विकालीन अधिकार के द्वारा किए जाने वाले विधान सभा के लक्षण (General Features of the Revision Process)
- 4-3-3- । द्विकालीन अधिकार के द्वारा किए जाने वाले विधान सभा के लक्षण (Criticism of the Revision Process)
- 4-4- इनकाल के द्वारा किए जाने वाले विधान सभा के लक्षण (Further main body of the text)
- 4-4-1- विधान सभा का गठन (Composition of Legislative Assembly)
- 4-4-2- चुनाव (Election)
- 4-4-3- राज्य विधानमण्डल की भावितव्य तथा अधिकार (Powers and Functions of State Legislature)
- 4-4-4- विधान-परिषद् की रचना (Composition of the Legislative Council)
- 4-5- विधान सभा का अवगति (Check your progress)
- 4-6- इनकाल का सारांश (Summary)
- 4-7- सूचक शब्द (Key Words)
- 4-8- विधान सभा का अवगति (Self Assessment Questions)

4-9- vi u h i xfr dh tkp djus ds fy, mÙkj (**Answer check your progress**)

4-10- | UnHk xJFk@funF"kr i frd (References/Suggested Reading)

4-1 Vf/kxe mnñ"; (**Learning Objectives**)

इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों के बारे में समझाया गया है :—

- भारतीय संविधान के सं”ोधन की प्रक्रिया
- संविधान सं”ोधन का आधार
- राज्यों की विधानसभा का विवरण
- राज्यों की विधान परिषद् का विवरण

4-2- i Lrkouk (**Introduction**)

भारतीय संविधान की एक मुख्य विषयता यह है कि यह अंतः लचीला व अंतः कठोर (Partly flexible and partly rigid) है। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें सं”ोधन उसी प्रक्रिया से किया जा सके, जो एक साधारण कानून को पास करने के लिए अपनाई जाती है। इंग्लैण्ड का संविधान इसका उदाहरण है। इसके विपरीत जहाँ पर संविधान में सं”ोधन करने के लिए किसी विषय प्रक्रिया के अपनाने की आवश्यकता हो अर्थात् उसे साधारण कानून से पास करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से न बदला जा सके, उसे कठोर संविधान कहते हैं। अमेरिका तथा स्विट्ज़रलैण्ड के संविधान कठोर संविधान के उदाहरण हैं। हमारा संविधान चूंकि संघात्मक शासन—प्रणाली की व्यवस्था करता है इसलिए हमारे संविधान का कठोर होना आवश्यक था, परन्तु हमारे संविधान के निर्माता यह अनुभव करते थे कि कठोर संविधान देश की उन्नति के मार्ग में बाधा बन सकता है, क्योंकि देश की बदलती हुई सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उनको बदलना कठिन हो जाता है।

4-3- V/; ; u ds e[; fcUnq (**Main Points of Text**)

4-3-1 | f"kk/ku dh ifØ; k (**Revision Process**) %& भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में सं”ोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सं”ोधन के लिए संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को तीन श्रेणियों में बाँट दिया गया है। पहले वर्ग में संविधान के वे अनुच्छेद हैं जिनमें संसद अपने बहुमत से सं”ोधन कर सकती है। दूसरे वर्ग में दिए गए अनुच्छेदों में सं”ोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरे

वर्ग के अनुच्छेदों में सं”गोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के दो—तिहाई बहुमत के साथ—साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी आव”यक होती है।

1- | d n ds | lk/kkj . k cger | s | #’kkvku (**Ammendment by Parliament through Simple Majority**) – संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें संसद उसी प्रकार से सं”गोधन कर सकती है जिस प्रकार उसके द्वारा साधारण कानून पास किए जाते हैं। इस दृष्टि से हमारा संविधान लचीला (Flexible) है। पहली श्रेणी में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं –

- (i) नए राज्यों का निर्माण तथा उन्हें भारतीय संघ में शामिल करना।
- (ii) वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन करना – उनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करना।
- (iii) भारत की नागरिकता सम्बन्धी विषय।
- (iv) राज्य की विधानसभा की सिफारिं”I पर उस राज्य में विधान—परिषद् की स्थापना करना अथवा उसे समाप्त करना।
- (v) राष्ट्रभाषा सम्बन्धी विषय।
- (vi) सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार करना तथा न्यायाधी”ों की संख्या निर्दिष्ट करना।
- (vii) संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएँ निर्दिष्ट करना।

2- dN vuPNn | d n ds nkuk | nuk ds nk&frgkbl cger | s | #’kkf/kr fd, tk | drs g (Some provisions can be changed by two-third majority of both houses of the Parliament) – दूसरी श्रेणी में वे अनुच्छेद हैं जिनमें सं”गोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान के अधिकां”I अनुच्छेदों में सं”गोधन इसी ढंग से किया जा सकता है। इस ढंग के अनुसार संविधान के अनुच्छेदों में सं”गोधन संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो—तिहाई बहुमत से किया जा सकता है। यहाँ यह बता देना आव”यक है कि संविधान के भाग III तथा IV में भी सं”गोधन इसी ढंग से किए जाने की व्यवस्था की गई है परन्तु 1969 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में सं”गोधन नहीं कर सकती है।

3- dN vuPNn | d n ds nkuk | nuk ds nk&frgkbl cger rFkk vk/ks jKT; k dh fo/kku i kfylkvk ds | eFku | s gh cnys tk | drs g (The provisions

**which can be changed by two-third majority of both houses of Parliament and ratification by atleast half of State Legislatures) –** तीसरी श्रेणी में संविधान के वे अनुच्छेद आते हैं, जिनमें सं”गोधन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 में अत्यन्त कठोर ढंग का वर्णन किया गया है। इन अनुच्छेदों में सं”गोधन के लिए पहले संसद के दोनों सदनों में अलग—अलग से समस्त सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है तथा बाद में इसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

**4-3-2- । ॥क्षेत्रार्थीकरण की संविधान सं”गोधन प्रक्रिया की सामान्य विषयों को निम्नानुसार विवेचित किया जा सकता है –**

**1- संसद को व्यापक भावितयों (Enormous powers of Parliament) –** भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संसद की प्रभुसत्ता को स्थापित कर उसे शक्ति—संपन्न स्वरूप प्रदान किया गया है। अतः संविधान में सं”गोधन करने की व्यापक शक्तियाँ संसद में ही निहित हैं।

**2- संसद को इतना सक्षम बनाया गया है कि वह न केवल संविधान के अन्य अनुच्छेदों को बल्कि सं”गोधन प्रक्रिया वाले अनुच्छेद 368 को भी सं”गोधित कर सकती है।**

**3- राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यकता (The Consent of the Prime Minister Essential) –** संविधान सं”गोधन विधेयक तभी पारित माना जाता है जब उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी सं”गोधन विधेयक पर अनुमति देने से इन्कार नहीं कर सकता। यह संविधान के 24वें सं”गोधन में स्पष्ट कर दिया गया है। यह व्यवस्था अमेरिकन संविधान से इस दृष्टि से भिन्नता लिए हुए हैं कि वहाँ सं”गोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वहाँ संविधान में राष्ट्रपति की औपचारिक भूमिका ही है।

**4- संसद को अनुसमर्थन करने के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन होना आवश्यक है।** इस प्रकार राज्य तो संसद द्वारा

पारित सं”गोधन विधेयक का अनुसमर्थन ही कर सकते हैं। उन्हें संविधान सं”गोधन प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

5- | ꝓkkRed 0; oLFkk dh | ꝓ<fk dk /; ku (**Attention towards solid Council Arrangement**) – सं”गोधन प्रक्रिया का निर्धारण करते समय ‘संघात्मक व्यवस्था की सुदृढ़ता’ को ध्यान में रखा गया है जिससे संघीय इकाइयों को असन्तोष न हो। संघात्मक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में सं”गोधन करने के लिए राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति का प्रावधान रखकर संविधान—निर्माताओं ने दे”। की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने का भागीरथ प्रयास किया है।

6- uE; rk vkj vuE; rk dk feJ.k (**Mixture of Politeness and Impoliteness**) – सं”गोधन प्रक्रिया न एकदम लचीली है और न एकदम कठोर है। इसमें नम्यता और अनम्यता का सुंदर सम्मिश्रण है जैसा कि , e-oh- ik; yh का मानना है, ^, sl k dkbl vU; | ꝓkkRed | fo/kku ugha gS tks uE; rFkk vuE; nkukh gh i dkj dh | ꝓkku ifØ; k dk i; kx djA ; g fo”शता के बाहर भारतीय संविधान में ही gA\*\*

7- tuer | ꝓig dh 0; oLFkk ugha (**No need of public opinion**) – भारत में संविधान—सं”गोधन के लिए जनमत—संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जैसा कि स्विट्जरलैंड के संविधान में विद्यमान है।

8- | d n }kj k | fo/kku ds ely Lo: lk e i fjo|lu ugha (**Parliament having no power to change the basic structure of constitution**) – भारत में यद्यपि संविधान में सं”गोधन करने में संसद को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन उसकी शक्तियाँ असीमित (Unlimited) नहीं हैं। के”वानन्द भारती विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संसद संविधान में सं”गोधन तो कर सकती है, परन्तु वह संविधान के मूलस्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय संसद की असीमित शक्तियों को नियंत्रित करता है।

4-3-3- | ꝓkku ifØ; k dh vkykpuk (**Criticism of the Procedure of Amendment**) – यद्यपि संविधान निर्माताओं ने एक आद”। सं”गोधन पद्धति अपनाने का प्रयत्न किया है परन्तु फिर भी वर्तमान सं”गोधन पद्धति की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जा सकती है—

1- राज्य विधानमण्डलों से पुष्टि के लिए समय—सीमा निर्धारित नहीं (**No Fixed Time limit for the Approval of State Assembly**) – सं”गोधन पद्धति की पहली आलोचना इस आधार पर की गई है कि जब सं”गोधन संसद द्वारा पारित होने के बाद राज्यों के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राज्य स्वीकृति देने के लिए कितना समय लेंगे, यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है। राज्य विधानमण्डल अनावश्यक देरी—मार्ग अपनाकर सं”गोधन के कार्य में बाधक बन सकते हैं।

2- erHkñ nij dj us dh 0; oLFkk ugha (**No Provision for Resolving Dead Lock**) – साधारण विधेयक पर कहीं संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर मतभेद को दूर करवा सकता है लेकिन सं”गोधन विधेयक पर मतभेद के बारे में संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे राज्य सभा कई बार लोक सभा द्वारा पारित संविधान सं”गोधन को रद्द कर देती है। जैसे सन् 1970 में राज्य सभा ने ‘प्रिवी पर्स उन्मूलन’ सं”गोधन की अस्वीकार कर दिया था। ऐसे ही राज्य सभा ने सन् 1989 में पंचायती राज से सम्बन्धित 64वें संवैधानिक सं”गोधन को रद्द कर दिया था।

3- राज्यों के पास पहल करने की भावित नहीं (**States have no Power to Initiate the Amendment**) – संघात्मक व्यवस्था में साधारणतः राज्यों को संविधान में सं”गोधन प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त होता है लेकिन भारतीय संविधान में राज्यों को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्यों के पास पुष्टि के लिए सभी सं”गोधन नहीं आते। ऐसी धाराओं की संख्या बहुत कम है जिन पर कम—से—कम आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। इस प्रकार संविधान के एक बहुत बड़े भाग में राज्यों की स्वीकृति के बिना ही सं”गोधन हो जाता है। आलोचकों ने यह कहकर आलोचना की है कि सं”गोधन करना तो केवल केन्द्र का ही अधिकार बन गया है।

4- tuer I xig dk u gkuk (**No Provision for Referendum**) – भारत में संविधान सं”गोधन की विधि ऐसी है जिसमें जनता की अवहेलना हो सकती है, क्योंकि इसमें जनता की राय जानने की कोई व्यवस्था नहीं है। 44वें सं”गोधन बिल के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान की मूल विधियों को जनमत संग्रह द्वारा ही बदला जा सकता है। इस सं”गोधन को लोक सभा ने तो पास कर दिया, परन्तु राज्य सभा ने इस सं”गोधन बिल को जनमत संग्रह के अनुच्छेद को पास नहीं किया। राज्य सभा का यह

विचार है कि भारत जैसे विंगल दे”। के लिए जनमत संग्रह करवाना बहुत कठिन है और यह खर्च का मामला है।

5- **अस्पष्ट (Not Clear)** – संविधान में दी गई संगोधन प्रक्रिया को इस बात के आधार पर भी आलोचना की जाती है कि इसमें यह बात स्पष्ट नहीं है कि संसद द्वारा पास किए गए संगोधन प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है अथवा नहीं। यद्यपि संविधान के 24वें संगोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है अथवा नहीं। यद्यपि संविधान के 24वें संगोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने से इन्कार नहीं कर सकता, परन्तु यह बात अब भी स्पष्ट नहीं है कि उसे अपनी स्वीकृति कितने समय में दे देनी चाहिए।

6- **dBkj i fØ; k (Rigid Procedure)** – कई विषयों में संगोधन की प्रक्रिया अति कठोर है। पहले तो इसके बारे में संसद के दोहरे बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इसके पास उसे कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। यह प्रक्रिया उस समय वास्तविक कठिनाई उत्पन्न कर सकती है जब केन्द्र में एक दल की तथा अधिकतर राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हों।

7- **I fikkRed i z kkyh ds fo#) (Against Federalism)** – भारतीय संविधान की अनुच्छेद 249 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यदि राज्य सभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य-सूची में दिए गए किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यह संघीय सरकार के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। इसी प्रकार संसद किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संगठन द्वारा किए गए निर्णय को लागू करने के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, भले ही वह राज्य-सूची में हो। यह व्यवस्था भी अनुचित है क्योंकि राज्य-सूची में परिवर्तन करने के लिए विंग प्रक्रिया की व्यवस्था होनी चाहिए।

8- **Vgkk/kq/k | f'kk/ku (Blind Amendment)** – स्वतंत्रता के पास दे”। में किए गए संविधान संगोधनों के अंधाधुंध क्रम ने संगोधन पद्धति की असफलता को उजागर

कर दिया है। आलोचकों का यहाँ तक कहना कि इन व्यापक संविधान संगोष्ठी के कारण 'मूल संविधान' तो समाप्त हो गया है, केवल संगोष्ठी बाकी रह गए हैं।

#### 4-4- i kB ds vlxo dk ej[; Hkkx (**Further main body of the text**)

4-4-1- fo/kkul Hkk dk | xBu (**Composition of Legislative Assembly**) – संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट नहीं की गई है। अनुच्छेद 170 में केवल इतना कहा गया है कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक तथा 60 से कम नहीं होगी। प्रत्येक जनगणना के पश्चात् राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्दिष्ट नहीं की जाती है। इस कारण से यह संख्या भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। संविधान के 42वें संगोष्ठी द्वारा यह व्यवस्था की ईर्ष्या है कि सन् 2000 के पश्चात् होने वाली प्रथम जनगणना तक प्रत्येक राज्य के चुनाव-क्षेत्रों के विभाजन के लिए वही आँकड़े लिए जाएँगे जो 1971 की जनगणना के अनुसार निर्दिष्ट तथा प्रकारीत हो चुके हैं। 31 अगस्त, 2000 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत महत्वपूर्ण निर्णय एवं संसद द्वारा अगस्त 2001 में पास किए संवैधानिक संगोष्ठी द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा व विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सन् 2026 तक बढ़ाए बिना उनका परिसीमन किया जाएगा जिससे विभिन्न क्षेत्रों में मतदाताओं और प्रतिनिधियों के अनुपात में समानता लाई जा सके। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का आबादी के आधार पर पुनर्निर्धारण करने का निर्णय भी हुआ जो 1991 की जनसंख्या के आधार पर लागू होगा।

4-2-2- pukko (**Election**) – राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के मतदाताओं द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर निर्वाचन-क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम-से-कम 75 हजार जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष, जिसकी आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक है, विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार रखते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित एवं आदिम जातियों के सदस्यों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे गए हैं। यदि एंग्लो-इण्डियन समुदाय को विधानसभा में चुनाव के आधार पर कोई स्थान प्राप्त न हो सके, तो राज्यपाल उस समुदाय के एक

सदस्य को राज्य की विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिसम्बर, 2019 में पारित 104वें संवैधानिक संग्रहन द्वारा एंग्लो-इण्डियन जाति की मनोनयन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया गया है।

#### 4-2-3- राज्य विधानमण्डल की भावितयाँ तथा अधिकार (**Powers and Functions of State Legislature**) –

1- dkuu | Ecl/kh vf/kdkj (**Legislative Powers**) – राज्य विधानमण्डल को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य-सूची और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। जैसा कि हम जानते हैं, समवर्ती सूची पर संसद भी कानून बना सकती है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधानपालिका के बनाए कानूनों में परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाए तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाता है।

2- foÙk | Ecl/kh vf/kdkj (**Financial Powers**) – राज्य विधानपालिका को राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर पूरा-पूरा नियन्त्रण प्राप्त है। वहीं राज्य का बजट पास करती है। उसकी स्वीकृति के बिना सरकार न कोई टैक्स लगा सकती है और न ही एक पैसा खर्च कर सकती है परन्तु विधानपालिका के इस अधिकार की भी कुछ सीमाएँ हैं। यहाँ तक उल्लेखनीय है कि वित्त बिल केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। विधान-परिषद् उसे अपने पास 14 दिन के लिए रख सकती है। यदि वह 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करती तो बिल पारित समझा जाता है।

3- dk; i kfydk | Ecl/kh vf/kdkj (**Executive Powers**) – राज्यों में संसदीय शासन-प्रणाली अपनाई गई है, जिसके अनुसार एक मन्त्रि-परिषद् की व्यवस्था की गई है। यह मन्त्रि-परिषद् अपने शासन सम्बन्धी कार्यों के लिए विधानमण्डल के निचले सदन अर्थात् विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।

- (i) प्र”न और अनुपूरक प्र”न पूछकर।
- (ii) काम रोको प्रस्ताव पास करके।
- (iii) मन्त्रियों द्वारा पे”। किए बिल को अस्वीकार करके।
- (iv) मन्त्रियों के विरुद्ध अविवास का प्रस्ताव पास करके।

4- | दृष्टिकोणीय विधानमण्डल को कुछ संविधानिक अधिकार या शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन के लिए राज्य विधानपालिकाओं की स्वीकृति अनिवार्य है। उनकी स्वीकृति के बिना वे संविधान में संशोधन नहीं कर सकते अर्थात् संशोधन करने के लिए राज्य विधानमण्डलों के कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों की अनुमति मिलनी अनिवार्य है।

5- प्रभुता | चुनावी विधानमण्डल (Electoral Powers) –

- (i) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं।
- (ii) राज्य की विधान-परिषद् के  $1/3$  सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।
- (iii) विधानसभा द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पास करने पर संसद कानून पास करके किसी राज्य में विधान-परिषद् को समाप्त कर सकती है अथवा उसकी स्थापना कर सकती है।

4.2.4- विधान-परिषद् की रचना (**Composition of Legislative Council**) – भारत के 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में विधान-परिषद् की स्थापना की गई है। संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में विधान-परिषद् के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के  $1/3$  से अधिक तथा 40 से कम नहीं हो सकती। यहां यह उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के द्वारा जम्मू-कश्मीर को 8वें एवं लद्दाख को 9वें केन्द्र-“ासिन प्रदेश” बनाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश को विधानसभा वाला केन्द्र-“ासित प्रदेश” बनाने की घोषणा भी की गई। यद्यपि यहां यह उल्लेखनीय है कि दादरा नगर हवेली और दमन दीप का विलय कर इन्हें एक ही केन्द्र-“ासित क्षेत्र के रूप में रूपान्तरित करने के लिए दादरा नगर हवेली और दमन-दीप (संघ राज्य क्षेत्रों का विलय) विधेयक, 2019 को संसद द्वारा पास करने के उपरान्त 9 दिसम्बर, 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात् 26 जनवरी, 2020 को यह विलय प्रभावी हो गया, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई है।

; kX; rk, i (**Qualifications**) – विधान–परिषद् का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्दिष्ट की गई हैं –

- (1) वह भारत का नागरिक हो।
- (2) वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- (3) वह किसी सरकारी लाभदायक पद पर न हो।
- (4) उसमें वे सब योग्यताएँ होनी चाहिएं जो संसद के कानून द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं।
- (5) उसमें कोई ऐसी अयोग्यता नहीं होनी चाहिए, जो कानून द्वारा निर्दिष्ट की गई हो।

dk; ldky (**Tenure**) – विधान–परिषद् एक स्थायी सदन है जो पूर्ण रूप से कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य प्रति दो वर्ष के प”चात् अवका”। ग्रहण करते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। अवका”। ग्रहण करने वाले सदस्य दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं।

i nkf/kdkj h (**Officers**) – विधान–परिषद् का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है, जिनका चुनाव विधान–परिषद् के सदस्य अपने में से करते हैं। अध्यक्ष विधान–परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उनमें अनु”ासन बनाए रखता है। उसकी अनुपस्थिति में यह कार्य उपाध्यक्ष के द्वारा सम्पन्न किया जाता है। इन दोनों अधिकारियों को सदन के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है, परन्तु इसके लिए 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक है।

Vf/kos”ku (**Session**) – विधान–परिषद् का अधिवेशन राज्यपाल द्वारा ही बुलाया जाता है, लेकिन एक वर्ष में दो बार अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। दो अधिवेशनों के बीच का अन्तर 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए।

I nL; kq ds fo”**विधायिकार (Privileges of the Members)** – विधान–परिषद् के सदस्यों को निम्नलिखित विधायिकार प्राप्त हैं –

- (1) विधान–परिषद् के सदस्यों को सदन में भाषण देने की पूरी स्वतन्त्रता है।
- (2) सदन में दिए गए भाषण के आधार पर सदस्यों के खिलाफ किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चला जा सकता।

(3) सदस्यों को अधिवेशन शुरू होने से 40 दिन पहले और अधिवेशन समाप्त होने के 40 दिन बाद तक के बीच के समय में दीवानी मुकदमों के लिए बन्दी नहीं बनाया जा सकता।

#### 4-5- vi u h i xfr tkpi (Check your progress)

नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करें :—

- (i) भारतीय संविधान में संघोधन की विधि का वर्णन करो।
- (ii) संवैधानिक संघोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करें।
- (iii) भारतीय संविधान के 42वें संघोधन की मुख्य विषयों का उल्लेख कीजिए।
- (iv) भारतीय संविधान के 44वें संघोधन की मुख्य धाराओं की व्याख्या करो।
- (v) भारतीय संविधान के 52वें संघोधन पर संक्षिप्त नोट लिखें।
- (vi) संवैधानिक संघोधनों के सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों का वर्णन करें।

#### 4-6- I kj kdk (Summary) — ऊपर दिए गए विवरण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो इंग्लैण्ड के संविधान की भाँति लचीला है और न ही अमेरिकन संविधान की तरह कठोर है। यद्यपि यह संविधान पूर्ण रूप से लचीला संविधान नहीं है, परन्तु फिर भी यह देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदला है। सन् 1963 में कानून मन्त्री श्री ए.के. सेन ने संसद में एक संघोधन प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था, “संविधान लोगों के लिए होते हैं, लोग संविधानों के लिए नहीं।”

इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि 44वां संघोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संघोधन है, जिसके द्वारा संकटकालीन स्थिति में 42वें संघोधन द्वारा लाई गई गलतियों को सुधारा गया है तथा 44वें संघोधन के द्वारा व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री संकटकालीन धाराओं का दुरुपयोग नहीं कर सकते। अब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की केवल लिखित सलाह पर ही धारा 352 के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा कर सकता है, अन्यथा नहीं। अगर राष्ट्रपति उचित समझे, तो वह मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह को दोबारा विचार करने के लिए भी कह सकता है। अब कार्यपालिका को धारा 20 तथा 21 को स्थगित करने का अधिकार नहीं रहा। अब इस संघोधन के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के उच्च न्यायालयों के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता तथा संकटकालीन स्थिति में संसद की कार्यवाही प्रकार्ति

करने का अधिकार भी निलम्बित नहीं किया जा सकता। अंत में, 44वें सं”गोधन द्वारा काफी हद तक वह स्थिति स्थापित हो गई है, जो कि 42वें सं”गोधन से पूर्व की स्थिति थी।

कानून निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में अपनाई गई कानून निर्माण प्रक्रिया केन्द्रीय कानून निर्माण प्रक्रिया से मिलती-जुलती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर विधानमण्डल के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। समितियाँ अपनी रिपोर्ट द्वारा विशेष विचार प्रकट करती हैं। यहाँ तक कि विरोधी दलों को भी अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है।

#### 4-7- सूचक भाव (Key Words)

संविधान सं”गोधन की प्रक्रिया, मन्त्रि परिषद् मंत्रीमण्डल, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयता

I fo/kku | f'kkvku dhl i fØ; k &

भारतीय संविधान सं”गोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है।

संविधान के पुराने कानूनों में बदलाव लाने की प्रक्रिया को संविधान सं”गोधन कहा जाता है।

मंत्री परिषद –

मंत्री परिषद में विधान सभा के सभी चुने गए मन्त्रियों को शामिल किया जाता है।

e=hl e. My &

मन्त्रीमण्डल में सरकार के उन सभी मन्त्रियों को शामिल किया जाता है जो सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होते हैं।

f0lk fo/ks d &

वित्त विधेयक से हमारा अभिप्राय उस विधेयक से है जिसके आधार पर सरकार को कानून के दायरे में रहते हुए बजट में से पैसे को खर्च करने का अधिकार मिल जाता है।  
f0fu; kx fo/ks d &

विनियोग विधेयक हमारा अभिप्राय उस विधेयक है जिसके आधार पर सरकार को टैक्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने का अधिकार मिल जाता है।

#### 4-8- Lo; i elW; kdu gsvi i'v (Self Assessment Questions)

1. भारतीय संविधान में सं”गोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस धारा में किया गया है।
2. 2021 तक भारतीय संविधान में कितने संवैधानिक सं”गोधन हो चुके हैं।
3. किस सं”गोधन द्वारा लोकसभा की अवधी 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दी गई।
4. भारत के संविधान के किस सं”गोधन द्वारा सिविकम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है।
5. भारतीय संविधान में सं”गोधन करने का अधिकार किसके पास है।

4-9- विविध विषयों का संबंध विश्लेषण करें, जिनके साथ आपको इस संलग्न उत्तर में दिए गए विवरणों का सम्बन्ध खोजना होगा। (Answer check your progress)

- (i) 368
- (ii) 105
- (iii) 42वां सं”गोधन
- (iv) 35वें
- (v) भारत के राष्ट्रपति के पास

4-10- इनके उत्तरों का संलग्न उत्तर में दिए गए विवरणों के साथ सम्बन्ध खोजें। (References/Suggested Reading)

1. Public Administration, Mcgraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. प्र”ासनिक चिंतक; प्रसाद एण्ड प्रसाद सत्यनारायण; जवाहर पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन।

<b>Subject : jktuhfrd foKku</b>	
Course Code : <b>BA101</b>	Author : <b>Dr. Deepak</b>
Lesson No. : <b>5</b>	Vetter :
i pk; rh jkt   LFkk % bfrgkl ] eiyHkr fo" शताएं, 73वां और 74वां वक्ता   fo/kku   द्विक्षयु	

---

v;/ k; & 5 i pk; rh jkt | LFkk % bfrgkl ] eiyHkr fo" शताएं,  
73वां वक्ता | fo/kku | द्विक्षयु

---

- 5-1 vf/kxe mnñ"; (**Learning Objectives**)
- 5-2- i Lrkouk (**Introduction**)
- 5-3- v;/ ; u ds eq[; fcUnq (**Main Points of Text**)
- 5-3-1- 73oा | fo/kku | द्विक्षयु ds mnñ"; (**Objectives of the 73<sup>rd</sup> Constitutional Amendment**)
- 5-3-2- 73oा | fo/kku | द्विक्षयु vf/kfu; e dh i eq[k fo" शताएं (**Salient Features of the 73<sup>rd</sup> Constitutional Amendment Act**)
- 5-3-3- 73oा | fo/kku | द्विक्षयु dk egRo (**Significance of 73<sup>rd</sup> Constitutional Amendment**)
- 5-4- i kB ds vkxs dk eq[; Hkkx (**Further main body of the text**)
- 5-4-1- 74oा | fo/kku | द्विक्षयु vf/kfu; e (**74<sup>th</sup> Constitutional Amendment Act**)
- 5-4-2- 74oा | fo/kku | द्विक्षयु ds mnñ"; (**Objectives of the 74<sup>th</sup> Constitutional Amendment**)
- 5-4-3- 74oा | fo/kku | द्विक्षयु dh i eq[k fo" शताएं (**Salient Features of the 74<sup>th</sup> Constitutional Amendment**)
- 5-4-4- 74oा | fo/kku | द्विक्षयु dk egRo (**Significance of 74<sup>th</sup> Constitutional Amendment**)
- 5-4-5- j KT; foèkkueMy (**State Legislature**)
- 5-4-6- foèkku i f"kn dk xBu (**Constitution of Legislative Council**)
- 5-5- vi uh i xfr tkpा (**Check your progress**)
- 5-6- I kj k"k (**Summary**)
- 5-7- सूचक भाब्द (**Key Words**)
- 5-8- Lo; a eW; kdu gñw i "u (**Self Assessment Questions**)
- 5-9- vi uh i xfr dh tkp djs ds fy, mÙkj (**Answer to check your progress**)

## 5-10- | UnHkxJFk@funf"kr i Lrd (References/Suggested Reading)

### 5-1 vf/kxe mnns"; (Learning Objectives)

हम इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे :—

- 73वें संविधान सं”गोधन
- 74वां संविधान सं”गोधन अधिनियम

### 5-2- i Lrkouk (Introduction)

स्वतन्त्रता प”चात दे”। को सुचारू रूप से चलाने के लिये हमारे नीति निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान में नियमों के अनुरूप व एक नियत प्रक्रिया के अधीन जब भी कुछ परिवर्तन किया जाता है या उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है अथवा हटाया जाता है तो यह संविधान सं”गोधन अधिनियम कहलाता है। भारत में सदियों से चली आ रही पंचायत व्यवस्था जो क कारणों से काफी समय से मृतप्रायः हो रही थी, को पुर्णजीवित करने के लिये संविधान में सं”गोधन किये गये। ये सं”गोधन तिहत्तरवां व चौहत्तरवां सं”गोधन अधिनियम कहलाये। तिहत्तरवें संविधान सं”गोधन अधिनियम द्वारा भारत के नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्व”ासन की स्थापना की गई। इन अधिनियमों के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में नयी पंचायती राज व्यवस्था को आव”यक रूप से लागू करने के नियम बनाये गये। इस नये पंचायत राज अधिनियम से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने व स्थानीय स्तर पर उसे मजबूत बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस अधिनियम में जहां स्थानीय स्व”ासन को प्रमुखता दी गई है व सक्रिय किये जाने के निर्देश हैं वहीं दूसरी ओर सरकारों को विकेन्द्रीकरण हेतु बाध्य करने के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है।

73वां संविधान सं”गोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नई पंचायतीय पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकार संविधान की बाध्यता के अधीन है, अतः राज्य सरकार की इच्छा पर न तो पंचायत का गठन और न ही नियमित अंतराल पर चुनाव होना निर्भर करेगा।

73वां सं”गोधन अधिनियम (73<sup>rd</sup> Amendment Act) के प्रावधानों को दो भागों में बाँटा जा सकता है —

1. अनिवार्य

2. स्वैच्छिक

कानून के अनिवार्य नियम में सम्मिलित है – नई पंचायतीराज पद्धति, दूसरे भाग में स्वैच्छिक प्रावधान को राज्यों के निर्देशानुसार सम्मिलित किया जाता है, अतः स्वैच्छिक प्रावधान राज्य के नई पंचायतीराज पद्धति को अपनाते समय भौगोलिक, राजनीतिक और प्रासादिक तथ्यों को ध्यान में रखकर अपनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है, अर्थात् भारत की संघीय पद्धति में केंद्र और राज्यों के संतुलन को कानून प्रभावित नहीं करता, फिर भी यह राज्य (स्थानीय सरकार) मुद्रे पर केन्द्रीय कानून है, कानून राज्य के अधिकार – क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करता जिसे पंचायतों को ध्यान में रखकर पर्याप्त स्वैच्छिक शक्तियाँ दी गई हैं। यह कानून देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की उन्नति में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रतिनिधिक लोकतंत्र (Representative Democracy) और भागीदारी लोकतंत्र (Participative Democracy) में बदलता है। यह देश में लोकतंत्र को सबसे निचले स्तर पर तैयार करने की एक युगान्तकारी और क्रांतिकारी सोच है।

5-3- विधि का उद्देश्य (Main Points of Text)

5-3-1- 73वां आमंत्रण का उद्देश्य (Objectives of the 73<sup>rd</sup> Constitutional Amendment) %

- पंचायतों को मजबूत, अधिकार सम्पन्न व स्थानीय स्वास्थ्यानिक इकाई के रूप में स्थापित करना।
- विकेन्द्रीकृत करना तथा स्थानीय स्तर पर संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करना।
- स्थानीय स्तर पर पंचायत के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया, विकास कार्यों व शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

- ग्राम विकास प्रक्रिया के नियोजन, क्रियान्वयन तथा निगरानी में गांव के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना व उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अहसास कराना।
- लम्बे समय से हासिये पर रहने वाले तबकों जैसे महिला, दलित एवं पिछड़ों को ग्राम विकास व निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।
- स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता बढ़ाना व लोगों को अधिकार देना।

5-3-2- 73o<sup>॥</sup> | fo/kku | ḍ'kkv/ku vf/kfu; e dh i ḍe[k fo"शताएँ (Salient Features of the 73<sup>rd</sup> Constitutional Amendment Act) %

1- i ḍk; rh jkt | LFkkvk dks | ḍykkfud Lrj & 73वें संविधान सं"गोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्तर प्रदान करने के लिए लाया गया है। अधिनियम का प्रस्ताव संसद के समक्ष 1991 में 72वें संविधान सं"गोधन अधिनियम के रूप में किया गया था किन्तु पारित होते—होते यह 73वां संविधान सं"गोधन अधिनियम, इस प्रकार यह संविधान सं"गोधन अधिनियम भारत सरकार के राजपत्र में 24 अप्रैल, 1993 को प्रकाशित और प्रवर्तित हुआ। इस संविधान सं"गोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के पूर्ववर्ती भाग 8 के प"चात् एक नया हिस्सा भाग 9 'पंचायती' शीर्षक से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 243 जोड़ते हुए दे"॥ में पंचायती राज संस्था से सम्बन्धित आव"यक तत्वों का न केवल समावेष किया गया है अपितु पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और चुनावों से सम्बन्धित प्रत्याभूति प्रदान की गई है। पूर्व में केवल अनुच्छेद 40 के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया था किन्तु अब उपर्युक्त व्यवस्था हो जाने के प"चात् पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है।

2- xke| Hkk dk i ḍo/kku & संविधान सं"गोधन अधिनियम यह उपबंध करता है कि ग्राम स्तर पर ग्रामसभा ऐसी शक्तियों का संव्यवहार और कर्तव्यों का निर्वाह कर सकेगी जो राज्य विधान मंडल अधिनियम द्वारा निश्चित करें।

3- f=Lrjh; ipk; rh jkt & प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि अब संविधान के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य को त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था अपनाए जाने का सामान्य निर्देश किया गया है। इन्हीं प्रावधानों में 20 लाख से कम की जनसंख्या वाले राज्यों को पंचायती राज की मध्यवर्ती इकाई के गठन से छूट दी गई है। सभी राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं के गठन के संबंध में अधिनियम बनाकर प्रावधान करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। इस संदर्भ में यह भी कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो पंचायती राज संस्थाओं का गठन करते समय राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर गठित की जाने वाली पंचायती राज इकाई की जनसंख्या समूचे राज्य में यथासंभव समान रहनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में 73वें संविधान संगोष्ठन अधिनियम की धारा 243 सी (2) (3) (4) (5) में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से यह अधिकार राज्य के विधान मंडलों को दिया गया है कि वे विधि द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों – ग्राम पंचायतों, मध्य स्तरीय इकाइयों और जिला इकाइयों के अध्यक्ष / सभापति के संबंध में तथा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संबंध में उनके निर्वाचन क्षेत्र वाली इकाइयों की सदस्यता के लिए आवश्यक उपबंध कर सकेंगे। ग्राम पंचायत के सभापति/सरपंच के चुनाव की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रावधान करने का दायित्व संविधान संगोष्ठन द्वारा सम्बन्धित विधान मंडल पर छोड़ा गया है, किन्तु पंचायती राज की मध्यवर्ती व जिला स्तरीय इकाइयों के सभापति अध्यक्ष के चुनाव के लिए इस संगोष्ठन में यह प्रावधान किया गया है कि सम्बन्धित इकाइयों के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक का सभापति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन कर सकेंगे।

4- pukokh e॥ vkj {k.k &

॥d॥ vudifpr tkfr tutkfr ds fy, vkj {K.k & संविधान संगोष्ठन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन हेतु स्थानों सीटों का आरक्षण किया जाएगा। इस प्रकार आरक्षित की जाने वाली सीटों के आरक्षण की इस प्रक्रिया का बारी-बारी से आवर्तन (रोटेशन) पंचायत क्षेत्र की सभी सीटों में किया जाता रहेगा। इन वर्गों के लिए उपर्युक्त

रीति से आरक्षित की गई कुल सीटों से कम से कम एक – तिहाई स्थान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

एक पंचायती राज संस्था के चुनावों में महिलाओं हेतु स्थानों का आरक्षण भी किया गया है। इसमें संदर्भित प्रावधान में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कम से कम एक – तिहाई स्थानों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और इस प्रकार आरक्षित किए गए स्थानों का आवर्तन बारी-बारी से किया जाता रहेगा।

एक संदर्भ में यह प्रावधान भी किया गया है कि ग्राम पंचायत व पंचायती राज की अन्य इकाइयों के अध्यक्षों या सभापति के पद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए, राज्य विधान मंडल अधिनियम बनाकर प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आरक्षित किए जा सकेंगे। इस प्रावधान के परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि पंचायती राज इकाइयों के अध्यक्ष सभापति के पदों के लिए आरक्षित किए गए स्थान उस राज्य में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होने चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी सभापति व अध्यक्ष के एक-तिहाई पद आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है और इस प्रकार के आरक्षण के आवर्तन का निर्देश भी संविधान संगोष्ठी में सन्तुष्टि है। इस प्रकार की सीटों का आरक्षण (महिलाओं के स्थानों के अतिरिक्त) संविधान के अनुच्छेद 334 में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए किए गए आरक्षण के समाप्त होने पर स्वतः निरस्त हो जाएगा।

एक संविधान संगोष्ठी द्वारा किए गए आरक्षण का विवरण यह उपबंध भी करता है कि राज्य विधान मंडल, समस्त पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान, अधिनियम बनाकर कर सकेंगे। राजस्थान में आरम्भ में इस संबंध में 15 प्रतिशत किन्तु 4 अक्टूबर, 1999 के पश्चात् यह आरक्षण 21 प्रतिशत कर दिया गया है।

5- dk; lky Is | EcU/kr i ko/kku & शासन के इस तीसरे सोपान की पंचायती राज इकाइयों का कार्यकाल भी केन्द्र व राज्य सरकार की भांति समान करने के लिए सं”गोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंचायती राज इकाई का कार्यकाल, यदि वह राज्य में तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन पहले भंग नहीं कर दी जाती है तो, 5 वर्ष होगा और इससे अधिक नहीं। इसी सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि संविधान के इस सं”गोधन में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष घोषित किया गया है तथा शब्द इससे अधिक नहीं पर वि”ष बल दिया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि संविधान सं”गोधन के फ़िल्मी यह चाहते हैं कि पंचायती राज इकाइयों को राज्य सरकारों द्वारा अब तक लम्बे समय तक अधिक्रमित रखे जाने की प्रवृत्ति पर संविधान के माध्यम से एक निर्णायक अंकु”। लगाया जाए। इन संस्थाओं के चुनाव उनके निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व कराए जाएंगे। यदि ये संस्थाएं समय से पूर्व भंग की जाती हैं तो भंग किए जाने की तिथि से 6 माह की अवधि में नए चुनाव कराए जाने होंगे। इस सन्दर्भ में सं”गोधित अधिनियम यह उपबन्ध भी करता है कि यदि भंग की हुई संस्था का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया हो तो ऐसे चुनाव कराए जाने आव”यक नहीं होंगे। भंग किए जाने के प”चात् नई चुनी हुई पंचायती राज इकाई, उस शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी जितनी अवधि के लिए वह इकाई कार्य करती, यदि वह भंग नहीं की गई होती।

6- v; k; rkvks ds | EcU/k e s i ko/kku & पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की अनर्हताओं या अयोग्यताओं के विषय में सं”गोधन अधिनियम में कहा गया है कि सम्बन्धित राज्य में चुनावों की अनर्हताओं से सम्बन्धित प्रवर्तित किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने पर व्यक्ति इन संस्थाओं के चुनावों में भाग नहीं ले सकेगा। कोई व्यक्ति इन अयोग्यताओं से ग्रस्त है या नहीं, इस संबंध में उठे हुए किसी विवाद का निस्तारण करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति और प्रक्रिया का संबंधित राज्य विधान मंडल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकेंगे।

7- पंचायती राज संस्थाओं की भावितयों और दायित्व – विभिन्न स्तरों पर गठित की जाने वाली पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों, दायित्वों और उनकी शक्ति के संदर्भ में सं”गोधन अधिनियम में कहा गया है कि संविधान के

प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य विधान मंडल कानून बनाकर इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और सत्ता दे सकेंगे। ऐसे कानून इन संस्थाओं को, विशेष रूप से लोगों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण तथा संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित मामलों सहित आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विशेषतः प्रावधान कर सकेंगे। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की एक नई सूची संविधान की 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद (243) जी में इसी संगोष्ठन अधिनियम के माध्यम से जोड़ी गई है। इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गये हैं जो इस प्रकार –

1. कृषि (कृषि विस्तार सहित) भूमि सुधार,
2. कर लगाने व कोष एकत्र करने की शक्तियाँ,
3. भूमि सुधार क्रियान्वयन,
4. चकबन्दी एवं मृदा संरक्षण लघु सिंचाई,
5. जल प्रबंध तथा जल संभरण विकास प्रयोगलन
6. डेयरी विकास तथा मुर्गीपालन मत्स्य उद्योग सामाजिक वानिकी
7. लघु वन उत्पाद लघु उद्योग (इसमें खाद्य प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) खादी
8. लौका जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन
9. ग्राम एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण विकास
10. पेयजल
11. पुस्तकालय
12. ईधन एवं चारा
13. सड़क, पुलिया
14. ग्रामीण विद्युतीकरण (इसमें विद्युत वितरण भी सम्मिलित है)
15. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17. फौक्षा (इसमें प्राथमिक तथा सैकेण्डरी फौक्षा सम्मिलित है)
18. तकनीकी प्राक्षण तथा व्यावसायिक फौक्षा

19. प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा
20. सांस्कृतिक कार्यकलाप
21. बाजार एवं मेले
22. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का प्रबंध (इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालय सम्मिलित हैं)
23. परिवार कल्याण
24. महिला एवं बाल विकास
25. समाज कल्याण (इसमें विकलांग, मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति सम्मिलित)
26. कमजोर वर्गों का कल्याण (विषेषतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण)
27. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
28. सामुदायिक परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण

vfuok; l vkj , fPNd mi ck %

d- vfuok; l ; k ck/; i ko/kku %

1. एक ग्राम या ग्रामसमुह व ग्रामसभा का संगठन।
2. ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना।
3. ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों में सभी स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव।
4. मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु अप्रत्यक्ष चुनाव।
5. पंचायतों में मतदान के लिए 2 वर्ष की न्यूनतम आयु होना।
6. सभी तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों (सदस्यों और अध्यक्ष दोनों) का आरक्षण।
7. तीनों स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों (सदस्यों एवं अध्यक्षों दोनों का आरक्षण)
8. सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए पाँच वर्षों का नियंत्रित कार्यकाल तथा किसी भी पंचायत के भंग होने की स्थिति में 6 महीनों के भीतर ताजा चुनाव।
9. पंचायतों के चुनाव संचालन हेतु एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना।

10. पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन।

[k- , fPNd i koo/kku %

1. संसद तथा राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाली विभिन्न स्तरीय पंचायतों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
2. किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण (सदस्य एवं अध्यक्ष दोनों के लिए) प्रदान करना।
3. पंचायतों को शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान करना ताकि वे प्रगतीसन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सकें।
4. पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों का अन्तरण करना ताकि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार कर सकें और 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 कार्यों में से सभी या कुछ कार्यों को निष्पादित कर सकें।
5. पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना अर्थात् उन्हें कर प्रगति, चुंगी इत्यादि वसूलने और उद्गृहीत करने का प्राधिकार सौंपना।

73वें संविधान संग्रहन में पंचायती राज संस्थाओं के कोष निर्माण और उसमें होने वाली आय के लिए इन संस्थाओं के द्वारा लगाए जाने वाले करों के संबंध में कहा गया है कि राज्य के विधान मंडल, विधि द्वारा उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया और मर्यादाओं के अंतर्गत पंचायती राज की विभिन्न संस्थाओं को कर आरोपित करने और एकत्र करने के लिए अधिकृत कर सकेंगे। राज्य का विधान मंडल इन संस्थाओं को राज्य की संचित निधि से अनुदान देने के लिए प्रावधान कर सकेगा। इस प्रकार संविधान संग्रहन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करारोपण के संबंध में आवश्यक प्रावधान करने का अधिकार पुनः राज्य विधानमंडलों पर छोड़ा गया है। संग्रहन अधिनियम प्रावधान करता है कि जो कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाएंगे उनका राज्य सरकार व पंचायती राज इकाइयों के

मध्य वितरण किया जा सकेगा और जो कर पंचायती राज संस्थाएँ आरोपित करेंगी उन्हें वे न केवल एकत्र कर सकेंगी अपितु उनका व्यय भी अपने स्तर पर ही कर सकेंगी।

8- foÙk vk; kx ds xBu dk i ko/kku & संविधान संगोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि राज्यों के राज्यपाल, 73वें संविधान संगोधन अधिनियम के प्रवर्तन के एक वर्ष की अवधि में और उसके पांचात्र प्रति 5 वर्ष के अन्तराल पर राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, और राज्य सरकार द्वारा लगाये गए करों से हुई आय का राज्य द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य वितरण, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों को चिन्हित करने, राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धान्तों का निर्धारण और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों तथा वित्तीय स्वरूप के संदर्भ में सौंपे गए किन्हीं भी अन्य कार्यों का निष्पादन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। राजस्थान में 1995 में प्रथम वित्त आयोग ने के. के. यल की अध्यक्षता, द्वितीय आयोग ने हीरालाल देवपुरा की अध्यक्षता और तृतीय वित्त आयोग ने माणक चन्द्र सुराणा की अध्यक्षता में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं।

9- i pk; rh jkt | LFkkvk ds ys[kk o vdk;k. k ds | ck/e i ko/kku & संविधान संगोधन अधिनियम प्रावधान करता है कि विभिन्न स्तर की पंचायती राज इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले लेखा व उसके अंकेक्षण के संबंध में, राज्य विधान मंडल विधि बनाकर आवश्यक प्रावधान कर सकेंगे।

10- i pk; rh jkt | LFkkvk ds pukok | s | Ecfl/kr i ko/kku & अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि राज्य में निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, चुनावों के आयोजन और पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनावों से सम्बन्धित समस्त पक्षों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण द्वारा नियुक्त किए गए एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्त का निर्धारण राज्यपाल, विधान मंडल के संबंधित अधिनियम के अधीन रहते हुए कर सकेंगे। इस प्रावधान के परंतु के में यह कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उन्हीं कारणों से और उसी रीति से हटाया जा सकेगा जिन कारणों और जिस रीति से उच्च न्यायालय

के एक न्यायाधी”। को हटाया जाता है तथा कार्यरत रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा”। तर्ता में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उसके लिए विनिर्वाचन कृत्यों के निर्वाह में सहायता देने के लिए राज्य का राज्यपाल आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। इस संविधान संशोधन को नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में प्रवर्तित होने से मुक्त रखा गया है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए प्रावधानों को केन्द्रासित प्रदेशों के लिए भी प्रभावित माना जाता है।

11- fo | eku dkuiuk॥ vkJ i pkl; rkl dk tkjh jguk & इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक वर्ष तक पंचायतों से सम्बन्धित राज्य के सभी कानून प्रभावी और लागू रहेंगे अर्थात् राज्यों को 24 अप्रैल, 1993 के बाद एक वर्ष की अवधि के अंदर ही इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नई पंचायती राज प्रणाली अपनानी होगी।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के लागू होने से पहले विद्यमान सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक बनी रहेंगी। ब”तर्ता कि उन्हें राज्य के विधानमंडल द्वारा भंग न किया जाए। फलस्वरूप, अधिकारों राज्यों ने पंचायती राज्य अधिनियम को वर्ष 1993 और 1994 में पारित कर दिया तथा संविधान के 73वें (संशोधन) अधिनियम 1992 के अनुसार नई प्रणाली को अपना लिया।

इस प्रकार दे”। में पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र में प्रवर्तित कमियों और न्यूनताओं जिनमें इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता का ओपाव, इनके अनियमित चुनाव, लम्बे समय तक अधिक्रमित रहने, उनकी दयनीय आर्थिक द”गा, उन्हें पर्याप्त शक्तियों व अधिकारों के अभाव, अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिलाओं को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा इन संस्थाओं के चुनावों के लिए प्रभावी व्यवस्था के अभाव की स्थितियां प्रमुख थीं, के निवारण के लिए 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सटीक प्रयत्न किया गया है।

5-3-3- 730॥ । fo/kku । ॥’kkyku dk egRo **(Significance of 73<sup>rd</sup> Constitutional Amendment)** &

- इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला।

- पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में 1.3 स्थान महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित किया गया।
- ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं, इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया है।
- पंचायती राज संस्थाएं संविधान के अधिकार क्षेत्र में आई अर्थात् राज्य सरकारें नई पंचायती राज प्रणाली को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनाने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य हुई।
- यह प्रतिनिधिक लोकतंत्र और भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है।
- यह अधिनियम दे”॥ में सबसे निचले स्तर की जनतांत्रिक संस्थाओं के क्रमिक विकास की दि”॥ में महत्वपूर्ण उपलब्धि का घोतक है।
- इसके फलस्वरूप प्रतिनिधिपरक जनतंत्र का स्थान भागीदारिता पर आधारित जनतंत्र ने ले लिया।
- यह दे”॥ में सबसे निचले स्तर पर जनतंत्र निर्माण की क्रांतिकारी धारणा है।

5-4- i kB ds vksx dk eq[; Hkkx (**Further main body of the text**)

5-4-1- 74okा | fo/kku | f'kky/ku vf/kfu; e (**74<sup>th</sup> Constitutional Amendment Act**) & सत्ता विकेन्द्रीकरण की दि”॥ में संविधान का 73वां और 74वां संविधान सं”गोधन एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है। 74वां संविधान सं”गोधन नगर निकायों में सत्ता विकेन्द्रीकरण का एक मजबूत आधार है। भारत वि”व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। इस लोक तंत्र का सबसे रोचक महत्वपूर्ण पक्ष है सत्ता व शक्तियों का विकेन्द्रीकरण अर्थात् केन्द्र स्तर से लेकर स्थानीय स्तर पर गांव इकाई तक सत्ता व शक्ति का बंटवारा ही विकेन्द्रीकरण कहलाता है। विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान थी। राजा – महाराजाओं के समय भी सभा, परिषद, समितियां सूबे आदि के माध्यम से शासन चलाया जाता था। लोगों को उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए निर्णयों में हमें”॥ महत्वपूर्ण सहभागी माना जाता था। लेकिन जैसे-जैसे समय

बीतता गया लोगों की शासन व लोक विकास में भागेदारी से अलग कर दिया गया तथा उनके अपने हित व विकास के लिए बनाई जाने वाले कार्यक्रम, नीतियों पर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का नियंत्रण बनता गया। भारत में स्थानीय संस्थाएँ ग्रामीण और नगरीय दो प्रकार की होती है। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है उसी प्रकार का प्रयास नगरीय स्थानीय संस्थाओं के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है उसी प्रकार का प्रयास नगरीय स्थानीय संस्थाओं के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित और 1 जून, 1993 से प्रवर्तित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 अ “द म्यूनिसिपलिटीज” शीर्षक से नया जोड़ा गया है। इस भाग के माध्यम से दे”। में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक संस्तर प्रदान किया गया है।

#### **5-4-2- 740॥ | fo/kku | ॥'kk/ku ds mnns"; (Objectives of the 74<sup>th</sup> Constitutional Amendment) &**

1. दे”। में नगर संस्थाओं जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों के अधिकारों में एकरूपता रहे।
2. नागरिक कार्यकलापों में जन प्रतिनिधियों का पूर्ण योगदान तथा राजनैतिक प्रक्रिया में निर्णय लेने का अधिकार रहे।
3. नियमित समयान्तराल में प्रादेशिक निर्वाचन आयोग के अधीन चुनाव हो सकें व कोई भी निर्वाचित नगर प्रशासन छः माह से अधिक समयावधि तक भंग न रहे, जिससे कि विकास में जनप्रतिनिधियों का नीति निर्माण, नियोजन तथा क्रियान्वयन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
4. समाज की कमजोर जनता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये (संविधान संशोधन अधिनियम में प्राविधानित/निर्दिष्ट) प्रतिनियता के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति व महिलाओं को तथा राज्य (प्रादेशिक) विधान मण्डल के प्राविधानों के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों को नगर प्रशासन में आरक्षण मिलें।

5. प्रत्येक प्रदे”। में स्थानीय नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये एक राज्य (प्रादेशिक) वित्त आयोग का गठन हो जो राज्य सरकार व स्थानीय नगर निकायों के बीच वित्त हस्तान्तरण के सिद्धान्तों को परिभाषित करें। जिससे कि स्थानीय निकायों का वित्तीय आधार मजबूत बने।
6. सभी स्तरों पर पूर्ण पारदर्शिता रहे।

74वें संविधान सं”गोधन की आवश्यकता पूर्व की नगरीय स्थानीय स्व”गासन व्यवस्था लोकतंत्र की मं”गा के अनुरूप नहीं थी। सबसे पहली कमी इसमें यह थी कि इसका वित्तीय आधार कमजोर था। वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण नगर निकायों के कार्य संचालन पर राज्य सरकार का ज्यादा से ज्यादा नियंत्रण था। जिसके कारण धीरे-धीरे नगर निकायों के द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित कार्यों व उन्हें सौंपे गये कार्यों में कमी होने लगी। नगर निकायों के प्रतिनिधियों की बरखास्ती या नगर निकायों वर्ग (महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) का प्रतिनिधित्व न के बराबर था। अतः इन कमियों को देखते हुए संविधान के 74वें सं”गोधन अधिनियम में स्थानीय नगर निकायों की संरचना, गठन, शक्तियों, और कार्यों में अनेक परिवर्तन का प्रावधान किया गया।

#### 5-4-3- 74o॥ | fo/kku | i'kkv/ku dh i'eq[k fo”शताएँ (Salient Features of the 74<sup>th</sup> Constitutional Amendment)&

1. तीन प्रकार के नगरीय निकाय : उपर्युक्त संविधान सं”गोधन दे”। भर में त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था करता है :
  - (अ) नगर पंचायत : ऐसे क्षेत्रों के लिए जो ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में है, उनमें नगर पंचायत का गठन किया जाएगा।
  - (ब) नगर परिषद (म्यूनिसिपल कॉसिल) : नगर परिषद का गठन छोटे नगरों में किया जाएगा और
  - (स) नगर निगम : नगर निगम का गठन बड़े नगरों में किया जाएगा।

2. इस प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य के राज्यपाल किसी औद्योगिक क्षेत्र को उपर्युक्त प्रकार के निकाय के गठन से मुक्त कर सकता है।
3. इसी प्रकार अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया, छोटे नगर और बड़े नगर की परिभाषा व उसमें जनसंख्या, घनत्व व आय इत्यादि के विषय में स्पष्टीकरण राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।
4. नगर निकायों का गठन अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि राज्यों में गठित किए जाने वाले प्रत्येक नगर निकाय में स्थानों की पूर्ति उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से होगी। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया जाएगा और इन वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि नगर निकाय के लिए चुने जाएंगे।
5. अधिनियम यह प्रावधान भी करता है कि राज्य का विधान मंडल अधिनियम बनाकर नगर निकायों में
  - ऐसे व्यक्तियों के लिए जो नगरीय प्र”ासन का विंगच ज्ञान और अनुभव रखते हों।
  - लोकसभा व राज्य की विधान सभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों के लिए।
  - नगर निकाय के क्षेत्र की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत राज्यसभा या राज्य विधान परिषद् के सदस्यों के लिए।
  - संविधान सं”ोधन अधिनियम की धारा 243 एस की उपधारा 5 के अन्तर्गत गठित की जाने वाली समितियों के अध्यक्षों के लिए। प्रतिनिधित्व के लिए भी व्यवस्था कर सकता है।
6. अधिनियम यह प्रावधान भी करता है कि नगरीय प्र”ासन के विंगच ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को यदि नगरीय निकाय से संयोजित किया जाता है तो उन्हें नगर परिषद की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

7. वार्ड समितियों का गठन में संविधान सं”गोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि 3 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निकायों में एक या अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। इस प्रकार गठित की जाने वाली समितियों के संबंध में आव”यक प्रावधान करने की शक्तियाँ राज्य विधान मंडल पर छोड़ी गई हैं। राज्य विधान मंडल यह विनिर्दित कर सकेंगे की वार्ड समितियों का गठन, क्षेत्राधिकार और उनके गठन की प्रक्रिया क्या होगी? वार्ड समितियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले वार्ड सदस्य उस समिति के सदस्य होंगे। संविधान द्वारा नगर निकायों में परिव्याप्त इन वार्ड समितियों के अतिरिक्त भी राज्य विधान मंडल के अधिनियम के माध्यम से अन्य समितियों का गठन किया जाना संभव हो सकेगा।
8. सीटों का आरक्षण में संविधान सं”गोधन अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक नगर निकाय या नगरपालिका में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में सीटों का यह आरक्षण उस नगर निकाय के क्षेत्र में इन वर्गों की जनसंख्या की अनुपात में होगा तथा आरक्षित की गई सीटों का बारी—बारी से आवर्तन किया जाएगा। उपर्युक्त रीति से इन वर्गों के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों के एक—तिहाई स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसी प्रकार नगर निकाय के क्षेत्र की प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली कुल सीटों से कम से कम एक—तिहाई स्थान (अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का भी बारी—बारी से नगर निकाय के क्षेत्र में आवर्तन किया जाता रहेगा।
9. अधिनियम यह व्यवस्था भा करता है कि नगर निकायों में अध्यक्ष सभापति के पदों पर भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधान मंडल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकेंगे। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 334 में दिए गए सामान्य आरक्षण के जारी रहने तक प्रभावी रहेगी।

संविधान सं”गोधन अधिनियम राज्य विधान मंडलों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि अधिनियम बनाकर वे निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकेंगे।

10. कार्यकाल संबंधी प्रावधान में संविधान सं”गोधन अधिनियम के माध्यम से दे”। भर में नगर निकायों का कार्यकाल उनकी पहली मीटिंग की तिथि से, यदि वे निर्धारित समय से पूर्व भंग नहीं कर दी जाती है तो, 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और इससे अधिक नहीं। इस में यह कहा गया है कि किसी भी नगर निकाय को भंग किए जाने के पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक नगर निकाय के चुनाव उनके लिए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्पन्न कराए जाएंगे और यदि किसी नगर निकाय को भंग किया जाता है तो भंग किए जाने की तिथि से 6 माह के भीतर उसके कार्यकाल पूर्ण होने में 6 माह से कम की अवधि रह गई है तो अंतरिम चुनाव कराए जाने आव”यक नहीं होंगे। अंतरिम रूप से चुनाव कराए जाने पर उस नगर निकाय का कार्यकाल उतना होगा जितना वह भंग नहीं किए जाने की स्थिति में कार्य”ील रहती। नगर निकायों की बैठकें व उनकी कार्यवाहियों आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष के निर्देश पर अन्य बैठकें भी कार्यपालक अधिकारी द्वारा बुलायी जा सकती है। यदि नगर निकाय के पास कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है तो अध्यक्ष बैठक आयोजित करेगा। आव”यकता पड़ने पर किसी भी दिन या समय पर नोटिस देने के बाद अध्यक्ष द्वारा आपातकालीन बैठक बुलायी जा सकती है। आपातकालीन बैठकों के अतिरिक्त अन्य बैठकों हेतु नोटिस को कम से कम 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को भेजा जाना अनिवार्य होगा। नोटिस की अवधि 3 दिन से अधिक भी हो सकती है। आपातकालीन बैठकों के मामले में यह अवधि कम से कम 24 घंटे की होनी चाहिए। बैठक हेतु प्रत्येक सूचना में बैठक की तिथि, समय तथा स्थान का उल्लेख आव”यक है। बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति मानी जायेगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जायेगी तथा तय की गई तिथि को बैठक आयोजित की जाएगी। जिसकी सूचना आयोजन के कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी। बैठक की

कार्यवाही को कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया जाएगा जिस पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा कार्यवाही की प्रतियों को राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित प्रधिकारी को तुरन्त भेज दी जाएगी। परिस्थितियों की अनुकूलता के आधार पर अधिषासी अधिकारी अथवा सचिव द्वारा बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को बैठक से सम्बन्धित अभिलेख, पत्राचार जो उस बैठक में विचार किये जायेंगे, दिखाये जायेंगे जब तक कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा अन्यथा निर्देशित किया गया हो। किसी सदस्य द्वारा बैठक में कोई प्रस्ताव लाना यदि कोई सदस्य, बैठक में कोई प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसे कम से कम एक सप्ताह पूर्व अध्यक्ष को अपने इस विचार से लिखित रूप में अवगत कराना होगा। कोई भी सदस्य सभा में व्यवस्था के प्र”न को अध्यक्ष के समक्ष उठा सकता है लेकिन उस पर तब तक कोई चर्चा नहीं की जायेगी जब तक की उपस्थित सदस्यों की राय जानने हेतु अध्यक्ष उपयुक्त न समझे। किसी भी प्रस्ताव अथवा प्रस्तावित स”ोधन पर विचार-विम”र्फ से पूर्व अध्यक्ष सदस्यों से उस प्रस्ताव के समर्थन की मांग कर सकता है। प्रत्येक सदस्य सभासद अपने स्थान से अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए ही प्र”न पूछ सकता है, एवं उस पर चर्चा कर सकता है। प्रस्तुतकर्ता के अतिरिक्त कोई भी सदस्य किसी प्रस्ताव या स”ोधन पर अध्यक्ष की अनुमति के बिना दो बार नहीं बोलेगा। बैठक की कार्य सूची/कार्यवाही से सम्बन्धित सभी प्र”न किसी/एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य से अध्यक्ष के माध्यम से ही पूछे अथवा प्रस्तुत किये जाएंगे।

अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्यवाही कार्यसंचालन निम्न क्रम से की जायेगी –

1. सर्वप्रथम गत बैठक का कार्यवृत पढ़ा जाएगा।
2. यदि प्रथम बैठक है, तो गत माह का लेखा बोर्ड के विचार्थ तथा आदेशार्थ प्रस्तुत होगा।
3. स्थानीय शासन तथा उनके अधिकारियों से प्राप्त पत्रों/सूचनाओं को पढ़ा जाएगा।
4. समितियों तथा सदस्यों के प्रतिवेदन यथा आवश्यक आदेशार्थ तथा स्वीकृतार्थ विचार किये जाएंगे।

5. निर्धारित प्रक्रियानुसार सूचित किये गये प्रस्तावों पर चर्चा व मतदान कराया जायेगा।
  6. अगली बैठक में लाये जाने वाले प्रस्तावों का नोटिस सूचना दी जाएगी।
  7. समितियों, अधिकारियों आदि के आदेशों की अपीलों का निस्तारण किया जाएगा।
11. नगर निकायों की शक्तियाँ और दायित्व नगर निकायों द्वारा निष्पादित कार्यों, दायित्वों और उनकी शक्ति व सत्ता के संदर्भ में इस संगोधन में यह कहा गया है कि राज्य विधान मंडल कानून बना कर इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और सत्ता दे सकेंगे। ऐसे कानून के माध्यम से इन संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण व संविधान की 12वीं अनुसूची में निर्धारित मामलों व कार्यों को निष्पादित करने के लिए दायित्वों का आरोपण कर सकेंगे।
12. भारत में स्थानीय प्रशासन के नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा कर सकेगा। राज्य के राज्यपाल संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नगर निकाय का यह दायित्व उसी आयोग को सौंप यह आयोग राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, ड्यूटी, टोल टैक्स एवं फीस आदि से हुई आय का राज्य सरकार एवं नगर निकायों के मध्य नगर निकायों द्वारा आरोपित किए जाने वाले करों, ड्यूटी, टोल टैक्स आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना व सड़क व पुल, घरेलू उद्योग एवं व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय व लोक स्वास्थ्य, सफाई आदि अग्निप्रयोजन सेवाएं, नगरीय वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण व कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण (मानसिक रूप से कमजोर एवं विकलांगों सहित) गंदी बस्तियों का विकास एवं उत्थान, निर्धनता निवारण, बाग, उद्यान, खेल के मैदान आदि की सुविधाएं जुटाना सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उत्थान, दाह गृहों, विद्युत दाह-गृहों आदि का निर्माण, काँजी घर एवं पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण, जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, सड़कों का विद्युतीकरण, वाहन खड़े करने के स्थान, बस स्टॉप आदि का

निर्माण एवं संधारण तथा बूचड़खानों का विनियमन। मामलों के लिए सिद्धान्तों का निर्धारण कर सकेगा।

13. नगर निकायों को कर लगाने व कोष एकत्र करने की शक्तियाँ सं”गोधन अधिनियम के माध्यम से नगर निकायों को कोष के निर्माण और उसमें होने वाली आय के लिए विनियमन करने का दायित्व मंडलों को सौंपा गया है। राज्य विधान मंडल अधिनियम बनाकर नगर निकाय द्वारा आरोपित किए जाने वाले करों तथा राज्य की संचित निधि से नगर निकायों को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान कर सकेंगे। वित्त आयोग का गठन संविधान सं”गोधन अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 (आई) के अंतर्गत गठित वित्त आयोग दे सकेंगे जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए गठित किया गया है। नगरीय निकायों में वित्तीय प्रबंधन 74वें संविधान सं”गोधन के उपरान्त अब नगर निकायों के आय के स्रोत है।
1. राज्य वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशी।
  2. नगर निकायों द्वारा वसूले गये करों से प्राप्त धनराशी।
  3. राष्ट्रीय वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित धनराशी।
- 
1. राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों में समय—समय पर अनुदान देने की प्रथा को समाप्त कर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त कुल करों में नगरीय स्थानीय निकायों के अं”त का निर्धारण किया गया।
  2. स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशी के वितरण का आधार 80 प्रति”त जनसंख्या एवं 20 प्रति”त क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया गया है।
  3. इसके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्रीय वित्त आयोग प्रतिवर्ष शहरी स्थानीय निकायों के लिए धन आवंटित करता है।
  4. आयोग के निर्देशनानुसार केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा दी गई राशी का उपयोग वेतन, मजदूरी में नहीं किया जाएगा बल्कि यह सामान्य सुविधाएं

जैसे जल निकासी, कूड़ा निकासी, शौचालयों की सफाई, मार्ग—प्रका”। इत्यादि में ही इसका उपयोग किया जाएगा।

5. 74वें संविधान सं”ोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची के अन्तर्गत जो 18 कार्य/दायित्व शहरी स्थानीय निकायों को दिये गये हैं राज्य सरकार को उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नगर निकायों आव”यक राँची दी जायेगी।
6. नगरपालिका के आय का एक मुख्य स्रोत इसके द्वारा लगाये गये विभिन्न कर एवं शुल्क भी है। नगर निकायों में बजट की आव”यकता व महत्ता प्रबन्धन के लिए आय—व्यय अनुमान / आगणन अर्थात् बजट तैयार करना अत्यन्त आव”यक है। बजट आय तथा व्यय का एक अनुमान है जो कि अपने संसाधनों के उपयोग के लिए एक प्रकार से मार्ग द”र्क, नीतियों के निर्धारण, व्यय संबंधी निर्णय लेने के लिए मार्ग द”र्क, वित्तीय नियोजन का एक यंत्र तथा सप्रेषण का एक माध्यम है। बजट वित्तीय प्रबन्धक का एक महत्वपूर्ण अवयव है, इसे मात्र औपचारिकता के रूप में नहीं लेना चाहिए। नगर निकायों में बजट एक विधिक आव”यकता है, क्यों कि जब तक वित्तीय वर्ष का बजट बोर्ड द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तब तक कोई खर्च नहीं किया जा सकता है। बजट तैयार कर लेने से लक्ष्यों व उद्देश्यों के निर्धारण तथा नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलती है। बजट के द्वारा वास्तविकता आधारित कार्य नियोजन आसानी से किया जा सकता है अर्थात् योजनाओं व कार्यक्रम की प्राथमिकतायें निर्धारित करने में सहायता मिलती है। इससे कार्य कलापों पर वित्तीय नियन्त्रण रखा जा सकता है और धन का अपव्यय भी रोका जा सकता है। अगर नगर निकाय आय—व्यय का विधिवत् व उचित दस्तावेजीकरण करते हैं व उसको आधार मानकर अपना बजट बनाते हैं तो अं”दान, अनुदान सहायता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। बजट आव”यकता आधारित होना चाहिएव इस हेतु “जीरो बेस बजटिंग” (“न्यु आधारित बजट) प्रक्रिया को अपनाना चाहिए न कि पिछले आय व्यय अनुमान पर कुछ प्रति”त बढ़ोतरी या घटोतरी करें। अगले वित्तीय वर्ष का बजट वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह अर्थात् मार्च की 15 तारीख तक बोर्ड द्वारा

विचारोपरान्त पारित कर लिया जाना चाहिए। अतः बजट तैयार करने की प्रक्रिया प्रत्येक द”ग में अंतिम तिमाही के पूर्वाद्व में ही पूर्ण कर ली जानी चाहिए व इस पर बोर्ड बैठक में विस्तृत चर्चा करनी चाहिए जिससे कि नीतिगत निर्णय, प्राथमिकता निर्धारण तथा जनता के हित में उचित वित्तीय निर्णय लिये जा सकें। चूंकि बोर्ड सभासदों से ही बना है, अतः बजट के माध्यम से सभासदों के बहुमत निर्णय से नीतियों व रणनीतियों का निर्धारण होता है।

uxjh; fudk; k; ei yxk; s tkus okys dj

1. भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर।
2. नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत व्यापार पर कर जिन्हें नगर पालिका की सेवाओं से विशेष लाभ मिलता है।
3. व्यापार, पेंगों तथा व्यवसायों पर कर जिसमें सभी रोजगार जिनके लिये वेतन या शुल्क मिलता है व सम्मिलित है।
4. मनोरंजन कर।
5. नगरपालिका के अंदर भाडे पर चलने वाली गाड़ियों या उसमें रखी गई गाड़ियों पर कर।
6. नगरपालिका के अन्दर रखे कुत्तों पर कर।
7. नगर पालिका के अन्दर रखे सवारी, चालन या बोझे के पुँजियों पर कर।
8. व्यक्तियों पर सम्पत्तियों या परिस्थितियों के आधार पर कर।
9. भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जल कर।
10. भवन के वार्षिक मूल्य पर उर्तक मूल्य पर उत्प्रवाह कर।
11. सफाई कर।
12. शोचालयों, मूत्रालयों तथा गड्ढों से उत्प्रवाह तथा प्रदूषित जल के एकत्रीकरण, हटाने तथा खात्मा करने के लिए कर।
13. नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत स्थित सम्पत्ति के हस्तांतरण पर कर।
14. संविधान के अन्तर्गत कोई अन्य कर जो राज्य विधायिका द्वारा राज्य में लागू किया जा सके।

i ko/kku %

1.3 व 8 के कर एक साथ नहीं लगाए जा सकते हैं।

2.10 व 12 के कर एक साथ नहीं लगाए जा सकते हैं।

3.13 के अन्तर्गत नगर पालिका के अन्तर्गत अचल सम्पति के हस्तांतरण पर कर नहीं लगाया जा सकता है। (यदि वह सम्पति नजूल की हो)

4.5 का कर मोटर गाड़ी, पर नहीं लगाया जा सकता है। मूल्यांकन, छूट व वसूली भवन या भूमि दोनों पर कर लगाने के लिए नगर निकाय एक मूल्यांकन सूची तैयार कर एक सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित कर सकते हैं ताकि जिन लोगों को आपत्ति हो वह एक महीने के अन्दर दाखिला कर सकें। जब आपत्तियों का निवारण हो जाता है तब मूल्यांकन सूची को प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित मूल्यांकन सूची नगर निकाय कार्यालय में जमा कर दी जाती है तथा उसे जनता द्वारा निरीक्षण के लिये खुला घोषित कर दिया जाता है। सामान्यतः नई मूल्यांकन सूची पाँच वर्ष में एक बार तैयार की जाती है। नगर निकाय किसी समय मूल्यांकन सूची को बदल सकते हैं या उसमें संशोधन कर सकते हैं। यदि कोई भवन या भूमि वर्ष में 90 या अधिक दिनों तक लगातार खाली रहती है तो नगर पालिका उस अवधि में कर छूट देती है। उस भवन या भूमि के पुनः कब्जे के लिए उस सम्पति के मालिक को 15 दिनों के अंदर नगरपालिका को सूचना देनी होती है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वह दंड का भागी होता है। दण्ड की राटा वास्तविक कर की दुगुनी राटा से दस गुना राटा से भी अधिक हो सकती है। नगर पालिका करों से सम्बन्धित अपीलें नगर पालिका कार्यालय में दायर की जा सकती है। साथ ही साथ इसकी एक प्रति जिलाधिकारी के यहाँ भी जाती है। सामान्यतः किसी भी अवधि के लिए देय कर या शुल्क का भुगतान उसकी अवधि के शुरू होने से पूर्व करना होता है जब व्यक्ति कर का भुगतान समय पर नहीं करता तो उसके विरुद्ध नगरपालिका द्वारा वारंट जारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अहाते के सम्पत्ति को जब्त कर उसे नीलामी द्वारा बेचा जा सकता तथा बकायों की वसूली की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति किसी कर का बकायेदार हो तो नगरपालिका कलेक्टर से प्रार्थना कर सकती है कि वह ऐसे धन को भू-राजस्व की भाँति वसूल करें, जिसमें

कार्यवाही का खर्च शामिल नहीं होगा। कलेक्टर जब बकाया धन से संतुष्ट हो जाता है तो उसे वसूल करने की कार्यवाही करता है।

5-4-4 74वाँ | fo/kku | i'kkv/ku dk egRo (**Significance of 74<sup>th</sup> Constitutional Amendment**) & 1992 में सरकार के 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पुनः नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को निर्णय लेने के स्तर पर सक्रिय व प्रभाव”गाली सहभागिता बनाने का प्रयास किया गया है। संविधान का 74वां संशोधन में नगर निकायों नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में शहरी लोगों की भागीदारी बढ़ाने में मदद की है। इस संशोधन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब शहरों, नगरों, मोहल्लों की भलाई उनके हित व विकास सम्बन्धी मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सरकार के हाथ में नहीं है। अब नगरों व शहर के ऐसे लोग जो शहरी मुद्दों की स्पष्ट सोच रखते हैं व नगरों, कस्बों व उनमें निवास करने वाले लोगों की नागरिक सुविधाओं के प्रति संवेदन”पील है, निर्णय लेने की स्थिति में आगे आ गये है। महिलाओं व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था ने हमें”ग से पीछे रहे व हाँ”ये पर खड़े लोगों को भी बराबरी पर खड़े होने व निर्णय प्रक्रिया को प्रीआवित करने का अवसर दिया है। 74वें संशोधन ने सरकार के माध्यम से आम लोगों की सहभागिता स्थानीय स्व”गासन में सुनिश्चित की है। हर प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में स्थानीय लोगों को सम्मिलित करने से निर्णय प्रक्रिया प्रभावी, पारदर्शी व समुदाय के प्रति संवेदन”पील हो जाती है। बहुत समय पहले नीति निर्माताओं, वरिष्ठ अधिकारियों एवं कार्यक्रमों को चलाने वाले अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के लिये योजनायें बनायी जाती थीं। इसलिए योजना को बनाने की प्रक्रिया पूर्व में उपर से नीचे की ओर थी। परन्तु यह प्रक्रिया जनता की जरूरतों को पूरी नहीं कर पाती थी, विकास गतिविधियों को चलाने में लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित नहीं करती थी एवं लोगों को भी यह नहीं लगता था कि लागू की जा रही योजना अथवा कार्यक्रम उनका अपना है। इसलिए यह महसूस किया गया कि लोगों को कार्य योजनायें स्वयं बनाने चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी आव”यकताओं का पता होता है कि किस प्रकार वे अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं एवं वे अपने विकास में सहभागी बन सकते हैं। अतः यह महसूस किया गया कि लोगों के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से नीचे से उपर की ओर होनी चाहिये क्योंकि लोगों को अपनी जरूरतों की पहचान होती है जिससे वे योजनाओं को वरीयता क्रम

निर्धारित करते हुए योजना बना सकते हैं। कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाले कार्मिक जनता समुदाय की योजनाओं को समेकित कर सकते हैं।

1. संविधान के 74वें सं"गोधन अधिनियम द्वारा नगर-प्र"ासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
2. इस सं"गोधन के अन्तर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिकारों में एक रूपता प्रदान की गई है।
3. नगर विकास व नागरिक कार्यकलापों में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया तक नगर व शहरों में रहने वाली आम जनता की पहुंच बढ़ाई गई है।
4. समाज कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर उन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है।
5. 74वें सं"गोधन के माध्यम से नगरों व कस्बों में स्थानीय स्व"ासन को मजबूत बनाने के प्रयास किये गये हैं।
6. इस संविधान की मुख्य भावना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा, निर्णय में अधिक पारदर्शिता व लोगों की आवाज पहुंचाना सुनिश्चित करना है।

#### 5-4-5- j KT; foekkueMy (**State Legislature**)

प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल से मिलकर बनता है। संविधान के अनुच्छेद 168 द्वारा राज्य विधानमंडल की व्यवस्था है। इसी अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के अतिरिक्त विधानमंडल के एक या दोनों सदन शामिल है। इसी अनुच्छेद के अनुसार, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधानमंडल है और शेष राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। जिन राज्यों में दो सदन हैं—एक को विधानसभा तथा दूसरे को विधान परिषद कहते हैं। जिन राज्यों में एक सदन है उसका नाम विधानसभा है।

foekkul HKK

- संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, किसी राज्य की विधानसभा के अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान सभा

सदस्यों की संख्या 425 है। जबकि सिविकम में सदस्यों की संख्या केवल 32 है। राज्य की विधान सभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। निर्वाचन क्षेत्र के विभाजन के समय इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि विधान सभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निश्चित करते समय जनसंख्या के बे आंकड़े लिए जाते हैं जो पिछली जनगणना में प्रकाशित किये गये थे। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात होती है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग नियुक्त किया जाता है। यह आयोग जनसंख्या के नये आंकड़ों के अनुसार चुनाव क्षेत्रों का नये रूप से विभाजन करता है।

- भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि वर्ष 2000 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना तक प्रत्येक राज्य के चुनाव क्षेत्रों के विभाजन के लिए वही आंकड़े प्रमाणिक होंगे जो 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चित और प्रमाणिक होंगे। इसी प्रकार विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और पिछड़े जातियों के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए भी 2000 के पश्चात होने वाली पहली जनगणना तक वही आंकड़े लिए जाएंगे जो 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चित और प्रकाशित हो चुके हैं। हाल ही में संसद के पूर्ण बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के अनुसार सन् 2026 तक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा, उनकी जनसंख्या तथा उनके आरक्षण से संबंधित उपबंध 1971 की जनगणना के अनुसार ही लागू होंगे।
- यदि किसी राज्य के चुनाव में एंग्लो इंडियन जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो राज्यपाल स्वेच्छा से उस जाति को प्रतिनिधित्व देने के लिए उस जाति के एक सदस्य को विधानसभा में मोनोनीत कर सकता है। लोकसभा में भी एंग्लो इंडियन जाति के सदस्य मोनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। लोकसभा में अधिक-से-अधिक एंग्लो-इंडियन के दो सदस्य मोनोनीत किये जा सकते हैं, परंतु राज्य के राज्यपाल को केवल एक ही सदस्य मोनोनीत करने का अधिकार है।

संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती और किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती। भारतीय संसद कानून द्वारा विधान परिषद की रचना के संबंध में संशोधन कर सकती है।

j kT; foekku i fj "kn ds dly | nL; k e | &

- 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। इन स्थानीय संस्थाओं में, नगरपालिका, जिला बोर्ड और राज्य की अन्य संस्थाएं सम्मिलित हैं जो संसद कानून द्वारा निश्चित करती हैं।
- 1/12 सदस्य राज्य के हायर सेकेण्डरी या इससे उच्च शिक्षा संस्थाओं में काम कर रहे ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं, जो गत तीन वर्षों से वहां पढ़ा रहे हैं।
- 1/12 सदस्य ऐसे राज्य के ऐसे स्नातक मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं जिनको भारत के किसी विश्वविद्यालय से कम-से-कम तीन वर्ष पहले डिग्री मिल चुकी हो।
- 1/3 सदस्य सम्बंधित राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में निर्वाचित किये जाते हैं जो राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं हैं।
- शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिनको विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो।

dk; lky

- संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार, राज्य विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित किया गया है। इस निश्चित समय से पहले भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में, संघीय संसद कानून बनाकर किसी राज्य विधानसभा की अवधि अधिक-से-अधिक एक समय में एक वर्ष बढ़ा सकता है। आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात यह बढ़ायी हुई अवधि केवल 6 मास तक लागू रह सकती है।

- विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, और राज्यपाल इसको भंग नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार, विधान परिषद का चुनाव एक ही समय नहीं होता, बल्कि हर दो वर्ष पश्चात इसके एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। और उनके स्थान पर नये सदस्य चुन लिये जाते हैं। अतः विधान परिषद का हर सदस्य छः साल तक अपने पद पर आसीन रहता है।

| nL; kः dh ; kः; rk, a

संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानमंडल के सदस्यों की निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं—

- प्रत्याशी भारत का नागरिक हो।
- विधानसभा के लिए उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। तथा विधान परिषद के लिए उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो।
- वह संसद द्वारा निश्चित सभी योग्यताएं रखता हो।
- वह भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो।
- वह किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित न किया गया हो।
- वह दिवालिया न हो तथा
- वह संसद द्वारा बनाये गये किसी कानून के अनुसार विधान सभा के लिए अयोग्य न हो।

इन योग्यताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता और नहीं एक से अधिक राज्यों की विधान मंडलों का सदस्य बन सकता है। चुनाव के पश्चात कोई भी सदस्य की अनुमति के बिना लगातार 60 दिन सदन के अधिवेशन से अनुपस्थित नहीं रह सकता।

साथ ही विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि सम्बद्ध व्यक्ति 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951' की शर्तों को पूरा करता हो। 1988 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और ऐसी व्यवस्था की गयी कि आतंकवादी गतिविधियों, तस्करी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी खाद्य-पदार्थों, तथा दवाओं में मिलावट करने वाले और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनाव में भाग लेने से वर्जित कर दिया जाता है।

संविधान के वृप्तिगति 191 में अधिकथित विधानमंडल की सदस्यता के लिए निरहताएं उसी प्रकार की है, जैसे संसद के किसी सदन की सदस्यता के संबंध में अनुच्छेद 102 में दी गयी है।

वृप्तिगति 192 में यह अधिकथित है कि यदि प्रश्न उपस्थित होता है किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड में वर्णित किसी निरहता से ग्रस्त हो गया है तो यह प्रश्न राज्यपाल के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जायेगा। राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करेगा। उसका विनिश्चय अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।

foekku | Hkk ds vfekekj h

संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार, विधान सभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा अन्य को उपाध्यक्ष के पद के लिए चुन लेते हैं। इन दोनों पदों में जब कोई पद रिक्त हो जाता है तो विधान सभा के किसी अन्य सदस्य को उस पद के लिए चुन लेते हैं, विधानसभा अध्यक्ष वही कार्य करता है, जो लोकसभा अध्यक्ष करता है।

dk; ldky

अध्यक्ष को विधानसभा के कार्यकाल तक अर्थात् 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है विधान सभा भंग होने पर उसे अपना पद त्यागना नहीं पड़ता, बल्कि वह नव-निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है (अनुच्छेद 179)। परंतु इस अवधि के समाप्त होने से पूर्व भी उसे निम्नलिखित कारणों के आधार पर अपदस्थ किया जा सकता है—

- यदि अध्यक्ष, विधान सभा का सदस्य न रहे तो उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा।
- वह स्वेच्छापूर्वक अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है, तथा
- विधान सभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्तावों द्वारा भी अध्यक्ष को अपदस्थ किया जा सकता है, परंतु ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। परंतु अध्यक्ष को उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बहस में भाग लेने तथा मत देने का पूर्ण अधिकार होता है।

- सामान्यतः अध्यक्ष, विधानसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है परंतु जब किसी कारण के अध्यक्ष उपरिथिति न हो तो उसके स्थान पर उपाध्यक्ष अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर होता है, उस समय उसे अध्यक्ष की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं, अनुच्छेद 182 से 185 विधान परिषद के सभापति और उप-सभापति से संबंधित हैं।

oſu vkJ̄ HkUks

विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो राज्य का, विधान मंडल विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है तब तक उसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, संदाय किया जायेगा (अनुच्छेद 186)।

dk; l | pkjy

- राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा (अनुच्छेद 188)।
- राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष या सभापति को अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, उपरिथित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा, अध्यक्ष या सभापति, अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।
- जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन की कुल संख्या का 10वां भाग, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी।
- यदि राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन में किसी समय गण पूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गण पूर्ति नहीं हो जाती है।

foèkk; h çfØ; k

द्विसदनीय विधान मंडल वाले राज्यों की विधायी प्रक्रिया मुख्य रूप से संसद के समान है। कुछ बातों में अंतर है—

éku foëks d

इसके बारे में स्थिति वही है विधान परिषद को केवल यह शक्ति है कि वह विधान सभा को संशोधनों की सिफारिश करे यो विधेयक के प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन की अवधि के लिए विधेयक को अपने पास रोक रखे। प्रत्येक दशा में विधान सभा की इच्छा अभिभावी होगी। विधान सभा, विधान परिषद की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि धन विधेयकों के बारे में दोनों सदनों में कोई गतिरोध नहीं हो सकता।

I kékkj . k foëks d

धन विधेयक के भिन्न विधेयकों के बारे में परिषद को एक मात्र यह शक्ति है कि वह कुछ अवधि तक विधेयक के पारित होने को विलम्बित कर दे (तीन मास)। यह अवधि धन विधेयकों के सम्बन्ध में अवधि से लम्बी है। इस प्रकार राज्य की विधान परिषद पुनरीक्षण करने वाला सदन नहीं बल्कि सलाह देने वाला या विलम्ब करने वाला सदन है। यदि वह किसी विधेयक से असहमत है तो विधेयक विधान परिषद से विधान सभा की यात्रा पुनः करेगा, किंतु अंत में विधान सभा का मत ही अभिभावी होगा। और दूसरी यात्रा में विधान परिषद को एक मास से अधिक समय के लिए विधेयक को रोके रखने की शक्ति नहीं होगा।

dk; l , oI 'kfä ; k

dk; l kfyl dk 'kfä ; k

केंद्र की तरह राज्य में संसदीय प्रणाली होने के कारण राज्यपाल को परामर्श और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गयी है जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद का विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होना विधान सभा के कार्यपालिका पर नियंत्रण का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

विधानसभा निम्नलिखित साधनों द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है—

ç' u

विधान सभा के अधिवेशन के समय प्रतिदिन एक घंटा प्रश्नों के लिए निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्येक सदस्य का अधिकार है कि पूर्व सूचना देकर किसी मंत्री से नियमानुसार उसके विभाग संबंधी प्रश्न पूछे।

okn fo0kn

विधान सभा के सदस्य कुशल वाद-विवाद द्वारा कार्यपालिका की नीतियों और कार्यों की प्रशंसा तथा आलोचना करते हैं। यह विवाद समाचार पत्रों द्वारा जनता तक पहुंचता है, और जनता सरकार के प्रति विरोध या प्रशंसा की धारणा बनाती है।

LFkxu çLrk0

विधान सभा के सत्र के कोई भी सदस्य सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर वाद-विवाद के लिए प्रस्ताव पेश कर सकता है। यदि विधान सभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो सदन के सदस्य उस प्रस्ताव पर विचार करते हैं।

è; kukd"kl k çLrk0

यदि विधान सभा के सत्र के समय कोई सदस्य सदन का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किये जाते हैं।

उपर्युक्त साधनों द्वारा राज्य विधान सभा मंत्रियों के कार्य कलाप की प्रशंसा अथवा आलोचना करती है सरकार की नीतियों पर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित साधनों द्वारा विधान सभा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने पर विवश करक सकती है—

vfoÜokl çLrk0

राज्य विधान सभा सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास पास करके उसे पद से हटा सकती है।

fullnk çLrk0

यदि विधान सभा किसी विशेष कार्य के लिए किसी मंत्री के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पारित कर दे तो सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

विधान सभा वित्तीय विधेयक को रद्द करके या मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधेयक को अस्वीकार करके या मंत्रियों के वेतन व भत्तों में कटौती का प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकती है।

puko dk; l

राज्य विधान सभा के सदस्य निम्नलिखित अधिकारियों के चुनाव में भाग ले सकते हैं—

- राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं:
- राज्य विधान सभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं।
- राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों को विधान सभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं।
- राज्य सभा में भेजे जाने वाले सदस्य संबंधित राज्य विधान सभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

U; kf; d 'kfā ; kə

विधान सभा को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। विधान सभा के एक संस्था के रूप में कुछ विशेष अधिकार हैं। इन विशेष अधिकारों की अवहेलना करने वाले अथवा सदन का अपमान करने वाले व्यक्ति को विधान सभा दण्ड दे सकती है।

vU; 'kfā ; kə

- राज्य विधान सभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो—तिहाई मत से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद की स्थापना या उसे समाप्त करने के लिए भारतीय संसद से प्रार्थना कर सकती है।
- राज्य विधान सभा कानून बनाकर राज्य लोकसेवा आयोग की शक्तियों में बृद्धि कर सकती है।
- राज्य विधान सभा राज्य का आकस्मिक कोष स्थापित कर सकती है। राज्य के आकस्मिक कोष पर राज्यपाल का अधिकार होता है, और वह आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को इस कोष में से धन दे सकता है। ऐसे व्यय की स्वीकृति विधान मंडल से लेनी अनिवार्य है।

अतः राज्य प्रशासन में विधान सभा का अति महत्वपूर्ण स्थान है

xfrj kæk nij dj us ds fy, mi cæk

- संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति का निपटारा संयुक्त बैठक से होता है। किंतु राज्य की विधान मंडल के दोनों सदनों के बीच मतभेद को निपटाने के लिए ऐसा कोई उपबंध नहीं है।
- राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के मध्य असहमति की दशा में विधान सभा की इच्छा ही अंत में अभिभावी होती है। परिषद को केवल इतनी ही शक्ति है कि वह जिस विधेयक से असहमत है, उसे पारित करने में कुछ विलंब कर दे।

j kT; i ky dh ohVks ' kfä

जब कोई विधेयक राज्यपाल को विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किये जाने के पश्चात प्रस्तुत किया जाता है, तब राज्यपाल निम्नलिखित में से कोई कदम उठा सकता है—

- वह विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वह तुरंत विधि बन जायेगा।
- वह यह घोषित कर सकता है कि वह विधेयक को अनुमति देना विधारित करता है। ऐसी दशा में वह विधि नहीं बनेगा।
- धन विधेयक से भिन्न किसी विधेयक की दशा में वह संदेश के साथ विधेयक को लौटा सकता है।
- राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। एक दशा में आरक्षण अनिवार्य है अर्थात् जहां प्रश्नगत विधि, संविधान के आधीन उच्च न्यायालय की शक्ति के अल्पीकरण में होगी।
- इस प्रकार आरक्षित धन विधेयक की दशा में राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने या विधारित करने की घोषणा कर सकेगा। किंतु धन विधेयक के भिन्न विधेयक की दशा में राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने या अस्वीकार करने की घोषणा करने के स्थान पर राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधान

मंडल को वापस कर दे। ऐसे लौटाये जाने पर विधानमंडल छः माह के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि वह पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जायेगा किंतु इस पर भी, राष्ट्रपति के लिए उसे अनुमति देना अनिवार्य नहीं है ॥vUPN॥ 201॥

- यह स्पष्ट है कि कोई विधेयक जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। किंतु संविधान ने राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिए जाने या विधारित किए जाने की कोई समय सीमा अधिरोपित नहीं की है। परिणामस्वरूप राष्ट्रपति चाहे तो राज्य विधान मंडल के विधेयक को विना अपना मत व्यक्त किये अनिश्चित काल तक लम्बित रख सकता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के पास एक तीसरा अनुकल्प भी है, जिसका केवल शिक्षा विधेयक के बारे में, प्रयोग किया गया था। अर्थात् जब आरक्षित विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति के मस्तिष्क में कोई विधेयक की सांविधानिकता के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो वह यह विनिश्चय करने के लिए कि उस विधेयक को अनुमति दे, या उसे लौटा दे उच्चतम न्यायालय को vUPN 143 के अधीन उसकी राय जानने के लिए भेज सकता है।

#### 5-5- विधि विवरण (Check your progress)

- 73वां संविधान संगोष्ठन अधिनियम 1993 को प्रकाशित और प्रवर्तित हुआ।
- 73वां संविधान संगोष्ठन अधिनियम के माध्यम से संविधान के पूर्ववर्ती भाग 8 के पात्र एक नया हिस्सा भाग शीर्षक से जोड़ा गया है।
- त्रिस्तरीय पंचायती राज के 1, 2 और 3 स्तर हैं।
- संविधान के 74वें संगोष्ठन अधिनियम द्वारा ..... को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।

#### 5-6- सारांश (Summary)

स्थानीय लोग स्थानीय विकास के संदर्भ में वर्ष 1882 को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय के गठन की पहल की। उल्लेखनीय है कि उस समय इन्हें मुकामी बोर्ड

कहा जाता था। जिसके बाद भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई और यह सिलसिला 1935 के गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी जारी रहा। स्वतंत्रता संघर्ष के समय गांधी जी ने भी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर काफी जोर दिया था, उनका कहना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। जब संविधान तैयार किया गया था तो स्थानीय सरकार का विषय राज्यों को सौंपा गया। साथ ही इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों में भी शामिल किया गया। 1987 के बाद स्थानीय सरकार संस्थानों के कामकाज की गहन समीक्षा शुरू की गई और 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। अंततः वर्ष 1992 में संसद द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक सं"गोधन पारित किये गए। 73वां संवैधानिक सं"गोधन – 73वां संविधान सं"गोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। 74वां संवैधानिक सं"गोधन – 74वां संविधान सं"गोधन शहरी स्थानीय सरकार से सम्बन्धित है, जिन्हें नगरपालिका भी कहा जाता है। 73वां संविधान सं"गोधन अधिनियम, 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहा राव के कार्यकाल में प्रभाव हुआ। 24 अप्रैल, 1993 से 73वां संविधान सं"गोधन अधिनियम लागू हुआ था, अतः 24 अप्रैल को 'राष्ट्रीय पंचायत दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान अधिनियम द्वारा संविधान में भाग-9 जोड़ा गया था। 73वें संविधान सं"गोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। 73वें संवैधानिक सं"गोधन से हुए मुख्य बदलाव इस सं"गोधन के प"चात् सभी प्रदे"गों में पंचायती राज व्यवस्था का ढाँचा त्रि-स्तरीय हो गया, जिसमें सबसे नीचे यानी पहले स्थान पर ग्राम पंचायतें आती हैं, बीच में मंडल आते हैं जिन्हें खंड या तालुका भी कहते हैं और अंत में सबसे ऊपर जिला पंचायतों का स्थान आता है। सं"गोधन से पूर्व कई स्थानों पर चुनावों की कोई भी प्रत्यक्ष एवं औपचारिक प्रणाली नहीं थी, परन्तु इस 73वें संवैधानिक सं"गोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि अभी स्तरों पर चुनाव सीधे जनता करेगी और प्रत्येक पंचायती निकाय की अवधि 5 वर्षों की होगी। सभी पंचायती संस्थानों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित की गई और साथ ही सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। राज्यों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें, इन आयुक्तों को राज्य में सभी स्तरों पर पंचायती संस्थानों

के चुनाव करने की जिम्मेदारी दी गई। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संगोष्ठन अधिनियम, 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संगोष्ठन के माध्यम से संविधान में 'भाग 9क' जोड़ा गया एवं यह 1 जून, 1993 से प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 243 में नगरपालिकाओं से सम्बन्धित उपबंध किये गए हैं। नगरपालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243 फ में नगरपालिकाओं के तीन स्तरों के बारे में उपबंध है नगर पंचायत – ऐसे संक्रमण"पील क्षेत्रों में गठित की जाती है, जो गाँव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। नगरपालिका परिषद – इसे छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है। नगर निगम – बड़े नगरीय क्षेत्रों, महानगरों में गठित की जाती है। इसी संगोष्ठन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत नगरपालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है। 74वें संविधान संगोष्ठन में भी 73वें संविधान संगोष्ठन के प्रमुख प्रावधान जैसे – प्रत्यक्ष चुनाव और आरक्षण आदि शामिल हैं।

### 5-7- सूचक भाव (Key Words)

- पंचायत पंचायत का आय"य है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वासन की संस्था उसका नाम जो भी हो।
- ग्राम का आय"य उस ग्राम से है जिसे राज्यपाल ने पंचायत के प्रयोजन से सार्वजनिक अधिसूचना में ग्राम या ग्राम समूह के रूप में शामिल किया है।
- मध्यवर्ती स्तर मध्यवर्ती स्तर का आय"य उस स्तर से है जिसे राज्यपाल ने सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा इस प्रयोजन से गांव और जिला स्तर के मध्य निर्धारित किया है।
- जिला का आय"य राज्य के किसी जिले से है।

### 5-8- Lo; a eW; kdu gsw i t'u (Self Assessment Questions)

1. 73वें संविधान संगोष्ठन की व्याख्या कीजिए।
2. 74वें संविधान संगोष्ठन की व्याख्या कीजिए।
3. पंचायत के कार्यों की व्याख्या कीजिए।
4. नगर निगम के कार्यों की व्याख्या कीजिए।

### 5-9- vi u h i xfr dh tkp dj us ds fy, mÙkj (Answer check your progress)

- 24 अप्रैल
- 9 पंचायत
- 1 ग्राम स्तर, 3 जिला, 2 मध्यवर्ती
- नगर-प्र”ासन

#### 5-10- | UnHkxJFk@funF"kr i Frdः (References/Suggested Readings)

1. एस.आर. माहे”वरी, भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 1998।
2. वी.एम. सिन्हा, भारत में नगरीय सरकारें, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1986।
3. भारत का संविधान, राज्य अनुसूची की पांचवी प्रविष्टि।
4. बी.वेंकटराव, ए हन्ड्रेड ईयर्स ऑफ लोकल गवर्नमेन्ट इन आसाम, बनि प्रकाशन मण्डल, गौहाटी, 1965।
5. एम. वेंकटरमैया तथा एम. पट्टाभिराम एम.ए. मुतालिब एवं खान, थ्योरी ऑफ लोकल गवर्नमेंट, नई दिल्ली, स्टर्लिंग, 1983।
6. भारत में स्थानीय प्र”ासन प्रो. अ”गोक शर्मा आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स 340, चौड़ा रास्ता जयपुर 302003।

<b>Subject : jktuhfrd foKku</b>	
Course Code : <b>BA101</b>	Author : <b>Dr. Deepak</b>
Lesson No. : <b>6</b>	Vetter :
<b>संघ की कार्यकारिणी : राश्ट्रपति, उप राश्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और मंत्रिपरिषद</b>	

---

## ॥; क; & 6 संघ की कार्यकारिणी : राश्ट्रपति, उप राश्ट्रपति, प्रधानमन्त्री और मंत्रिपरिषद

---

- 6-1 व्यक्तिगत लक्षण (Learning Objectives)
- 6-2- इलेक्चर (Introduction)
- 6-3- विषय के मुख्य बिंदु (Main Points of Text)
  - 6-3-1- राश्ट्रपति (The President)
  - 6-4- इकाई के अन्तर्गत विषय (Further main body of the text)
    - 6-4-1- राज्यपाल (The Prime Minister)
    - 6-4-2- मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)
  - 6-5- विषय का अवगति (Check your progress)
  - 6-6- सारांश (Summary)
  - 6-7- सूचक भाष्ट (Key Words)
  - 6-8- आपको क्या जाना चाहिए (Self Assessment Questions)
  - 6-9- विषय का उत्तर देने का अवगति (Answer check your progress)
  - 6-10- इलेक्चर एवं विषय का अध्ययन (References/Suggested Reading)

## 6-1 विषयों के लक्ष्य (Learning Objectives)

हम इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे :—

- राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया तथा शक्तियों की विस्तृत जानकारी।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग का संक्षिप्त विवरण।
- प्रधानमन्त्री के कार्यों का अध्ययन।
- मन्त्री-परिषद की भूमिका का विस्तृत विवरण।
- प्रधानमन्त्री की नियुक्ति की प्रक्रिया का अध्ययन।

## 6-2- इन्ट्रोडक्यूशन (Introduction)

भारतीय संघीय शासन व्यवस्था अपनाने वाला देश है जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र या संघ सरकार तथा राज्यों में राज्य सरकारें कार्यरत हैं। दोनों ही स्तरों पर संसदीय लोकतंत्र तथा शक्ति-पृथक्करण के सिद्धान्तों को स्वीकारा गया है। शासन के तीनों अंगों, यथा – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका (विधायिका) तथा न्यायपालिका के मध्य 'नियन्त्रण तथा संतुलन' का नियम प्रवर्तित है अर्थात् शासन या सरकार के तीनों अंग जहाँ एक-दूसरे में स्वतन्त्र हैं वहीं परस्पर नियंत्रणकर्ता की भूमिका भी निर्वाहित करते हैं। चूँकि भारत में राजनीतिक कार्यपालिका (मंत्रिपरीषद्), व्यवस्थापिका का अभिन्न हिस्सा होती है। अतः सरकार की वास्तविक शक्तियाँ जिनमें विधि-निर्माण भी सम्मिलित है, कार्यपालिका के नियंत्रण में दिखायी देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि – “भारत में व्यवस्थापिका की शक्तियों तथा भूमिका का ह्लास हो रहा है और कार्यपालिका के निरंकुश”। शासन का दायरा विस्तृत होता जा रहा है। यद्यपि भारत में अमेरिका की भाँति पूर्णतया “वित्त-पृथक्करण” का सिद्धान्त लागू नहीं होता है तथापि कार्यपालिका पर न्यायपालिका का पर्याप्त नियंत्रण व्याप्त है।

## 6-3- विषयों के मुख्य बिंदु (Main Points of Text)

### 6-3-1- राष्ट्रपति (The President)

भारत के संविधान का अनुच्छेद – 52 यह प्रावधान करता है कि – “भारत का एक राष्ट्रपति होगा।” संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के कारण भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट की भाँति केवल ‘संवैधानिक अध्यक्ष’ के समान है। यद्यपि भारत का राष्ट्रपति-पद वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचन के माध्यम से भरा जाता है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं

अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। चूंकि संविधान का अनुच्छेद – 74 यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद् की सहायता तथा परामर्श के आधार पर करेगा। अतः राष्ट्रपति का पद वास्तविक रूप से अधिकारसम्पन्न नहीं है।”

**राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएँ** – संविधान का अनुच्छेद – 58 राष्ट्रपति-पद हेतु निम्नांकित प्रावधान करता है –

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो (अर्थात् उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन मण्डल में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, पागल या दिवालिया न हो तथा किन्हीं कारणों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित न हो)।
4. वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या उक्त सरकारों के अधीन किसी संस्था में लाभ का पदधारण किया हुआ न हो।

5 जून, 1997 को जारी एक अध्यादेश के प्रचारात् राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तथा 15,000 रुपये जमानत राखा के जमा कराने पड़ते हैं।

**राष्ट्रपति का निर्वाचन** – राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव एक निर्वाचक मण्डल के निम्नांकित सदस्यों द्वारा किया जाता है –

1. लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य।
2. राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।

संसद तथा राज्य विधानपरिषदों में मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। राज्य विधानसभा भंग हो या कोई स्थान रिक्त हो तो भी राष्ट्रपति चुनाव होता है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा सम्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्षतः जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति (System of Proportional Representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्याभार निर्धारित करने से है। यह मतभार सन् 1971

की जनसंख्या के आधार पर राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, तत्प”चात् संसद—सदस्यों की संख्या पर निर्धारित किया गया था। राज्य विधानसभा के सदस्य के मत का भार या मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है –

$$\frac{\text{राज्य की जनसंख्या}}{\text{विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}} \div 1000 \text{ (आधार वर्ष = सन् 1971)}$$

उदाहरण के लिए सन् 1971 में राजस्थान की जनसंख्या 2,57,65,806 तथा राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 200 होने के कारण एक सदस्य का मतमूल्य या भार 129 तथा सभी सदस्यों के मतों का भार 25,800 हुआ। इस विधि से सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों का मतभार निकाल लिया जाता है।

**राष्ट्रपति पर महाभियोग** ‘संविधान के अतिक्रमण’ के लिए लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद-61 के अनुसार संसद के किसी भी सदन द्वारा यह आरोप एक संकल्प (Resolution) के रूप में हो, जिस पर कम—से—कम एक चौथाई सदस्यों (उस सदन में) के हस्ताक्षर हों, राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भेजा जाए तथा यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जाँच स्वयं करेगा अथवा किसी न्यायालय के न्यायाधिकरण के द्वारा करवाएगा। राष्ट्रपति इस जाँच में स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। जाँच के प”चात् यदि दूसरा सदन भी दो तिहाई बहुमत से लगाए गए महाभियोग (Impeachment) को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसी समय पद छोड़ना पड़ता है। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। सन् 1970 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के विवाद में राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि के विरुद्ध विपक्षी नेता मधु लिमये ने महाभियोग प्रस्ताव लाने का प्रयास अव”य किया था।

### **राश्ट्रपति की भावितयाँ या कार्य (Powers or Functions of the President)**

– भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की है जिन्हें अग्रांकित शीर्षकों के माध्यम से वर्णित किया जा रहा है –

1. कार्यपालिका शक्तियाँ
2. सैनिक शक्तियाँ

3. कूटनीतिक शक्तियाँ
4. विधायी शक्तियाँ
5. न्यायिक शक्तियाँ
6. आपातकालीन शक्तियाँ

**1- कार्यपालिका भावितयाँ** – संवैधानिक दृष्टि से भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से या उनकी ओर से निष्पादित होते हैं क्योंकि वह राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति तथा सर्वोच्च पदधारक है।

VUPN& 240 संघ राज्य क्षेत्रों में विनिमय बनाने की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित करता है। वस्तुतः राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री तथा मंत्रिपरिषद् के पराम”f पर करता है अर्थात् वास्तविक रूप से शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित न होकर मंत्रिपरिषद् में समाहित हैं। अनुच्छेद-77 यह प्रावधान करता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएँगी। इसी के अन्तर्गत कार्य आवण्टन नियम बनते हैं। अनुच्छेद-78 के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति को सूचनाएँ एवं सरकार के निर्णय अवगत कराता है।

**2- सैनिक भावितयाँ** – राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, यथा—थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने या बन्द करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं लेकिन ऐसा वह मंत्रिपरिषद् के पराम”f तथा संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही करता है।

**3- कूटनीतिक भावितयाँ** & राष्ट्र का सर्वोच्च पदाधिकारी होने के कारण राष्ट्रपति विदे”fi प्रतिनिधि मण्डलों, शासनाध्यक्षों तथा fाष्टमण्डलों के साथ नीतियों, संधियों या आपसी करारों या समझौतों इत्यादि से सम्बन्धित विषयों पर संक्षिप्त वार्ता करता है तथा सरकार द्वारा समस्त समझौते राष्ट्रपति की ओर से किए जाते हैं। विदे”I यात्राओं के समय भी राष्ट्रपति भारत सरकार का रुख स्पष्ट करता है। भारत सरकार की ओर से विदे”gों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधि या fाष्टमण्डलों तथा राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, किन्तु यह सब मंत्रिपरिषद् की इच्छा पर निर्भर करता है।

**4- विधायी भावितयाँ** – लोकसभा तथा राज्यसभा के अतिरिक्त संसद का तीसरा अंग, राष्ट्रपति होता है। चूंकि संसद का मुख्य कार्य विधि-निर्माण का है। अतः राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ संसद के कार्यों का विस्तार है।

1. राष्ट्रपति संसद में दोनों सदनों के सत्र आहूत करता है तथा सत्रावसान भी करता है किन्तु दो सत्रों के मध्य छः माह से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए।
2. लोकसभा चुनावों के प”चात् गठित सरकार तथा प्रतिवर्ष बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है जो सम्बन्धित सरकार की नीतियों का दर्पण होता है।
3. राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को सन्देश भेज सकता है।

5- **न्यायिक भावितयाँ** – संविधान का अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति के दण्ड को क्षमा करने, प्रकृति परिवर्तित करने या निलम्बित करने इत्यादि का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति निम्नांकित प्रकरणों में प्राप्त है –

1. यदि दण्ड या दण्डादेश सेना न्यायालय (कोर्ट मार्फल) ने दिया हो।
2. यदि दण्ड या दण्डादेश ऐसे विषय से सम्बन्धित विधि के विरुद्ध अपराध है, जिस विषय पर संघ कार्यपालिका की शक्ति विस्तारित है।
3. उन सभी मामलों में जिनमें दण्डादेश, ‘मृत्यु दण्डादेश’ है।

6- **आपातकालीन भावितयाँ** – भारत का संविधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार की परिस्थितियों में आपातकाल (Emergency) लगाने की शक्तियाँ प्रदान करता है। यद्यपि आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति की संतुष्टि पर निर्भर है तथापि इस प्रकार का निर्णय प्रधानमन्त्री की इच्छा से प्रेरित होता है।

1- ; ) ; क व्यक्तिगत व्यक्ति & अनुच्छेद-352 के अनुसार यदि बाह्य आक्रमण (युद्ध) की सम्भावना हो या युद्ध छिड़ गया हो अथवा देश में आन्तरिक अंतिमति (सत्र विद्रोह या Armed Rebellion) के हालात पैदा हो गए हों तो राष्ट्रपति, सम्पूर्ण देश में या किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। शुरू में यह दो माह के लिए लगाया जाता है तथा संसद की स्वीकृति के प”चात् छः माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। बंटवारा तथा राज्य सूची पर केन्द्र द्वारा विधान निर्माण इत्यादि के क्रम में भी राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है।

2- jkt; eis | प्रधानमन्त्री के अनुच्छेद-356 के अनुसार यदि किसी राज्य में राज्यपाल को संवैधानिक विफलता दिखाई दे तो वह राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति ”गासन (President’s Rule) की अनुंतंसा कर

सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद् का विघटन, मौलिक अधिकारों का निलम्बन, संसद द्वारा राज्य का बजट एवं विधि—निर्माण तथा राज्य विधानसभा का विघटन इत्यादि कदम उठाए जा सकते हैं। अनुच्छेद—356 के अधीन आरोपित राष्ट्रपति शासन शुरू में दो माह के लिए होता है जिसे संसद का अनुमोदन आव”यक है। भारत में इस अनुच्छेद का प्रायः राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग किया गया है तथा सन् 2002 तक 108 बार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका था।

3- foÙkh; LFkkf; Ro ; k | k[k dks [krjk & यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि भारत की वित्तीय साख या स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह अनुच्छेद – 360 के अन्तर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय प्र”ासन से सम्बन्धित निर्देश भेज सकता है, लोक सेवकों के वेतन—भत्ते कम कर सकता है तथा राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित प्रत्येक धन विधेयक को अपने पास मंगवा सकता है। यह आपातकाल भी शुरू में दो माह के लिए होता है जो संसद की सिफारिश पर बढ़ाया जा सकता है। भारत में अभी तक इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ है।

6-4- i kB ds vkxs dk eq[; Hkkx (**Further main body of the text**)

#### 6-4-1- i /kueU=h (**The Prime Minister**)

संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमन्त्री वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। इसी कारण उसकी पदस्थिति सर्वाधिक शक्ति” गली मानी जाती है। भारत में भी प्रधानमन्त्री की पदस्थिति अत्यन्त सम्मानित, शक्तिसम्पन्न तथा गरिमायुक्त है। प्रधानमन्त्री पद हेतु निम्नांकित योग्यताएँ हैं :—

1- वह लोकसभा या राज्य सभा का सदस्य हो और यदि पदग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो तो पदग्रहण से 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करे।

2. उसे बहुमत वाले दल का समर्थन प्राप्त हो अर्थात् लोकसभा में प्रधानमन्त्री को विवास मत प्राप्त हो क्योंकि यह सरकार संचालन के लिए स्वाभावित आव”यकता है।

प्रधानमन्त्री की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद – 75(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तत्प”चात् प्रधानमन्त्री अपने अन्य सहयोगी मंत्रियों का चयन का मंत्रिपरिषद् का निर्माण करता है जो वास्तविक कार्यपालिका होती है।

dk; l ॥१॥ & संविधान के अनुच्छेद – 78 में प्रधानमन्त्री के निम्नांकित कर्तव्य बताए गए हैं –


1. राष्ट्रपति को संघयी सरकार के समस्त प्र”ासानिक निर्णयों तथा प्रस्तावों से अवगत कराएगा जो कि मंत्रिपरिषद् ने लिए हैं।
2. किसी एक मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद् के समुख विचारार्थ रखवाएगा।
3. राष्ट्रपति द्वारा चाही गई सूचना या पराम”f उपलब्ध कराएगा।

वस्तुतः प्रधानमन्त्री का प्रमुख कार्य राष्ट्रपति को सहायता एवं पराम”f प्रदान करना है लेकिन वास्तविकता यह है कि शासन की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमन्त्री स्वयं तथा अपने मंत्रियों के माध्य से प्रयोग में लाता है। राष्ट्रपति तो केवल हस्ताक्षर अंकित करने की औपचारिकताएँ निर्वाहित करते हैं।

i /kueU=h ds okLrfod dk; l & शासन सत्ता के फ़ाखर पर आसीन प्रधानमन्त्री की शक्तियाँ तथा कृत्य बहुआयामी हैं जिन्हें संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है –

1. मंत्रिपरिषद् का निर्माण, परिवर्तन तथा विभागों का बंटवारा करना एवं मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्यों के बीच समन्वय एवं सौहार्द बनाए रखना।
2. राष्ट्रपति को अपनी सरकार तथा प्र”ासन के निर्णयों से अवगत कराना तथा गम्भीर मुद्दों पर विचार-विम”f करना।
3. नियमित अन्तराल पर मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित करवाना तथा आव”यक निर्णय लेना।
4. सभी प्रमुख नीतियों (रक्षा, विदे”I तथा औद्योगिक इत्यादि) का निरूपण तथा इनका क्रियान्वयन कराना।
5. संघ सूची के विषयों पर कानून तथा कार्यक्रम निर्माण करना।
6. संसद में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना तथा उठायी गई आपत्तियों का निवारण करना।
7. दे”I की आन्तरिक एवं बाह्य शांति व्यवस्था सुनिश्चत करना तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना।
8. राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के प्रति सार्थक कदम उठाना।
9. अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्य महत्वपूर्ण मंचों पर भारत की नीतियाँ स्पष्ट करना।

10. दे”त के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्र”स्त करना।
11. विभिन्न गम्भीर मुद्दों पर राजनीतिक दलों में तालमेल स्थापित करना।
12. सार्वजनिक सभा—समारोह तथा अन्य अवसरों पर अपनी सरकार के कार्यक्रमों तथा दृष्टिकोणों से अवगत कराना।
13. समाज के सभी वर्गों विशेषतः पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों तथा निर्याग्यताग्रस्त लोगों का उत्थान कराना।
14. लोक प्र”ासन में सच्चारित्रता की स्थापना तथा नौकर”ाही पर अंकु”त स्थापित कराना।



### ि विधायिका के रूप (Role of Prime Minister)

वास्तविक तथा राजनीतिक प्रकृति की कार्यपालिका के रूप में पदस्थापित भारत का प्रधानमन्त्री दे”त की जनता की आकांक्षाओं, विपक्ष की आलोचनाओं तथा शासन—सत्ता की

असीम शक्तियों का केन्द्र बिन्दु होता है। प्रधानमन्त्री के पद पर रहते हुए उसे अनेक प्रकार की भूमिकाएँ (Roles) निर्वाहित करनी पड़ती है, यथा –

1- **प्र०”T के लोकतांत्रिक भासक के रूप में** – भारत प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाला कल्याणकारी राज्य है जहाँ संसदीय लोकतंत्र की शासन प्रणाली प्रवर्तित है। यद्यपि संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति की स्थिति सर्वोच्च प्रतीत होती है तथापि दे”T का वास्तविक शासन प्रधानमन्त्री होता है। दे”T में लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना, जनसाधारण के कष्टों का निवारण तथा संवैधानिक निर्देशों की अनुपालना मुख्यतः प्रधानमन्त्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद् के अन्य मंत्रियों की कार्य”ौली से प्रभावित होती है। अधिसंख्य मामलों में प्रधानमन्त्री जनता-जनार्दन द्वारा समर्थन प्राप्त राजनीतिक तथा प्रासादनिक लक्ष्यों की पूर्ति कराता है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की छवि तथा प्रधानमन्त्री की कार्य”ौली एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। आम जनता भी अधिकांश मामलों में प्रधानमन्त्री की भूमिका को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है क्योंकि प्रधानमन्त्री जनाकांक्षाओं की पूर्ति का स्वाभाविक स्रोत है प्रधानमन्त्री की राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं से लड़ने की क्षमता जनसाधारण को प्रत्यक्षः प्रभावित करती है। यही कारण है कि प्रधानमन्त्री की विफलता सत्तारूढ़ दल के पतन का कारण बन जाती है। एच.आर.सी. ग्रीष्म कहते हैं – “सरकार सम्पूर्ण दे”T की मास्टर है किन्तु प्रधानमन्त्री सरकार का मास्टर है।”

2- **uhfr fuelirk ds : lk e॥ & संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमन्त्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद्, व्यवस्थापिका या विधायिका का एक भाग होते हैं।** इस प्रकार प्रधानमन्त्री कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों में प्रभावी भूमिका निभाता है। प्रधानमन्त्री ही वह व्यक्ति है जो राष्ट्रीय समस्याओं, कार्यक्रमों, योजनाओं तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आधारभूत नीतियाँ बनाता है। यद्यपि यह नीतियाँ उस दल की मान्यताओं से अत्यधिक प्रभावित होती हैं जिस दल का प्रधानमन्त्री सदस्य होता है तथापि नीति-निरूपण में प्रधानमन्त्री की भूमिका सर्वोपरि तथा निर्णायक होता है।

3- **fodkl kUeq[ k usRo ds : lk e॥ & भारत उन दे”गों में सम्मिलित है जहाँ सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्य नियोजन प्रणाली के माध्य से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।** योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमन्त्री का विकास के क्रम में दृष्टिकोण तथा पहल करने की क्षमता राष्ट्र के समग्र विकास में निर्दिशत रूप से निर्णायक भूमिका निर्वाहित करती है। राष्ट्र की समस्याओं,

जनाकांक्षाओं, उपलब्ध संसाधनों तथा कु”ल प्र”गासनिक तंत्र के साथ दूरदूर्तापूर्वक समन्वय स्थापित करने वाला प्रधानमन्त्री ही विकास को नए आया दे सकता है। इसलिए मुनरो ने प्रधानमन्त्री को ‘राज्यरूपी जहाज का कप्तान’ कहा है।

4- **I** n e॥ jktuhfrK ds : lk e॥ & सामान्यतः प्रधानमन्त्री लोकसभा का सदस्य होता है। बहुमत वाले दली का सर्वसम्मत नेता होने के कारण उसे अन्य राजनीतिक दलों अर्थात् विपक्ष के नेताओं के साथ राजनीतिक एवं वैचारिक भिन्नता तथा प्रधानमन्त्री होने के कारण स्वाभाविक दबावों का सामना करना पड़ता है। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक, प्रस्ताव तथा आम बजट एवं रेल बजट में प्रधानमन्त्री की कार्य”ली स्पष्ट दिखाई देती है। इसी प्रकार प्र”नकाल, वि”वास मत प्रस्ताव या अवि”वास प्रस्ताव इत्यादि के समय प्रधानमन्त्री को सत्तारूढ़ दल तथा दे”। की वास्तविक कार्यपालिका दोनों दृष्टियों से बहस में उत्तर देना पड़ता है।

5- **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दे”॥** ds i fffu/k ds : lk e॥ & तेजी से भागती दुनिया में हो रहे ध्रुवीकरणों के कारण किसी भी दे”। की छवि उसके गुटों से भी प्रभावित होती है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, राष्ट्रमण्डल तथा सार्क के माध्यम से भारत की छवि न्यूनाधिक मात्रा में निष्पक्ष तथा शांतिप्रिय राष्ट्र की है। इसके लिए पूर्व प्रधानमन्त्रियों की विचारधारा तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सार्थक उपस्थिति महत्वपूर्ण रही है। संयुक्त राष्ट्र की सभाओं तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के क्रम में भारत के पक्ष को स्पष्ट करने में प्रधानमन्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध होती है।

6- **मंत्रिपरिषद्** के अध्यक्ष के रूप में – प्रधानमन्त्री का चयन बहुमत वाले दल के सांसद करते हैं जबकि मंत्रिपरिषद् के सदस्यों का चयन स्वयं प्रधानमन्त्री पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर करता है। किस मंत्री को कौन–सा विभाग तथा स्तर प्रदान किया जाना है और मंत्रिपरिषद् का कब विस्तार करना है इत्यादि का निर्णय प्रधानमन्त्री ही करता है। समय–समय पर होने वाली केबिनेट मीटिंग तथा उसके एजेण्डा का निर्धारण भी प्रधानमन्त्री करता है। केबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमन्त्री अन्य सहयोगी मंत्रियों के परामर्श पर सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इसलिए लॉर्ड मॉर्ले प्रधानमन्त्री को ‘समकक्षों में प्रथम’ का नाम देते हैं।

7- **राष्ट्रपति के परमाद”॥** kkrk ds : lk e॥ & सैद्धान्तिक तथा संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति दे”। की सर्वोच्च कार्यपालिका होता है लेकिन व्यावहारिक रूप में राष्ट्रपति का

प्रत्येक कृत्य प्रधानमन्त्री के पराम”<sup>f</sup> से प्रभावित होता है। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति, संसद का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने, मंत्रिपरिषद् का विस्तार या किसी मंत्री को हटाने, महत्वपूर्ण विधेयकों का प्रस्तुतिकरण, आपातकाल की घोषणा तथा लोकसभा को भंग करने इत्यादि मामलों में प्रधानमन्त्री ही राष्ट्रपति का सहायक तथा पराम”<sup>f</sup>दाता होता है। यद्यपि अधिकां”<sup>g</sup> परिस्थितियों में प्रधानमन्त्री या मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करता है किन्तु संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति स्वयं भी पहल कर सकता है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जबकि राष्ट्रपति को प्रधानमन्त्री के पराम”<sup>f</sup> के बिना या उसके विरुद्ध निर्णय करना पड़े तो निस्संदेह दोष प्रधानमन्त्री का ही होगी।

#### 6-4-2- मंत्रिपरिषद् (Council of Ministers)

संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् मे सम्मिलित मंत्रियों तथा मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री में निहित होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद – 74(1) यह प्रावधान करता है कि—“राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन करने में सहायता तथा पराम”<sup>f</sup> देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् (Council of Ministers) होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होगा।” आम बोलचाल की भाषा में सरकार से तात्पर्य मंत्रिपरिषद् से ही होता है।

fu; fDr & मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्ति द्वारा प्रधानमन्त्री के पराम”<sup>f</sup> पर होती है (अनुच्छेद – 75 (1))। मंत्रिपरिषद् के सदस्यों या मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमन्त्री सैद्धान्तिक दृष्टि से स्वतंत्र दिखाई देता है लेकिन व्यावहारिक रूप में प्रधानमन्त्री कई प्रकार की बाध्यताओं से घिरा होता है। मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों की संख्या संविधान द्वारा निर्दिष्ट नहीं की गई है बल्कि यह राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। स्वतन्त्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद् में 14 सदस्य सम्मिलित थे जबकि सन् 1991 में पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार ने 60 सदस्य मंत्रिपरिषद् में शामिल किए थे क्योंकि राव सरकार के पास पूर्ण बहुमत का अभाव था, अतः कई व्यक्तियों को मंत्रिपद देना पड़ा था। वाजपेयी मंत्रिपरिषद् में सन् 2003 में किए गए 13वें विस्तार के पश्चात् 81 मंत्रि थे जो एक रिकॉर्ड हैं। प्रथम संविधान सुधार आयोग (प्रथम) का मानना था कि मंत्रिपरिषद् का आकार 40–45 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए जिसके एक तिहाई सदस्य केबिनेट स्तर के हों। सन् 2003 में किए गए संविधान संगोष्ठी (91वाँ संगोष्ठी) के पश्चात् अब मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत सांसदों तक सीमित कर दी गई है अर्थात् केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में अधिकतम 79

(लोकसभा की संख्यानुसार) मंत्रि ही हो सकते हैं। यह कानून राज्यों की मंत्रिपरिषद् पर भी लागू है। मंत्रिपरिषद् के सदस्य अधिकां”तः लोकसभा में निर्वाचित सांसद होते हैं तथापि राज्यसभा के सांसद या ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है तो उसे नियमानुसार छः माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के मंत्री की मूलभूत योग्यताएँ वही हैं जो किसी सांसद के लिए आव”यक है।


मंत्रिपरिषद् में चार प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं जो शक्तियों तथा स्तर के अनुसार क्रम”तः निम्नांकित हैं –

1. केबिनेट मंत्री
2. राज्य मंत्री
3. उप मंत्री
4. संसदीय सचिव

**भापथ** – संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित पद एवं गोपनीयता की शपथ प्रधानमन्त्री तथा अन्य मंत्रियों को लेनी होती है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् को शपथ ग्रहण करवाता है।

1- **मंत्री—पद की भापथ** – “मैं अमुक, ई”वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा।”

2- **मंत्री के लिए गोपनीयता की भापथ** – “मैं अमुक, ई”वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि संघ में मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।”



dk; l, oa Hkfedk & मंत्रिपरिषद् का प्रमुख कार्य राष्ट्रपति को सहायता एवं परमामर्ता प्रदान करना, नीति एवं कार्यक्रम बनाना तथा देना का शासन-संचालन करना है जो व्यक्तिगत रूप में किसी मंत्री द्वारा विभाग पर नियंत्रण-निर्देशन और सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद् द्वारा लिए गए निर्णयों द्वारा संचालित होता है। मंत्रिपरिषद् के अधिकारी नीतिगत तथा उच्चस्तरीय कार्य प्रधानमन्त्री तथा मंत्रिमण्डल द्वारा निष्पादित होते हैं जबकि दैनन्दिन कार्य विभिन्न प्रकार के मंत्री अपने-अपने विभागों में पूरे करते हैं। मंत्रिपरिषद् के कार्यों को निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है –

1- **राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्ता** & संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्ता तथा सहायता देने हेतु मंत्रिपरिषद् का होना अनिवार्य है। यही कारण है कि किसी सरकार के पतन के पश्चात् भी वह मंत्रिपरिषद् तक तक कार्य करती रहती है जब तक कि नयी सरकार गठित न हो जाए। मंत्रिपरिषद् द्वारा विभिन्न मामलों में लिए गए निर्णयों से प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं। वस्तुतः राष्ट्रपति वही कार्य करता है

जैसा उसे प्रधानमन्त्री द्वारा परामर्शदाता किया जाता है। सैद्धान्तिक दृष्टि से यह विवाद का विषय बना हुआ है कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की प्रत्येक मंत्रणा को स्वीकार करने को बाध्य है ? लेकिन व्यवहारिक स्तर पर यह अनेक बार स्पष्ट हो चुका है कि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् का परामर्शदाता करने से न्यूनाधिक मात्रा में बाध्य अवश्य है।

2- उनीही वह दस्तावेज या विचारधारा सिद्ध होती है जो किसी तंत्र को उसे लक्ष्यों की प्राप्ति में न केवल मार्गदर्शन प्रदान करती है बल्कि सरकार की मंगलांग को भी स्पष्ट करती है। मंत्रिपरिषद् ही सर्वोच्च नीति निर्मात्री संस्था है जो किसी देश की रक्षा, विदेश, गृह, प्राक्षात्मक, उद्योग तथा विकास इत्यादि की नीतियाँ निर्धारित करती है। ये नीतियाँ सम्बन्धित देश के इतिहास, सामाजिक-आर्थिक परिवेश, संवैधानिक मूल्यों तथा जनाकांक्षाओं से अभिप्रेरित अवश्य होती हैं तथापि इनमें सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी की छवि स्पष्ट नजर आती है।

3- यद्यपि विधि-निर्माण का प्रमुख कार्य संसद का है तथापि संसद का एक अभिन्न अंग होने के कारण मंत्रिपरिषद् की विधि-निर्माण में महत्ती भूमिका रहती है। विभिन्न प्रकार के नए विधेयकों का प्रारूप निर्माण, प्रवर्तित कानूनों में संगोष्ठन तथा सुधार का कार्य लोक सेवकों की सहायता से सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद् ही निर्धारित करती है। संसद में बहुमत रखने के कारण अधिकांश विधेयक मंत्रिपरिषद् द्वारा ही प्रस्तुत कि ए जाते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का परामर्श तथा प्रारूप भी मंत्रिपरिषद् ही देती है।

4- इसलिए देश की कार्यकारी वास्तविक सत्ता प्राप्त सर्वोच्च शक्तिसम्पन्न निकाय है जो सम्पूर्ण शासन तंत्र को निर्देशित, नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने का कार्य करती है। प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग का शीर्षस्थ पद मंत्री के रूप में एक राजनेता द्वारा धारण किया जाता है जो मंत्रिपरिषद् का सदस्य भी कहलाता है। सम्बन्धित विभाग की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, बजट तथा लक्ष्यों की पूर्ति के क्रम में मंत्री द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। मंत्री के अधीन कार्यरत सचिव तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारी केवल उसके सहायक होते हैं। वास्तविक तथा अन्तिम उत्तरदायित्व मंत्री का होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि शासन संचालन से सम्बन्धित कारगर रणनीति सम्बन्धित मंत्रिपरिषद् द्वारा तैयार की जाए।

5- fodkl dh okgd & आधुनिक राज्य कल्याणकारी तथा लोकतंत्रात्मक हैं जहाँ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का दायित्व सरकार को सौंपा गया है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् की स्पष्ट भूमिका बनी रहती है क्योंकि समस्त राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रिपरिषद् प्रमुख स्रोत हैं। पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों तथा प्राकृतिक रूप से विपन्नताग्रस्त सुदूर अंचलों में जीवन की मूलभूत सुविधाएँ, यथा – फ़िक्षा, पेयजल, यातायात, खाद्यान्न, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य इत्यादि उपलब्ध करवाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।

6- ello; djuk & लोक प्र”ासन में प्र”ासनिक संगठनों या संस्थाओं का विवाल एवं जटिल तंत्र कार्यरत है। एकाधिक संगठनों या व्यक्तियों में प्र”ासनिक कृत्यों को लेकर उठने वाले विवादों को निबटाने में मंत्रिपरिषद् अहम् भूमिका निभाती है। एक ही मंत्रालय के विभिन्न मंत्रियों या अलग—अलग मंत्रालयों में मंत्रियों तथा सचिवों के मध्य कार्यक्षेत्र को लेकर उठने वाले विवादों का निवारण मंत्रिमण्डल करता है। समन्वय की यह समस्या अन्तरविभागीय ही नहीं बल्कि अन्तरराज्यीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय भी हो सकती है। निस्संदेह सामंजस्य तथा समन्वय की स्थापना मंत्रिपरिषद् ही करवा सकती है।

7- ykd f”kdk; r fuokj.k rFkk tuer fuekLk & शासन—सत्ता के शीर्ष पर स्थापित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रतिदिन हजारों जनकायतें पहुँचती हैं। इन कायतों तथा जन समस्याओं का निराकरण कराना मंत्रिपरिषद् का एक प्रमुख दायित्व है। इस क्रम में अनेक जाँच अभिकरण तथा नियंत्रणकारी संगठन कार्यरत हैं जिनके माध्यम से कायत निराकरण सम्भव है। इसी तरह मंत्रिगण आकस्मिक दौरा करके भी प्र”ासन को सजग रख सकते हैं।

#### 6-5- vi uhi i xfr tkpi (Check your progress)

निचे कुछ प्र”न दिए गए हैं उनका आपने उत्तर देना है :-

- (i) भारत में कौन—सी शासन प्रणाली अपनाई गई है ?
- (ii) राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि के द्वारा किया जाता है ?
- (iii) राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम—से—कम कितनी आयु होनी चाहिए ?
- (iv) राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है ?
- (v) मन्त्रिपरिषद में कितने प्रकार के मन्त्री होते हैं ?

(vi) मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है ?

(vii) मन्त्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या है ?

#### 6-6- । k j k'k (Summary)

इस अध्याय में विषयों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत में राजनीति तथा प्र”ासन की प्रक्रिया को कई स्तरों में बांटा गया है। भारत में प्र”ासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शक्तियों का विभाजन किया गया है क्योंकि कोई भी निर्वाचित व्यक्ति या राष्ट्रपति ताना”ही ना कर सके। जहां पर भी सारी कार्यपालिका शक्तियों का केन्द्र राष्ट्रपति है, वहीं पर राष्ट्रपति पर 44वें संविधान सं”गोधन के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह इन शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति में कुछ आपातकालीन शक्तियां भी निहित हैं जिनका प्रयोग वह अपनी इच्छा से कर सकता है परन्तु कुछ विषयों पर उनमें भी राष्ट्रपति पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

भारत में राजनीतिक सारी शक्तियां तथा कार्यपत्रिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग तो प्रधानमन्त्री ही करता है, राष्ट्रपति तो केवल नाममात्र का कार्यपालक है वास्तविकता में कार्यपालन तो प्रधानमन्त्री ही है। प्रधानमन्त्री का चुनाव हमारे दे”। की जनता प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करती है। प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल की सहायता से दे”। का शासन चलाता है तथा नितियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। प्रधानमन्त्री की सहायता के लिए मन्त्रिपरिषद होती है जो उनके कार्यों में सहयोग देती है दे”। का विकास तथा विना”। मन्त्रिमण्डल पर ही निर्भर होता है यदि सही दि”ग में कार्य किया जाए तो विकास तथा विपरीत दि”ग में कार्य किया जाए तो विना”। अंत में ये ही कह सकते हैं कि भारत दे”। प्र”ासनिक तथा राजनीतिक रूप से वि”व में सभी दे”गों से अलग है क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन कई स्तरों पर किया गया है जिससे कोई भी ताना”ही नहीं कर सकता।

#### 6-7- सूचक भाव (Key Words)

राष्ट्रपति & दे”। का सर्वोपरि, नागरिक जिसमें सारी कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं।

। । /kueU=। & मन्त्रिमण्डल का प्रधान, जिसे मन्त्रिमण्डल में सर्वोपरि दर्जा प्राप्त हो, प्रधानमन्त्री कहलाता है।

मन्त्रिपरिशद् & मन्त्रियों का समूह जिसका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है।

egkflIk; kx & वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति यह गैर संवैधानिक कार्यों के लिए आरोप सिद्ध करके पद से हटाया जाता है।

rkuk”kkgh & वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी कार्यपालक अपनी मर्जी से सभी निर्णय ले तथा नितियां बनाएं।

#### 6-8- Lo; a eW; kdu gsw i”u (**Self Assessment Questions**)

- Q.1. राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करो।
- Q.2. राष्ट्रपति की आपातकालिन शक्तियों का संक्षिप्त विवरण दें।
- Q.3. प्रधानमन्त्री की चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं ?
- Q.4. मन्त्रिमण्डल की भूमिका का वर्णन करें।
- Q.5. प्रधानमन्त्री के कार्यों का विवरण दें।

#### 6-9- vi uh i xfr dh tkp djus ds fy, mUkj (**Answer check your progress**)

- |  |   |
|--|---|
| (i) संसदीय शासन प्रणाली                | (ii) एकल-संक्रमणीय मत-प्रणाली द्वारा        |
| (iii) 35 वर्ष                          | (iv) महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा        |
| (v) 3 प्रकार के                        | (vi) राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री की सिफारिस पर |
| (vii) राष्ट्रपति को सलाह और परम”f देना |   |

#### 6-10- I Uhk xJFk@funf”kr i Lrdi (**References/Suggested Reading**)

1. Public Administration, McGraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. प्र”ासनिक चिंतक; प्रसाद एण्ड प्रसाद सत्यनारायण; जवाहर पब्लिकेन्स एण्ड डिस्ट्रीब्यू”न।

<b>Subject :</b> jktuhfrd foKku	
Course Code : <b>BA101</b>	Author : <b>Dr. Deepak</b>
Lesson No. : <b>7</b>	Vetter :
j kT; dk; ldkfj . kh % j kT; i ky] eq[; eU=h, मंत्रिपरिशद	

---

## 7/; k; & 7 राज्य कार्यकारिणी : राज्यपाल, मुख्यमन्त्री, मंत्रिपरिशद

---

- 7-1- vf/kxe mnñ"; (**Learning Objectives**)
- 7-2- i Lrkouk (**Introduction**)
- 7-3- v/; ; u ds eq[; fcUnq (**Main Points of Text**)
- 7-3-1- j kT; i ky dh fu; fDr (**Appointment of Governor**)
- 7-3-2- j kT; i ky की भावितयाँ तथा कार्य (**Powers and Functions of Governor**)
- 7-4- i kB ds vkxs dk eq[; Hkkx (**Further main body of the text**)
- 7-4-1- मुख्यमन्त्री की भावितयाँ और कार्य (**Powers and Functions of Chief Minister**)
- 7-4-2- eq[; eU=h dh fLFkfr (**Position of the Chief Minister**)
- 7-5- vi uh i xfr tkp@ (**Check your progress**)
- 7-6- I kj kñ'k (**Summary**)
- 7-7- सूचक भाष्ट (Key Words)
- 7-8- Lo; a eW; kdu gñw i z'u (**Self Assessment Questions**)
- 7-9- vi uh i xfr dh tkp djus ds fy, mÙkj (**Answer check your progress**)
- 7-10- I UnHkx xUFk@funF"kr i Frd@ (**References/Suggested Reading**)

## 7-1- विषय का लक्ष्य (Learning Objectives)

इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे :—

- केन्द्रिय सचिवालय तथा राज्य सचिवालय का संक्षिप्त विवरण।
- राज्यपाल की भूमिका तथा कार्यों का अध्ययन।
- मुख्यमन्त्री के कार्यों तथा शक्तियों का विवरण।
- राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया।
- मुख्यमन्त्री के चुनाव की प्रक्रिया।

## 7-2- इंट्रोडक्शन (Introduction)

भारत में संघीय शासन—प्रणाली होने के कारण दोहरी शासन व्यवस्था है — एक संघ की तथा दूसरी संघ की इकाइयों (राज्यों) की। संघ की भाँति राज्यों में भी संसदीय शासन—प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार, राज्यपाल राज्य का नाममात्र का अध्यक्ष होता है और उसको परामर्शदाता देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल की व्यवस्था है, जिसका मुखिया मुख्यमन्त्री होता है। वास्तव में मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि—परिषद् ही राज्य के शासन का संचालन करते हैं। अतः राज्य में राज्यपाल की स्थिति एवं भूमिका वैसी ही है जैसी कि केन्द्र में राष्ट्रपति की है। भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद सम्बन्धी नियुक्ति, शक्तियों तथा कार्यों करा वर्णन संविधान के अनुच्छेद 153 से 160 में किया गया है। इनका इस अध्याय में हम विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है, “प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, परन्तु एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है।”

राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of the Governor) — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार, “राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।” पिछले कई वर्षों से राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में दो परम्पराएँ प्रचलित हैं जिनका प्रायः पालन किया जाता है।

## 7-3- विषय के मुख्य बिंदु (Main Points of Text)

### 7-3-1- राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Governor)

संविधान सभा में, जब राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में वाद—विवाद चल रहा था, तब उस समय राज्यपाल के चुनाव की भी चर्चा हुई। राज्यपाल के पद के सम्बन्ध में

संविधान सभा की 'प्रान्तीय संविधान समिति' (Provincial Constitution Committee) ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का सर्वसाधारण जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए। यह विचार उनकी इस धारणा के अनुकूल था कि प्रत्येक राज्य को संघ की इकाई होने के नाते अधिक-से-अधिक स्वायत्तता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। इस सुझाव के अतिरिक्त संविधान सभा में दो अन्य सुझाव भी दिए गए। प्रथम राज्य विधानमण्डल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन किया जाए। द्वितीय राज्य विधानमण्डल के निम्न सदन विधानसभा द्वारा चार नामों सहित सुझाव दिया जाए जिनमें से राष्ट्रपति द्वारा किसी भी एक को राज्यपाल नियुक्त किया जाए। इन तीनों ही सुझावों को अस्वीकार करते हुए संविधान सभा ने अन्त में यह निर्णय लिया कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी नियुक्ति ही होनी चाहिए। राज्यपाल के चुनाव के विपक्ष में, जो तर्क दिए गए वे इस प्रकार हैं —


1. जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल, संसदीय प्रणाली से मेल नहीं खाता। इससे मन्त्रिमण्डल और राज्यपाल में शक्ति के लिए संघर्ष होगा।

2. यदि राज्यपाल, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो तो वह राजनीतिक रूप से उनका ऋणी होता हुआ सदैव उनके हाथों में कठपुतली बना रहेगा, क्योंकि राज्यपाल का निर्वाचन स्थायी न होते हुए केवल कुछ वर्षों के लिए होगा, इसलिए वह पुनर्निवाचन की आ"गा में मण्डल के बहुसंख्यक दलों को प्रसन्न करने यत्न करता रहेगा।

3. जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल, अपने राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व तो करेगा, परन्तु केन्द्रीय सरकार का नहीं। इस दि"गा में एक निर्वाचित राज्यपाल, संघ तथा राज्य सरकारों में, किसी बात पर मतभेद अथवा वाद-विवाद हो जाने पर केन्द्रीय सरकार का पक्ष नहीं कर सकेगा, न ही उसके हित का रक्षा कर सकेगा।

; क्ष; रक्, | (**Qualifications**) — अनुच्छेद 157 के अन्तर्गत राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्दिष्ट की गई हैं :—

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो।
3. पागल व दिवालिया न हो।
4. उस पर कोई न्यायिक कार्यवाही न हो।



### 7-3-2- राज्यपाल की भावितयाँ तथा कार्य (Powers and Functions of Governor)

भारतीय संविधान के द्वारा राज्यपाल को बहुत व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राज्य में राज्यपाल को लगभग वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्राप्त हैं, जो कि केन्द्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अतः दोनों की शक्तियों को कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत समानता है। संविधान विषेषज्ञ Mh-Mh- C | ॥ (D.D. Basu) के शब्दों में, ‘राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर।’ राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन एवं विलेखन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है –

- 1- dk; ॥ kfylk | EcU/kh भावितयाँ (Executive Powers) – भारतीय संविधा के अनुच्छेद 154 के अनुसार, ‘राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ संविधान द्वारा गवर्नर को प्राप्त हैं जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से करता है या संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करता है।’ संविधान के अनुच्छेद 166 में कहा गया है कि

राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होंगे। अतः राज्यपाल ही राज्य की कायरपालिका का प्रधान होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य की ओर से किए जाने वाले सभी कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। अतः वह उन समस्त विषयों पर शासन का संचालन करता है जिनके सम्बन्ध में राज्य के विधानमण्डल को कानून बनाने का अधिकार है।

2- **वैधानिक भावितयाँ (Legislative Powers)** – राज्यपाल की वैधानिक शक्तियाँ निम्नलिखित हैं –

d- विधानसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है, परन्तु राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 के भाग (2) के अन्तर्गत उसे पाँच वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। राज्यपाल के लिए यह आव”यक है कि वह वर्ष में कम—से—कम एक अधिवेशन अव”य बुलाए। राज्यपाल को विधानसभा के एक अधिवेशन की समाप्ति के दिन से छह मास के अन्दर—अन्दर दूसरा अधिवेशन अव”य बुलाना चाहिए।

[k- राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह आम चुनाव के बाद विधानपालिका का अधिवेशन बुलाए और उसके सामने नीति तथा भावी कार्यक्रम का वर्णन करें। इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष विधानमण्डल के प्रथम अधिवेशन में ऐसा भाषण देने का अधिकार है।

X- राज्य विधानमण्डल जो बिल पास करता है, वह राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस अनुमति के पश्चात् वह एकट बनता है तथा कानून के रूप में लागू किया जाता है। राज्यपाल कसी भी बिल को अपनी सिफारिश के साथ विधानमण्डल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परन्तु दूसरी बार विधानमण्डल जिस भी रूप में उसे स्वीकार करके राज्यपाल के पास भेज दे तो उसे अनुमति देनी पड़ती है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल कुछ बिलों को राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए भेज सकता है। लेकिन विधानपालिका द्वारा पास बिल जो प्रान्तीय उच्च न्यायालय की शक्तियों से सम्बन्धित हो। धन बिल जिस भी रूप में विधानमण्डल द्वारा पास किए जाते हैं, उसी रूप में राज्यपाल उनको अनुमति देता है। वह उन्हें पुनर्विचार के लिए विधानमण्डल को लौटा नहीं सकता।

?k- जिन राज्यों में द्वि—सदनात्मक विधानपालिका है, वहाँ ऊपरी सदन (विधान—परिषद) के कुछ सदस्यों को राज्यपाल सामाजिक सेवाओं और योग्यताओं के

आधार पर मनोनीत करता है। अनुच्छेद 171 (5) के अनुसार यदि राज्य में ऐंग्लो-इण्डियन को विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सका हो, तो उनके कुछ व्यक्तियों को राज्यपाल विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है।

M- जब राज्य के विधानमण्डल का अधिवेशन न हो रहा हो, तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश कार्यालय कर सकता है। इस अध्यादेश की वही स्थिति होती है जो कि विधानमण्डल द्वारा पास किए हुए कानूनों की होती है, परन्तु इसकी अवधि केवल छः मास होती है। किसी अध्यादेश के लागू किए जाने के पश्चात् जब विधानमण्डल का अधिवेशन हो तो इस अध्यादेश को विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाता है। अगर छः सप्ताह के अन्दर विधानमण्डल उसकी पुष्टि न करे, तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। राज्यपाल साधारण समय में अपने इस अधिकार का प्रयोग मन्त्री-परिषद् की सलाह से करता है। अतः विधानमण्डल में उसको प्रायः स्वीकृति मिल जाती है, क्योंकि वहाँ मन्त्री-परिषद् को बहुमत प्राप्त होता है।

3- **वित्तीय भावितयाँ (Financial Powers)** — राज्यपाल को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं —

d- राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता अर्थात् विधानसभा से धन की माँग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जा सकती है।

ख. वार्षिक बजट राज्यपाल वित्त मन्त्री द्वारा विधानसभा में पेश करवाता है। कोई भी अनुदान की माँग (demand for grant) बजट में बिना राज्यपाल की आज्ञा के प्रस्तुत नहीं हो सकती।

ग. राज्य की आकस्मिक निधि (contingency fund of the state) पर राज्यपाल का ही नियन्त्रण है। यदि संकट के समय आवश्यकता पड़े तो राज्यपाल इसमें से आवश्यकतानुसार व्यय कर लेता है तथा उनके पश्चात् राज्य विधानमण्डल से उस व्यय की स्वीकृति ले लेता है।

4- **न्यायिक भावितयाँ (Judicial Powers)** — राज्यपाल को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं —

d- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है।

- ख. जिला न्यायधी”गों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल ही करता है।
- ग. राज्यपाल यह भी देखता है कि किसी न्यायालय के पास अधिक कार्य तो नहीं है, यदि है, तो वह आव”यकतानुसार अधिक न्यायधी”गों को नियुक्त करता है।
- घ. राज्यपाल उस अपराधी के दण्ड को क्षमा कर सकता है, घटा सकता है तथा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, जिसे राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध करने पर दण्ड मिला हो। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के निम्नलिखित रूप हो सकते हैं :—
- 1- **{kek (Pardon)** — किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दिया गया दण्ड पूरी तरह समाप्त हो जाता है तथा वह व्यक्ति सभी दण्ड तथा आरोपों से मुक्त हो जाता है।
  - 2- **y?kpj . k (Commuting)** — इसमें एक प्रकार के दिए गए दण्ड के स्थान पर उससे हल्के दण्ड दिया जाता है; जैसे यदि मृत्यु—दण्ड का निर्वासन, निर्वासन को कठोर कारावास, कठोर कारावास को साधारण कारावास तथा साधारण कारावास को जुर्माने में लघुकरण किया जा सकता है।
  - 3- **i fj gkj (Remission)** — इसके अन्तर्गत दण्डादें”। की प्रकृति को बदले बिना उसे कम किया जा सकता है; जैसे कारावास को ही कम समय का कारावास कर दिया जाए। उदाहरण के लिए 10 वर्ष के कारावास को एक वर्ष का कारावास कर दिया जाए।
  - 4- **j kgf (Respite)** — इसके अन्तर्गत किसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए दण्ड की किसी कार्रवाई को समाप्त कर देना अथवा कम कड़े दण्ड का आदें”। देना। उदाहरण के लिए अपराधी गर्भवती स्त्री का दण्ड कम करना।
  - 5- **i fr yEcu (Rerieve)** — इसका अर्थ है — किसी परिस्थिति के कारण अपराधी को दिए गए दण्ड को पालन करने से रोकना। यह केवल दण्ड के पालन करने में विलम्ब करने के लिए किया जाता है। वह इस अधिकार का प्रयोग उन विषयों में नहीं कर सकता जो संघ सरकार की न्यायपालिका के अधीन हो।
  - 5- **LoſPNd vf/kdkj (Discretionary Powers)** — कुछ राज्यों के राज्यपालों को स्वैच्छिक अधिकार भी दिए गए हैं; जैसे —

d. आसाम के राज्यपाल को अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध के विषय में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन का अधिकार है।


ख. सिकिम के राज्यपाल को सिकिम राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने एवं समस्त वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विषेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

ग. संघीय सरकार समय – समय पर राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार के निर्देश भेजती रहती है। इनका पालन न करने पर राज्यपाल राज्य सरकार के विरुद्ध रिपोर्ट संघीय सरकार को भेज सकता है।

घ. राज्यपाल समय-समय पर अपने मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रि-परिषद् को परामर्श, प्रोत्साहन एवं चेतावनी दे सकता है। इस शक्ति का प्रयोग करते समय उसे किसी की सलाह नहीं लेनी पड़ती।

ङ. राज्यपाल राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। इस शक्ति का प्रयोग भी वह स्वेच्छा से करता है।

च. यदि कोई निर्णय एक मन्त्री अथवा मुख्यमन्त्री ने अपने-आप से लिया हो तो राज्यपाल ऐसे निर्णय को सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल के सामने रखने के लिए मुख्यमन्त्री को कह सकता है।



7-4- i kB ds vkxs dk eq[; Hkkx (**Further main body of the text**)

#### 7-4-1- मुख्यमन्त्री की शक्तियाँ और कार्य (**Powers and Functions of Chief Minister**)

मुख्यमन्त्री के कार्य बहुत विस्तृत हैं, उसकी शक्तियाँ भी बहुत विस्तृत हैं और इसी कारण उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में उसकी स्थिति लगभग वैसी ही होती है, जैसी कि प्रधानमन्त्री की केन्द्र में। मुख्यमन्त्री राज्य में लगभग सर्वसर्व ही होता है। यद्यपि बहुत कुछ मुख्यमन्त्री के अपने व्यक्तित्व पर निर्भर है, अर्थात् वह कितना बड़ा नेता है, उसकी पार्टी का बहुमत कितना है, पार्टी के अन्दर उसका कैसा स्थान है, पार्टी में कितना संगठन तथा अनु”ासन है, इन सब बातों का उसकी स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ता है, तथापि मुख्यमन्त्री के पद में भी इतनी महानता कि कोई भी व्यक्ति जो इस पद को ग्रहण करता है, महान् प्रभाव और शक्तियों का अधिकारी बन जाता है और इस पर यदि उसका व्यक्तित्व भी प्रभाव”ाली हो तो सोने पर सुहागे का कार्य करता है।

1- मन्त्रि-परिषद् का मुखिया (Head of the Council of Ministers) – मुख्यमन्त्री अपनी मन्त्रि-परिषद् का नेता होता है और मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल उसी की सिफारिं”I पर करता है। वही उनमें शासन के विभागों का बैंटवारा करता है। अनुच्छे 163 (1) तथा 164 (1) में इसके इन कार्यों का स्पष्ट वर्णन है। वह जब चाहे उनके विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। यदि कोई मन्त्री उसे सहयोग न दे तो वह उससे त्याग-पत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल से सिफारिं”I करके उसे अपदस्थ करवा सकता है। वह मन्त्रि-परिषद् की बैठकें बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है। प्रान्तीय मन्त्रि-परिषद् की रचना, संगठन एवं कार्य कु”लता मुख्यमन्त्री पर ही निर्भर करती है।

2- efl=; kq dks in ls gVku (Removal of Ministers) – संविधान के अनुसार मन्त्री राज्यपाल की इच्छा-पर्यन्त अपने पद पर रहते हैं, परन्तु व्यवहार में वे उतने समय तक पद पर रहते हैं जब तक वे मुख्यमन्त्री के वि”वास-पात्र रहते हैं। मुख्यमन्त्री तथा किसी अन्य मन्त्री के बीच मतभेद होने पर मन्त्री को अपना त्याग-पत्र देना पड़ता है। यदि कोई मन्त्री अपना त्याग-पत्र देने से इन्कार करता है तो मुख्यमन्त्री राज्यपाल से कहकर उसको पद से हटवा सकता है। उदाहरणस्वरूप, पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री सरदार प्रताप सिंह ‘कौरों’ ने राव वीरेन्द्र सिंह को राज्यपाल से कहकर मन्त्री-पद से हटवाया था। जून, 1983 को हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री भजनलाल ने दो

मन्त्रियों श्री लछमन सिंह तथा श्री फूलचन्द को राज्यपाल से कहकर पदच्युत (Dismiss) करवाया था। इसी तरह 17 मई, 2003 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने राज्य-मन्त्री अमरमणि त्रिपाठी को बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के कारण मन्त्रिमण्डल से बर्खास्त कर दिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि ऐसे विषयों पर मुख्यमन्त्री का संकेत ही काफी होता है।

3- *f0Hkkxk dk c;Vokj k* (Distribution of Portfolios) – मुख्यमन्त्री ही मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों में विभागों का बैटवारा करता है। इस काम में कई बार मुख्यमन्त्री को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक ही समय में कई मन्त्री एक ही विभाग को लेना चाहते हैं। यद्यपि अन्तिम रूप में होता वही है, जो मुख्यमन्त्री चाहता है, अतः ऐसी स्थिति में मुख्यमन्त्री को बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है कि कहीं उसके दल में फूट न पड़े।

4- **मन्त्रि-परिशद् का पुनर्गठन** (Re-organization of the Council of Ministers) – मुख्यमन्त्री वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया है, इसलिए प्र”ासन के संयुक्त उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए मुख्यमन्त्री मन्त्रि-परिषद् में प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। यदि कोई मन्त्री मुख्यमन्त्री की नीति से सहमत नहीं है तो मुख्यमन्त्री उसको त्याग-पत्र देने के लिए कह सकता है। यदि कोई मन्त्री त्याग-पत्र देने से इन्कार करता है तो मुख्यमन्त्री उसको राज्यपाल द्वारा अपदस्थ (Dismiss) करवा सकता है।

5- *jKT; iky dk ej[; I ykgdkj* (Chief Advisor to the Governor) – मुख्यमन्त्री राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है और वह प्र”ासन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिदिन सलाह देता है। राज्यपाल साधारणतः मुख्यमन्त्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। यदि राज्यपाल ऐसा न करे तो मुख्यमन्त्री त्याग-पत्र दे सकता है, जिसके प”चात् राज्यपाल को बहुमत वाला मन्त्रिमण्डल बनाना कठिन हो जाता है।

6- **राज्यपाल और मन्त्रि-परिशद् के बीच मुख्य कड़ी** (Main link between Council of Ministers and the Governor) – मन्त्रि-परिषद् तथा राज्यपाल के मध्य मुख्यमन्त्री प्रमुख कड़ी है। वह ही राज्यपाल को मन्त्रि-परिषद् के निर्णयों के बारे में सूचित करता है और राज्यपाल के विचार मन्त्रि-परिषद् के सामने रखता है। उसकी आज्ञा के बिना कोई मन्त्री राज्यपाल को अपने विभाग सम्बन्धी कार्य के लिए नहीं मिल सकता।

7- og fo/kkuLkHkk dk usrk gkrk gs (He is the Leader of the Legislative Assembly) – द्वि सदनीय विधानमण्डल वाले राज्यों में भी विधानमण्डल की सारी शक्ति वास्तव में विधानसभा में केन्द्रित होती है ओर उसमें बहुमत का नेता होने के नाते मुख्यमन्त्री सदन का भी नेता माना जाता है। दूसरे सदन अर्थात् विधान-परिषद् के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। अतः मुख्यमन्त्री अपने प्रभाव से जो भी चाहे विधानमण्डल से पास करवा लेता है। वह सरकार की मुख्य नीति की घोषणा करता है और उसके परामर्श से विधानमण्डल का अधिवेशन बुलाया जाता है ओर उसका कार्यक्रम निर्वाचित किया जाता है।

8- fo/kkul Hkk को भंग करने की भावित (The Power to get the state legislative assembly dissolved) – प्रान्तीय विधानसभा को कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग करने का अधिकार संवैधानिक रूप से राज्यपाल को प्राप्त है, परन्तु राज्यपाल साधारणतः अपनी इस शक्ति का प्रयोग मुख्यमन्त्री की सलाह से ही करता है। मुख्यमन्त्री स्वयं त्याग-पत्र देकर भी राज्यपाल को विधानसभा भंग अथवा स्थागित करने पर बाध्य कर सकता है।


9- efl=e. My dh cBdkh dh v/; {krk djuk (To Preside over the meetings of the Cabinet) – मुख्यमन्त्री को ही मन्त्रिमण्डल की बैठकें बुलाने, उनका कार्यक्रम तैयार करने तथा उनकी अध्यक्षता करने का अधिकार है। मन्त्रिमण्डल की बैठकों में निर्णय भी प्रायः उसी की इच्छानुसार होते हैं। जनता तथा विधानसभा के सामने इन निर्णयों की घोषणा मुख्यमन्त्री ही करता है।

10- fofHklu foHkkxk; ei; | ello; (Co-ordination among different Departments) – शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल होना आवश्यक है, क्योंकि एक विभाग की नीतियों का दूसरे विभाग पर अवश्यक प्रभाव पड़ता है। यह तालमेल मुख्यमन्त्री द्वारा ही स्थापित किया जाता है। मुख्यमन्त्री विभिन्न विभागों की देखभाल करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि किसी विभाग की नीति का किसी दूसरे विभाग पर बुरा प्रभाव न पड़े।

11- ny dk usrk (Leader of the Party) – मुख्यमन्त्री राज्य में अपनी पार्टी का नेता होता है। पार्टी की लोकप्रियता एवं चुनावों में सफलता मुख्यमन्त्री द्वारा अपनाई गई नीतियों पर निर्भर करती है। चुनाव के समय पार्टी की टिकटों को बॉटने में मुख्यमन्त्री की

भूमिका महत्वपूर्ण होती है और वह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की सफलता के लिए सार्वजनिक सभाओं में भाषण देता है तथा पार्टी प्रचार के साधन अपनाता है।

12- egRoiwl i nkij fu; fDr; | (Appointment to Important posts) – राज्य में महत्वपूर्ण पदों—लोक सेवा आयोग तथा अन्य आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य, महाधिकरणों आदि पदों पर नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। वह इन पदों पर नियुक्तियाँ मुख्यमन्त्री की सिफारिश पर ही करता है। अतः इन नियुक्तियों के मामले में उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है।



#### 7-4-2- eq[; eU=h dh fLFkfr (Position of the Chief Minister)

मुख्यमन्त्री की शक्तियों व अधिकारों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसको राज्य के प्रासाद में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। वह मन्त्रि-परिषद् का निर्माण करता है तथा अपनी इच्छानुसार जिस मन्त्री को चाहे हटा सकता है। वह राज्यपाल का मुख्य सलाहकार है। वह राज्यपाल और मन्त्रिमण्डल के बीच कड़ी का काम करता है। मुख्यमन्त्री के त्याग-पत्र देने का अर्थ समस्त मन्त्रि-परिषद् का त्याग-पत्र होता है। वह राज्य विधानसभा का नेता भी होता है तथा विधानसभा को जब चाहे भंग करवा सकता है। परन्तु

इतना होते हुए भी उसकी वास्तविक स्थिति काफी हद तक परिस्थितियों तथा उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है।

वास्तव में मुख्यमन्त्री की स्थिति अनेक बातों पर निर्भर करती है, जिसमें मुख्य निम्नलिखित हैं :—

1- dññi ei nyh; fLFkfr (Party Position in Centre) — केन्द्र में यदि शासक दल वही है जो प्रान्त में है तो मुख्यमन्त्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि केन्द्र में शासक दल की स्थिति क्या है ? जब श्रीमती इन्दिरा गाँधी प्रथम बार प्रधानमन्त्री बनीं, तो मुख्यमन्त्रियों ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी को प्रधानमन्त्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी कारण मुख्यमन्त्रियों को 'किंग मेकर्स' कहा जाने लगा, परन्तु 1971 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गाँधी को भारी बहुमत प्राप्त होने के कारण मुख्यमन्त्रियों की स्थिति कमजोर पड़ गई थी। मई 1991 में श्री राजीव गाँधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस (आई) हाई कमान की स्थिति मजबूत हो गई थी।

2- fo/kkul Hkk ei e[; eU=h dk fLFkfr (Position of Chief Minister in Legislative Assembly) — यदि मुख्यमन्त्री उस दल का नेता है, जिसे विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, तब उसकी स्थिति उस मुख्यमन्त्री की स्थिति से "शक्ति" आली होगी, जो कि मिले-जुले दलों के मन्त्रिमण्डल का नेता है।

3- gkbz deku vkj i /kkuell=h dk | j{k.k (Protection from High Command and Chief Minister) — जिस मुख्यमन्त्री को हाई कमान और प्रधानमन्त्री का संरक्षण प्राप्त हो, उस मुख्यमन्त्री की स्थिति "शक्ति" आली होती है और वह विधानसभा में गुटबन्दी उत्पन्न नहीं होने देता।

4- e[; eU=h , o[ jkT; i ky ds 0; fDr dk vuq kr (Personality proportion of Chief Minister and Governor) — मुख्यमन्त्री की स्थिति उसके अपने व्यक्तित्व तथा राज्यपाल के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। यदि राज्यपाल कमजोर व्यक्तित्व वाला है, तो मुख्यमन्त्रियों की स्थिति मजबूत हो जाती है, परन्तु इसके विपरीत यदि राज्यपाल का व्यक्तित्व "प्रभाव" आली है तब वह अवसर मिलते ही मुख्यमन्त्री को नीचा दिखा सकता है।

7-5- vi uhi i xfr tkpi (Check your progress)

नीचे कुछ प्र"न दिए गए हैं, आपने उनका उत्तर देना है :—

- (i) राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है ?
- (ii) राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ?
- (iii) मुख्यमन्त्री की नियुक्ति कौन करता है ?
- (iv) राज्य में वास्तविक कार्यपालक कौन है ?
- (v) मन्त्रियों में विभागों का बंटवारा कौन करता है ?
- (vi) राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए ?

#### 7-6- । क्षमा (Summary)

ऊपर दिए गए अध्याय का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि राज्य का प्रभासन राज्य सचिवालय के द्वारा चलाया जाता है। परन्तु नितियों का निर्माण विधानपालिका के द्वारा किया जाता है और इन नीतियों को लागू करने का कार्य सचिवालय के द्वारा किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सचिवालय तथा विधायिका एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।

राज्य में राज्यपाल तो केवल नाममात्र का कार्यपाल होता है, वास्तविकता में कार्यपालक तो राज्य में मुख्यमन्त्री तथा उसकी मन्त्रिपरिषद् होती है क्योंकि कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग वास्तविकता में मुख्यमन्त्री के द्वारा ही किया जाता है अधिनियमों या प्रस्तावों को पास करके विधायिका राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजती है और उस प्रस्ताव पर राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी आवश्यक होती है। राज्यपाल प्रस्ताव को एक बार पुनर्विचार के लिए विधायिका को भेज सकता है, परन्तु जब विधायिका उस प्रस्ताव को ज्यों का त्यों भे दे तो राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी पड़ती है इसलिए हम मुख्यमन्त्री तथा उसकी मन्त्रिपरिषद् को वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं।

मुख्यमन्त्री अपने सारे कार्य मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर करता है, मुख्यमन्त्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसी विधानपालिका में बहुमत प्राप्त हो यदि मुख्यमन्त्री के पास अपने विधायिकों का बहुमत नहीं है तो उसे अपनी विधानसभा भंग करनी पड़ती है। राज्य प्रभासन में सभी विकास कार्य और नितियों को राज्यपाल की अनुमति के बाद ही लागू किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य एक प्रभासन राज्यपाल है और मुख्यमन्त्री के सहयोग से चलता है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं इनमें से दोनों अलग-अलग विचारधारा से कार्य नहीं कर सकते। सभी कार्य और प्रस्तावों को पास करने के लिए दोनों का आपसी सहयोग अनिवार्य है।

## 7-7- सूचक भाब्द (Key Words)

dfUng; | fpoky; & केन्द्रिय सचिवालय, अधीनियम, विधेयक, आयातकाल, संवैधानिक मुखिया, वास्तविक कार्यपालक

Vf/kfu; e & जब भी कोई प्रस्ताव संसद या विधायिका में वाद-विवाद के लिए रखा जाता है तो और उस पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति मिल जाती है तो उसे अधीनियम कहते हैं।

fo/k; d & जब कोई प्रस्ताव विधायिका में वाद-विवाद के लिए रखा जाता है तो उसे विधेयक कहते हैं।

Vki krdky & दे”T में ऐसी स्थिति जिसमें दे”T का प्र”ासन तथा राजनीति गड़बड़ा जाए तो उसे आपातकाल कहते हैं।

I vYkkfud ef[k; k & संवैधानिक के अनुसार जिसे दे”T का प्रथम व्यक्ति माना जाता है जिसके नाम पर सभी कार्य होते हैं उसे संवैधानिक मुख्या कहा जाता है।

okLrfod dk; lky & वह व्यक्ति जो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है उसे वास्तविक कार्यपालक कहा जाता है।

## 7-8- Lo; a eW; kdu gsw i t”u (Self Assessment Questions)

- Q.1. केन्द्रिय सचिवालय तथा राज्य सचिवालय में अंतर दर्ताएं।
- Q.2. राज्यपाल की नियुक्ति व कार्यों की चर्चा करें।
- Q.3. मुख्यमन्त्री के निर्वाचन व कार्यों का विवरण।
- Q.4. मुख्यमन्त्री की स्थिति की चर्चा करें।
- Q.5. मुख्यमन्त्री की शक्तियों की व्याख्या करें।

## 7-9- vi uh i xfr dh tkp djus ds fy, mUkj (Answer check your progress)

- |   |   |
|---|---|
| (i) अनुच्छेद 153 में  | (ii) प्रधामन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति |
| (iii) राज्यपाल  | (iv) मुख्यमन्त्री                       |
| (v) राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह पर                          |   |
| (vi) राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु सिमा होनी चाहिए |   |

## 7-10- | UnHkz xJFk@funF"kr iLrdı (References/Suggested Reading)

1. Public Administration, McGraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. प्रा॑सानिक चिंतक; प्रसाद एण्ड प्रसाद सत्यनारायण; जवाहर पब्लिकेन्स एण्ड डिस्ट्रीब्यून।

<b>Subject : jktuhfrd foKku</b>	
Course Code : <b>BA101</b>	Author : <b>Dr. Deepak</b>
Lesson No. : <b>8</b>	Vetter :
U; k; i kfyd& l okPp U; k; ky; ] mPp U; k; ky; vks U; kf; d l fØ; rk	

---

व्यक्ति & अधिकारों की सम्बन्धितता विषय का विवरण करता है। इसके मुख्य उल्लेखनों में निम्नलिखित हैं:

---

- 8-1 व्यक्ति के लक्षणों (Learning Objectives)
- 8-2 व्यक्ति का विवरण (Introduction)
- 8-3 व्यक्ति के मुख्य उल्लेखन (Main Points of Text)
  - 8-3-1 अधिकारों का विवरण (Composition of the Supreme Court)
  - 8-3-2 अधिकारों का नियन्त्रण (Appointment of Judges)
  - 8-3-3 अधिकारों की विशेषताएँ (Importance of Supreme Court in a Federal State)
  - 8-3-4 अधिकारों की विशेषताएँ (Role and Jurisdiction of the Supreme Court)
  - 8-3-5 अधिकारों की विशेषताएँ (High Court)
  - 8-3-6 उच्च न्यायालय की विशेषताएँ (Powers of the High Court)
- 8-4 व्यक्ति के अन्य उल्लेखन (Further main body of the text)
  - 8-4-1 जुरियल रिव्यू (Judicial Review in India)
  - 8-4-2 जुरियल रिव्यू का आधार (Basis of Judicial Review in India)
  - 8-4-3 जुरियल रिव्यू का उपयोग (Utility of Judicial Review)
  - 8-4-4 लोकपाल और लोकयुक्ता का विवरण (The Salient Features of the Lokpal and Lokayuktas Act (2013))
  - 8-4-5 अधिकारों की विशेषताएँ (Supreme Court and its Composition)
- 8-5 अपने अपने अवाद्य का नियन्त्रण (Check your progress)
- 8-6 व्यक्ति का सारांश (Summary)
- 8-7 सूचक भाष्ट (Key Words)
- 8-8 अपने अपने अवाद्य का नियन्त्रण (Self Assessment Questions)
- 8-9 अपने अपने अवाद्य का नियन्त्रण (Answer check your progress)
- 8-10 अपने अपने अवाद्य का नियन्त्रण (References/Suggested Reading)

## 8-1 विषयों; (**Learning Objectives**)

इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे :—

- सर्वोच्च न्यायालय की रचना का अध्ययन
- सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों का अध्ययन
- उच्च न्यायालयों की रचना का अध्ययन
- उच्च न्यायालयों के कार्यों का अध्ययन
- न्यायिक पुनर्निरक्षण का अध्ययन

## 8-2- इलेक्ट्रॉनिक (Introduction)

लोकतान्त्रिक राज्य में स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायालय का अत्याधिक महत्व होता है। भारत में संघीय शासन-प्रणाली होने के कारण न्यायपालिका का महत्व और भी अधिक है। ऐसी शासन-प्रणाली के अधीन शासन की शक्तियों का केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, उनके सम्बन्ध में कानून बनाने तथा प्रशासन चलाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथों में होता है और स्थानीय विषयों का प्रबन्ध संघ की इकाइयों (राज्यों) के हाथों में सौंप दिया जाता है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच संविधान की व्याख्या तथा केन्द्र व राज्यों के सम्बन्ध में झगड़े की सम्भावना बनी रहती हैं, जिनका निपटारा करने के लिए एक निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है, जिनकी रक्षा करने अर्थात् उन्हें किसी व्यक्ति अथवा सरकार द्वारा अतिक्रमण से बचाने के लिए भी न्यायपालिका की स्थपना आवश्यक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुसार एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की गई है। जी. आस्टिन के शब्दों में, “उच्चतम न्यायालय को नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का कार्य सौंपकर वस्तुतः ‘सामाजिक क्रान्ति के संरक्षक’ (Guardian of the Revolution) का भार सौंप गया है। यह सामाजिक तथा व्यक्तिगत हित के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। यह

दे”। का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे दे”। की साधारण विधियों की व्याख्या के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। यह सिविल और फौजदारी के मुकद्दमों का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है।

### 8-3- व्याख्या की सम्पूर्ण विधियों की व्याख्या के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार प्राप्त है। यह सिविल और फौजदारी के मुकद्दमों का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है।

#### 8-3-1- लोकप्रतिष्ठित अधिकारों की संसद द्वारा नियुक्ति (Composition of the Supreme Court)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रारम्भ में एक मुख्य न्यायाधी”। और 7 अन्य न्यायाधी”। होते थे। 1957 में संसद में एक कानून पास हुआ, जिसके अनुसार मुख्य न्यायाधी”। को छोड़कर बाकी न्यायाधी”।ों की संख्या 7 से 10 कर दी गई। सन् 1960 में संसद ने अन्य न्यायाधी”।ों की संख्या 10 से बढ़ाकर 13 कर दी, परन्तु दिसम्बर, 1977 में संसद ने एक कानून पास किया, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधी”।ों की अधिकतम संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। अप्रैल, 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधी”।ों की संख्या 17 से 25 कर दी गई। 21 फरवरी, 2008 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के निर्णयानुसार उच्चतम न्यायालय (न्यायाधी”।ों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संगठन कर न्यायाधी”।ों की संख्या की 25 से 30 कर दी गई। इस प्रकार अब एक मुख्य न्यायाधी”। एवं 30 अन्य न्यायाधी”।ों के साथ कुल न्यायाधी”।ों की संख्या 31 हो गई है। वर्तमान में श्री दीपक मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी”। हैं जिन्होंने श्री जगदी”। सिंह खेहर के 27 अगस्त, 2017 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् 28 अगस्त, 2017 को 45वें मुख्य न्यायाधी”। के रूप में अपना कार्यभार संभाला। मुख्य न्यायाधी”। के रूप में न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा का कार्यकाल 2 अक्टूबर, 2018 तक रहेगा।

सर्वोच्च न्यायालय में काम की अधिकता होने पर तदर्थ न्यायाधी”।ों (Adhoc Judges) की नियुक्ति भी की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधी”।ों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधी”। द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधी”। के रूप में केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधी”। पद पर नियुक्ति की योग्यता रखते हैं। तदर्थ न्यायाधी”।ों (Adhoc Judges) को भी वही वेतन तथा भत्ते मिलते हैं जो अन्य न्यायाधी”।ों को मिलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर किसी सेवा-निवृत्त (Retired) न्यायाधी”। को काम करने के लिए भी कहा जा सकता है।

#### 8-3-2- लोकप्रतिष्ठित अधिकारों की संसद द्वारा नियुक्ति (Appointment of Judges)

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधी”। और अन्य न्यायाधी”ों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परन्तु ऐसा करते समय राष्ट्रपति केवल स्वेच्छा से काम नहीं लेता। संविधान के अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधी”। के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायाधी”ों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधी”ों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधी”। से परामर्श अवश्य लेगा। इस बात को लेकर विवाद था कि क्या राष्ट्रपति अकेले मुख्य न्यायाधी”। के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। इस विवाद के समाधान के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक सन्दर्भ जुलाई, 1998 में उच्चतम न्यायालय को भेजा गया। इस सन्दर्भ पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 28 अक्टूबर, 1998 को दिए गए निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधी”ों की नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी”। से प्राप्त परामर्श के आधार पर होगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी”। द्वारा इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व ‘चार वरिष्ठतम न्यायाधी”ों के समूह’ से परामर्श किया जाएगा और इसी परामर्श के आधार पर मुख्य न्यायाधी”। राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा है कि, “वरिष्ठतम न्यायाधी”ों के समूह को एक मत से सिफारिश करनी चाहिए। जब तक न्यायाधी”ों के समूह की राय मुख्य न्यायाधी”। के विचार से मेल नहीं खाए तब तक मुख्य न्यायाधी”। द्वारा राष्ट्रपति को कोई सिफारिश नहीं करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधी”। द्वारा न्यायाधी”ों से सिफारिश लिखित रूप में ली जानी चाहिए।”

॥१॥ /kh”kks dh ; kX; rk, j (**Qualification of the judges**) – संविधान के अनुच्छेद 124 (3) में न्यायाधी”। के रूप में नियुक्ति की योग्यताएं निर्धारित की गई है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधी”। के रूप में नियुक्ति के लिए तभी योग्य होगा जब वह निम्नलिखित योग्यताएँ पूर्ण करेगा –

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधी”। रह चुका हो।

अथवा

वह किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट रह चुका हो।

## अथवा

वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई प्रसिद्ध विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) हो।

॥; /kh"kkः dh vof/k (**Tenure of the judges**) – उच्चतम न्यायालय के न्यायधी”। 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। 65 वर्ष की आयु के प”चात् उन्हें पद से अवका”। दिया जाता है। संसद न्यायधी”ों की अवका”।-प्राप्ति की आयु बढ़ा भी सकती है। रिटायर होने के प”चात् उन्हें पें”न (Pension) दी जाती है। इससे पहले भी वे स्वयं त्याग—पत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति उन्हें अपनी स्वेच्छा से नहीं हटा सकता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधी”ों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु या निर्दिष्ट नहीं की गई है।

॥; /kh"kkः dk gVk; k tkuk (**Removal of Judges**) – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (4) तथा न्यायधी”। जाँच अधिनियम, 1968 के संयुक्त प्रभाव के अनुसार न्यायधी”। को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार न्यायधी”। को दो आधारों – साबित कदाचारएवं अयोग्यता / असमर्थता (Proved Misbehaviour or Incapacity) के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। इसके अनुसार लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को सम्बन्धित एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। इस प्रस्ताव की जाँच—पड़ताल तीन व्यक्तियों की समिति द्वारा की जाती है। इस समिति में दो उच्चतम न्यायालय के न्यायधी”। एवं एक अन्य प्रसिद्ध विधिवेता होता है। यदि यह समिति न्यायधी”। के विरुद्ध लगाए गए दोषों को सही मानती है तो इस समिति के प्रतिवेदन के साथ सम्बन्धित सदन में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। यदि ऐसा प्रस्ताव प्रत्येक सदन लोकसभा एवं राज्यसभा में उस सदन की कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों की दो—तिहाई बहुमत संख्या से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्वीकृति या हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। तत्प”चात् राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पर स्वीकृति या आदे”। करने से न्यायधी”। को पद से मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संसद द्वारा किसी न्यायधी”। के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए बिना राष्ट्रपति किसी न्यायधी”। को पद से हटाने सम्बन्धी आदे”। जारी नहीं कर सकता। आज तक स्वतन्त्र भारत के इतिहास में न्यायधी”। जी० रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग का प्रस्ताव (10 व 11 मई, 1992) लाया गया था जो संसद में

आव”यक बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो पाया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधी”ों को हटाने का इतना कठिन तरीका इसलिए अपनाया गया है ताकि न्यायधी”। निष्पक्षता से और निभर होकर कार्य कर सकें।

**SALARY AND ALLOWANCES** – सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधी”। को 2,80,000 रुपए मासिक तथा अन्य न्यायधी”ों को 2,50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। उन्हें रहने के लिए निः”जुल्क मकान मिलता है तथा कुछ भत्ते भी मिलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधी”ों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) से मिलते हैं जो संसद के मतदान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। उनके कार्यकाल में उनके वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं में कमी नहीं की जा सकती, परन्तु अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत वित्तीय संकट की घोषणा के बाद राष्ट्रपति उनके वेतन में कमी करने का आदे”। दे सकता है।

**PROHIBITION OF PRACTICE AFTER RETIREMENT** – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधी”ों पर रिटायर होने के बाद वकालत करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ताकि वे बाद में वकालत करते समय अपने सहयोगी न्यायधी”ों को प्रभावित न कर सकें। इसका अर्थ यह नहीं है कि रिटायर न्यायधी”ों से कोई कार्य नहीं लिया जा सकता। उन्हें विषेष कार्य सौंपा जा सकता है। जैसे किसी आयोग में नियुक्ति की जा सकती है या फिर किसी दे”। में राजदूत बनाकर भेज जा सकता है या और किसी पद पर नियुक्ति की जा सकती है।

**SEPARATE ESTABLISHMENT** – संविधान के अनुच्छेद 146 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अलग व्यवस्था है। उसके अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी सेवा-व्यवस्था से सम्बन्धित नियम तथा शर्ते सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधी”। नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के प्रासादीय खर्च दे”। की संचित निधि से खर्च किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय संसद अथवा किसी अन्य संस्था के नियंत्रण से मुक्त है और इसकी स्वतन्त्रता सुरक्षित है।

**PAD AND OATH AND SECRECY OF OFFICE** – प्रत्येक वह व्यक्ति, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधी”। अथवा अन्य न्यायधी”ों के पद पर नियुक्त किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 124 (6) के अनुसार अपना पद ग्रहण

करने के समय राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के सामने शपथ लेता है, जो इस प्रकार है – “मैं ..... (नाम) ..... जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधी”। (अथवा न्यायधी”) नियुक्त हुआ हूँ ई” वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मक्के विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा हर प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा।”

| okPp U; k; ky; dñ fu. k; (Decisions of the Supreme Court) – किसी विषय से सम्बन्धित राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देने के लिए 5 न्यायधींों की खण्डपीठ (मुकदमे की सुनवाई करने वाला न्यायालय) होना अनिवार्य है। शेष मुकदमों में अपील सुनने के लिए वर्तमान नियमों के अनुसार कम से कम न्यायधींों का होना आवश्यक है। सभी मुकदमों का निर्णय मुकदमा सुनने वाले न्यायधींों के बहुमत से किया जाता है। जो न्यायधीं। बहुमत के निर्णय से सहमत नहीं होते, वे अपनी असहमति तथा उसके कारण, निर्णय के साथ लिखवा सकते हैं।

U; k; /kh”kkः dh LorU=rk, i (Immunities of Judges) – न्यायधींों की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए न्यायधींों के सभी न्याय-सम्बन्धी कार्यों तथा निर्णयों को आलोचना से मुक्त रखा गया है। संसद भी किसी न्यायधीं। को हटाने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि न्यायधीं। बिना किसी भय के अपना कर्तव्य निभा सकें। न्यायालय के सम्मान तथा अधिकार को बनाए रखने के लिए तथा इसको आलोचना से मुक्त रखने के लिए, न्यायालय को किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय का अपमान करने के लिए उचित कार्यवाही करने का अधिकारी (Proceeding of Contempt of Court) है।

| okPp U; k; ky; dk LFkku (Place of the Supreme Court) – सर्वोच्च न्यायालय का स्थान नई दिल्ली रखा गया है, परन्तु संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार मुख्य न्यायधीं। राष्ट्रपति के परामर्श पर इसकी बैठक अन्य किसी भी स्थान पर करने का निर्णय कर सकता है।

## 8-3-3- jKT; eI | okPp U; k; ky; dk egUo (Importance of Supreme Court in a Federal State)

वर्तमान में यह एक सर्वमान्य सत्य है कि जब तक एक निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका नहीं होगी तब तक नागरिकों की स्वतन्त्र सुरक्षित नहीं रह सकती है और अच्छा—से—अच्छा प्र”ासन भी सफल नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में बेकन ने ठीक ही कहा है कि विधि की क्रूरता से अधिक क्रूर और कुछ नहीं हो सकता। विधि के इस क्रूरता से नागरिकों की रक्षा करने हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायालय की स्थापना अत्यन्त आव”यक है। चान्सलर केंट ने भी लिखा है, “जहाँ कोई न्यायिक विभाग विधियों की व्याख्या करने एवं नागरिक अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए नहीं होता, वहाँ सरकार अपनी मूर्खता से ही समाप्त हो जाती है।”

भारत में संघीय न्यायपालिका अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय की आव”यकता / महत्ता निम्नलिखित कारणों से हैं –

1. सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम संघीय न्यायालय (Federal Court) भी कह सकते हैं, संघात्मक सरकार का एक आव”यक अंग है। इसका एक मात्र कार्य संविधान की व्याख्या करना तथा संघ और इकाइयों के मध्य अधिकार—संबंधी झगड़ों का समाधान करना है।

2. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय प्र”ासन के तीनों विभागों पर निगरानी रखता है, ताकि एक विभाग दूसरे विभाग की सीमा का अतिक्रमण न कर सके और अपना—अपना कार्य संविधान के अनुरूप करें।

3. संघात्मक शासन के परिणामस्व भारत में सर्वोच्च न्यायालय को कार्यपालिका के कार्यों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त है, यदि यह अंग संविधान के विपरीत कोई आदें”। देने का कार्य करता है।

4. सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारों का भी संरक्षक होता है।

5. सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को भी संवैधानिक मामलों में पराम”र्फ देने का कार्य करता है।

6. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जनतन्त्र का प्रहरी है। यह संविधान के लिखित स्वरूप की व्याख्या कर नागरिक—स्वतन्त्रता का मार्ग प्र”स्त करता है।

8-4- i kB ds vkxs dk eq[; Hkkx (**Further main body of the text**)

8-4-1- I okPp U; k; ky; dk {ks=kf/kdkj , oHkfedk (**Role and Jurisdiction of the Supreme Court**)

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत ही विस्तृत है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर (Alladi Krishna Swami Ayyar) के अनुसार, “भारत के सर्वोच्च न्यायालय को वि”व के सभी संघीय न्यायालयों यहाँ तक कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से भी अधिक विस्तृत अधिकार दिए गए हैं।” सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है –

1- i kj fEHkd {ks=kf/kdkj (Original Jurisdiction) & प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है – वे मुकद्दमे जो उच्चतम न्यायालय के पास सीधे ही लाए जा सकते हैं; उन्हें इससे पहले किसी अन्य न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं। प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार को भी निम्नलिखित दो उपभागों में विभाजित किया जाता है –

d- i kj fEHkd , deo {ks=kf/kdkj (Original Exclusive Jurisdiction) – इसके अन्तर्गत वे विषय समिलित हैं, जिन पर सर्वोच्च न्यायालय का ही एकमात्र क्षेत्राधिकार है और दे”I के किसी भी अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को उन विषयों पर अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 131 संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच न्याय-योग्य विवादों के निर्णय का प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है।

[k- I eorh] i kj fEHkd {ks=kf/kdkj (Concurrent Original Jurisdiction) – इस क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वे विषय आते हैं जिन पर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार प्राप्त है। जैसे भारतीय संविधान में दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व जहाँ अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हैं वहाँ अनुच्छेद 226 के अधीन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी सर्वोच्च न्यायालय की तरह पाँच प्रकार के लेख-बन्दी, प्रत्यक्षीकरण प्रलेख, परमादे”I लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख एवं अधिकारपृच्छा लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है।

2- vi hyh; {ks=kf/kdkj (Appellate Jurisdiction) – सर्वोच्च न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार में ऐसे मुकदमे आते हैं, जिनका आरम्भ निचले न्यायालयों से होता है, परन्तु उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। चूंकि, सर्वोच्च न्यायालय अन्तिम अपीलीय न्यायालय है, इसलिए इसके निर्णय के विरुद्ध किसी भी अन्य

न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी शक्ति की अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के इन क्षेत्राधिकारों को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है –

d- **Constitutional** – संविधान के अनुच्छेद 132 के अन्तर्गत यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमे में संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव उलझा हुआ है, तो उस मुकदमे में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी ऐसी अपील करने की विधि आज्ञा दे सकता है। यदि वह संतुष्ट हो कि मुकदमा इस प्रकार का है (अनुच्छेद 136) और राज्य का उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर दे। इसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक तथा अन्तिम व्याख्याता बन जाता है।

[k- **Civil**] – संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी मामलों में भी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। मूल संविधान के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय में किसी उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिसमें झगड़े की राजीनीति से कम से कम 20 हजार रुपए या इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति हो, परन्तु संविधान के 30वें संशोधन द्वारा धनराजीनीति की इस सीमा को हटा दिया गया है और यह निर्वाचन किया गया है कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी मुकदमों की अपील की जा सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण प्रभाव निहित है।

x- **Criminal** – संविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार फौजदारी मुकदमों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध निम्नलिखित विषयों से सम्बद्ध निर्णयों की सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है –

यदि उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की रिहाई के फैसले को रद्द करके उसे मृत्यु-दण्ड दे दिया गया हो।

#### अथवा

यदि किसी मुकदमे को उच्च न्यायालय ने अपने पास ले लिया हो और उसने उनमें किसी अपराधी को मृत्यु-दण्ड दिया हो।

अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है, तब भी अपील की जा सकती है। ,

?k- fo"श्ट (Special) – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत कहा गया है, “साधारण कानून से भिन्न अपील—संबंधी विशेष अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है।” इसके अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारत—क्षेत्र के अन्तर्गत किसी निर्धारित, दंड या आदें<sup>T</sup> के विरुद्ध अपील सुनने की अनुमति प्रदान कर सकता है। लेकिन, इस असीम शक्ति का एक अपवाद यह है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

3- i j ke"kl & | ECU/kh {ks=kf/kdkj (Advisory Jurisdiction) – संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को परामर्श—सम्बन्धी क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्र०न पर उच्चतम न्यायालय की सलाह ले सकता है। संविधान की व्याख्या, देंगी रियासतों के साथ सन्धियों की व्याख्या आदि विषयों पर भी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से उनके विचार पूछ सकता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। अन्य सरकारी अग, व्यक्ति तथा न्यायालय भी उस परामर्श पर चलने और उसके अनुसार अपने निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं है। अमेरिका में उच्चतम न्यायालय को परामर्श देने के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय न्यायालय के इस अधिकार की कई लेखकों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। आलोचकों का कहना है कि इससे बड़ी विचित्र समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं और उच्चतम न्यायालय के सम्मान तथा प्रतिष्ठा को आघात पहँच सकता है, परन्तु अधिकतर लेखकों ने उच्चतम न्यायालय के परामर्श—सम्बन्धी क्षेत्राधिकार से लाभ की आगा की है।

4- Vflikys[ k U; k; ky; (Court of Record) – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहीयां एवं निर्णय प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं तथा देंगी के समस्त न्यायालयों के लिए यह निर्णय न्यायिक दृष्टांत (Judicial Precedents) के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसी को भी न्यायालय का अपमान (Contempt of Court) करने के दोष में सजा दे सकता है। डॉ० अम्बेडकर के शब्दों में, “अभिलेख न्यायालय वह न्यायालय होता है जिसमें अभिलेखों का साक्ष्य की दृष्टि से मूल्य हो और जब उन्हें किसी न्यायालय में पेंगे”<sup>T</sup> किया जाए, तो उन पर कोई सन्देह न

किया जा सके। सच तो यह है कि अपमान के लिए दण्ड दे सकने की शक्ति ही इस स्थिति का एक आवश्यक परिणाम है।"

5- विस्तृत विवेचन का अधिकार (Power to Review its own Decision) & सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा उन्हें बदलने का अधिकार है। उदाहरणस्वरूप, 'सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य' नामक मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संगोष्ठन कर सकती है। सन् 1967 में गोलकनाथ के मुकद्दमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संगोष्ठन नहीं कर सकती। सन् 1973 में केंद्रवानंद भारती के मुकद्दमे में निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संगोष्ठन कर सकती है, परन्तु संविधान का मूल ढाँचा प्रभावित नहीं होना चाहिए।

#### 8-4-2- मध्यस्थी न्यायालय (High Court)

भारत में एकल न्याय-व्यवस्था है, सबसे ऊँचा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अधीन राज्यों में उच्च न्यायालय पाए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 214 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय (High Court) की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 231 में यह भी कहा गया है कि संसद दो या दो से अधिक राज्यों और केन्द्र-प्रासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। सन् 1966 के पंजाब पुनर्गठन कानून के द्वारा संसद ने पंजाब और हरियाणा राज्यों और चण्डीगढ़ के केन्द्र-प्रासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया, जो चण्डीगढ़ में है। राज्यों के ये उच्च न्यायालय अखिल भारतीय न्याय-व्यवस्था का अंग होते हुए भी अपने आप में स्वतन्त्र इकाइयाँ हैं। उनके ऊपर अपने राज्यों के विधानमण्डल या कार्यपालिका का कोई नियन्त्रण नहीं है। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय स्थित हैं। मार्च, 2013 में मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्य के अलग से उच्च न्यायालय अस्तित्व में आने पर कुल उच्च न्यायालय की संख्या 21 से बढ़कर 24 हुई।

; क्षेत्रीय योग्यताएं तय की गई हैं –

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह भारतीय संघ के किसी भी क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो।

3. दे”। के किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो।

**dk; lky (Tenure)** – उच्च न्यायालय का न्यायाधी”। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर काम करता है। परन्तु वह इससे पूर्व स्वयं अपने पद से त्याग–पत्र देकर अलग हो सकता है। अपनी अवधि के समाप्त होने के प”चात् वह किसी स्थान पर सरकार की स्वीकृति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता।

**inP; f (Removal)** – यदि संसद के दोनों अपने—अपने सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से और सदन की बैठक के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधी”। को सदाचार या अयोग्यता (Misbehaviour or Incapacity) के अपराध में अपराधी ठहराए और इस विषय में राष्ट्रपति को सम्बोधित करे, तो राष्ट्रपति उस न्यायाधी”। को पद से हटा देता है।

**0\\$U (Salary)** – वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी”। को 2,50,000 रुपए तथा अन्य न्यायाधी”ों को 2,25,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त उन्हें कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं। वित्तीय संकटकालीन की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी परिस्थिति में उनके वेतन तथा भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत लागू वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति द्वारा उनके वेतन एवं भत्तों में कमी की जा सकती है। न्यायाधी”ों को वेतन, भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं।

**भापथ (Oath)** – संविधान के अनुच्छेद 219 के अन्तर्गत प्रत्येक न्यायाधी”। को अपना पद ग्रहण करते समय राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त अन्य पदाधिकारी के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है कि वह संविधान में आस्था रखेगा, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा व संविधान तथा कानून की रक्षा करेगा।

#### 8-4-3- उच्च न्यायालय की भावितयाँ (Powers of the High Court)

भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालयों को वही अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं जो कि संविधान लागू होने से पहले पूर्व उच्च न्यायालय को थे। भारतीय संविधान के द्वारा उच्च न्यायालय को कई प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं, जिन्हें तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है –

1- **न्याय सम्बन्धी भावितयाँ (Judicial Powers)** – न्याय सम्बन्धी शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया है –

क. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction)

ख. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)

द- i k j fEHkd {k=kf/kdkj (Original Jurisdiction) – भारत में उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित विषयों पर प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं –

1. नौकाधिकरण (Admiralty) इच्छा–पत्र अर्थात् वसीयत (Probate), विवाह विधि, कम्पनी विधि तथा विवाह–विच्छेद आदि के मुकदमे भी सीधे उच्च न्यायालयों के पास आ सकते हैं। उच्च न्यायालयों के अपमान के विषय में सभी उच्च न्यायालयों को प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

2. उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी रक्षक है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों पर आघात होता है, तो वह नागरिक सीधा सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना–पत्र दे सकता है अथवा उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय कई लेखों (Writ); जैसे बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख (Writ of Habeas Corpus), परमादेदान लेख (Writ of Mandamus), प्रतिषेध लेख (Writ of Prohibition), उत्प्रेषण लेख (Writ of Certiorari), अधिकार–पृच्छा लेख (Writ of Quo-Warranto) के द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इन लेखों (Writs) को जारी करने का अधिकार अन्य सब कार्यों के लिए भी है।

[k- v i hyh; {k=kf/kdkj (Appellate Jurisdiction) – सभी उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है, जिन्हें निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है –

1- nhokuh (Civil) – दीवानी मामलों में उच्च न्यायालयों में कोई भी अपील होगी या दूसरी अपील। पहली अपील का अर्थ यह है कि जिला न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऐसा तभी हो सकता है जब उस मुकदमें में कानून का कोई गहरा प्रान्त उलझा हुआ हो। दूसरी अपील, जब एक अपील जिले का न्यायालय सुन चुका हो तो उसके निर्णय के विरुद्ध भी अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है, परन्तु उसमें कोई कानूनी प्रान्त उलझा होना चाहिए। उच्च न्यायालय में पहली तथा दूसरी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत यदि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अपील सुनी है तो उसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में फिर अपील हो सकती है। ऐसी स्थिति में कई न्यायाधीश अपील सुनते हैं।

2- **Q&stnkj h (Criminal)** – फौजदारी मुकद्दमों में निम्नलिखित मामलों में निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है –

1. यदि सै”न जज ने किसी अपराधी को मृत्यु-दण्ड दिया हो तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय से होनी चाहिए। वह अपराधी स्वयं भी उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना अपराधी को फाँसी या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया जा सकता।

2. यदि निचले न्यायालय ने किसी अपराधी को 4 वर्ष या इसे अधिक की कारावास की सजा दी हो।

3. किसी प्रेसडेन्सी मैजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी।

4. उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में अपील की जा सकती है। ऐसी अपील प्रत्येक मुकद्दमे में नहीं हो सकती। कानूनानुसार जिन अभियोगों में अपील की जा सकती है, उनके लिए यह अनिवार्य है कि सम्बन्धित उच्च न्यायालय (High Court) अपील करने की आज्ञा दे। उच्च न्यायालयाउं की आज्ञा के बिना उसके निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपनी इच्छा के अनुसार भी किसी मुकद्दमे सम्बन्धी अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत विशेष अपील करने की आज्ञा दे सकता है।

2- **प्र”ासन सम्बन्धी भावितयाँ (Administrative Powers)** – उच्च न्यायालय के न्याय सम्बन्धी अधिकारों के अलावा कुछ प्र”ासन सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं; जेसे –

1. वह अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के कागजों को मँगवाकर उनकी जांच-पड़ताल कर सकता है।

2. उच्च न्यायालय को यह भी अधिकार है कि वह यह देखे कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं करता तथा अपने कर्तव्यों का निर्विचित विधि के अनुसार ही पालन करता है।

3. किसी मुकद्दमे को एक न्यायालय से हटाकर निर्णय लेने के लिएदूसरे न्यायालय में भेंज सकता है।

4. उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के शेरिफ, कलर्क, वकील तथा अन्य कर्मचारियों की फीस निर्विचित करता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ

न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति, अवनति, उन्नति और छुट्टी के बारे में नियम बनाता है।

5. यदि किसी न्यायालय में ऐसा मुकदमा चल रहा हो जिसमें भारतीय संविधान की व्याख्या का प्र”न पैदा होता है तो उच्च न्यायालय उस मुकदमे को अपने पास मंगवाकर निर्णय दे सकता है।

6. उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य—पद्धति, रिकार्ड, रजिस्टर बना सकता है तथा हिसाब—किताब देख सकता है।

3- **न्यायिक पुनर्निरीक्षण की भाविताएँ** (Powers of Judicial Review) – भारत में संघीय संविधान होने के कारण संविधान सर्वोच्च है। इसकी व्याख्या करने तथा रक्षा करने का दायित्व सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को है। इस कारण सर्वोच्च न्यायालय की तरह राज्यों के उच्च न्यायालय को भी संसद एवं राज्य की विधानपालिका के कानूनों तथा कार्यपालिका की आज्ञाओं की वैधानिकता की जाँच करते हैं तथा संविधान के अनुकूल न होने पर उन्हें अवैध कर सकते हैं। इसको न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार कहते हैं। यद्यपि यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे दिए गए निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

{k=kf/kdkj dk foLrkj (Expansion of Jurisdiction) – संविधान के अनुच्छेद 230 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न्यायिक कार्यों के लिए किसी केन्द्र—"ासित क्षेत्र (Union Territory) को शामिल कर सकता है या उसके क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल सकता है।

vHkys[k U; k; ky; (Court of Record) – राज्य का उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के सभी निर्णय एवं कार्यवाहीयां प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं जिन्हें सम्बद्ध राज्य के अन्य सभी न्यायालयों में स्वीकार किए जाते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एक राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय को अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत तो किया जा सकता है परन्तु उनकी स्वीकृति अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए अनिवार्य नहीं है।

भारत में इंग्लैण्ड की तरह संसदीय सरकार को अपनाया गया है, लेकिन भारत में इंग्लैण्ड की तरह संसद सर्वोच्च नहीं है। इंग्लैण्ड में संसद की सर्वोच्चता है और संसद द्वारा निर्मित कानून को कहीं पर चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन भारत के संविधान निर्माता संसद को इस प्रकार की कोई शक्तियाँ नहीं देना चाहते थे, जिससे वह एक ताना” गह बन सके। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता अपनाया, उन्होंने संसद को शक्तियाँ नहीं देना चाहते थे, जिससे वह एक ताना” गह बन सके। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता अपनाया, उन्होंने संसद को शक्तियां भी दीं और उन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्ध भी लगा दिया गया।

उपर्युक्त शब्द का अर्थ यह है कि न्यायपालिका को विधानपालिका के द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों की जाँच करने का अधिकार है। यदि न्यायपालिका यह समझे कि अमुक कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसे अवैध (असंवैधानिक) घोषित कर देगी। इसे रद्द करने की शक्ति को या अवैध घोषित करने की शक्ति को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास इसी प्रकार की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संसद द्वारा निर्मित कानून को जो संविधान के विरुद्ध हो, अवैध घोषित कर सकता है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के किसी भी संविधान विरुद्ध आदेशों को अवैध घोषित कर सकता है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल (Chief Justice Marshall) इस शक्ति के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके अनुसार, “न्यायिक पुनर्निरीक्षण द्वारा न्यायालय अपने समक्ष लाए गए कानूनों और कार्यकारी या प्रासादी कार्य सम्बन्धी यह निर्णय करते हैं कि वे लिखित कानून अर्थात् संविधान द्वारा वर्जित किए गए हैं अथवा नहीं या संविधान द्वारा दी गई शक्तियों की अवहेलना तो नहीं करते।”

8-4-5- उपर्युक्त शब्द का अर्थ यह है कि जन्मदाता माने जाते हैं। इनके अनुसार, “न्यायिक पुनर्निरीक्षण द्वारा न्यायालय अपने समक्ष लाए गए कानूनों और कार्यकारी या प्रासादी कार्य सम्बन्धी यह निर्णय करते हैं कि वे लिखित कानून अर्थात् संविधान द्वारा वर्जित किए गए हैं अथवा नहीं या संविधान द्वारा दी गई शक्तियों की अवहेलना तो नहीं करते।”

भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्निरीक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है। अनुच्छेद 141 में केवल यह कहा गया है, “सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून, भारत के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित सभी

न्यायालयों के लिए बाध्य होंगे।” इस प्रकार न्यायिक पुनर्निरीक्षण शक्ति के सम्बन्ध में भारत के संविधान—निर्माताओं ने अमेरिकी पद्धति का ही अनुकरण किया है, क्योंकि उसके संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसकी शक्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति का पठन संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के साथ मिलाकर करें तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की सर्वोच्च सम्बन्धी शक्ति स्पष्ट हो जाएगी। ये अनुच्छेद निम्नलिखित हैं –

1- **VUPN॥ 13 (Article 13)** – अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि इस संविधान के लागू होने से पहले जो कानून इस दे”। में लागू हैं, वे मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित तीसरे भाग में की गई व्यवस्था से मेल न खाने पर या भविष्य में इनका उल्लंघन करके बनने वाले कानून उस सीमा तक रद्द हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय उनकी वैधता की जाँच करके उन्हें रद्द कर सकेगा।

2- **VUPN॥ 32 (Article 32)** – अनुच्छेद 13 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख न होने की जो अस्पष्टता थी, उसे अनुच्छेद 32 में दूर कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि दे”। के सभी नागरिकों को “इस भाग (मौलिक अधिकारी सम्बन्धी भाग तीन) के द्वारा, उन्हें दिए गए सभी अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर समुचित कार्यवाही करने की गारन्टी दी जाती है।” इसका अर्थ यही है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है और राज्य ने अगर अनुच्छेद 13 में की गई व्यवस्था के विपरीत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कानून बनाया तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित करने की शक्ति रखता है।

3- **VUPN॥ 131 Vkj 132 (Article 131 and 132)** – इन अनुच्छेदों ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की अन्तिम व्याख्या करने की शक्ति दे रखी है। सर्वोच्च न्यायालय इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत ही संविधान का संरक्षण करता है।

4- **VUPN॥ 226 (Article 226)** – इस अनुच्छेद ने राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकार लागू करवाने के लिए पाँच तरह के महत्वपूर्ण आदे”। या लेख (Writs) जारी करने की शक्ति दी है जबकि सर्वोच्च न्यायालय को इन आदे”। को लागू करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 (2) में दे रखा है। ये आदे”। (Writs) निम्नलिखित प्रकार से हैं –

बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादे”।, प्रतिषेध, अधिकार—पृच्छा, उत्प्रेण।

5- वृप्ति 246 (Article 246) – इस अनुच्छेद ने केन्द्र औनर राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र का स्पष्ट वर्णन संघ सूची (Union List), राज्य सूची (State List), समवर्ती सूची (Concurrent List) और अवैष्ट अधिकार (Residuary Powers) के अन्तर्गत करके उन्हें अपने-अपने दायरे में कानून आदि बनाने की शक्ति दी है। इसका अर्थ यह है कि यदि वे इन सीमाओं के बाहर जाकर कानून बनाएंगे तो वह कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

6- 390ka | दूसरी कानूनी संशोधन (39<sup>th</sup> Amendment) – 39वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा स्पीकर के निर्वाचन के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय याचिका नहीं सुन सकता परन्तु फिर जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के पश्चात् जुलाई 1978 में 44वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को समाप्त करके सर्वोच्च न्यायालय को फिर से यह अधिकार दे दिया गया है कि वह राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा स्पीकर के चुनाव सम्बन्धी मामलों में याचिका सुन सकता है।

7- 430kj | दूसरी कानूनी संशोधन (43<sup>rd</sup> Amendment) – 1976 में 42वें संविधानिक संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्निरीक्षण के अधिकार को बहुत अधिक सीमित कर दिया गया था। संविधान के किसी संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी लेकिन 43वें संशोधन के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण के क्षेत्र में वही स्थिति कायम हो गई है, जो 42वें संशोधन से पूर्व थी।

#### 8-4-6- उपयोगिता (Utility of Judicial Review)

इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण में काफी दोष पाए जाते हैं फिर भी इसकी उपयोगिता है जो कि निम्नलिखित है –

1. सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करके देता है की व्यवस्था को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार विकसित करने में सहायता देता है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग काफी सीमित किया है तथा उन्हीं कानूनों को ही रद्द किया है, जो कि संविधान के विपरीत थे।
3. वर्तमान युग में संविधान के अन्तर्गत सीमित सरकार की व्यवस्था अच्छी समझी जाती है, इसलिए कार्यपालिका और विधानपालिका की शक्ति को नियन्त्रण में रखने के लिए न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था बहुत अधिक उपयोगी मानी गई है।

4. अरस्तू ने कानून की सर्वोच्चता पर बल देते हुए उसे शासन का सर्वोत्तम रूप माना है। किसी भी दे”। में उस दे”। का संविधान सर्वोच्च कानून होता है। अतः उसके संरक्षण के लिए न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति आव”यक होती है। संविधान बनाने वालों ने इस बात को मद्देनजर रखकर ही पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में की थी।

5. भारत में संघीय संविधान को अपनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के द्वारा संघीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों के झगड़ों को सुलझाकर, उन्हें अपने—अपने वैधानिक अधिकार—क्षेत्र में कार्य करने के लिए विव”। करती है तथा इसी शक्ति के द्वारा केंद्र को प्रान्तों के मामले में हस्तक्षेप करने से रोकती है।

6. नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति आव”यक है। अगर विधानमण्डल का कानून तथा कार्यपालिका का आदे”। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है।

8-4-4 yksdiky vksj ykdk; Dr vf/fu; e 1/2013% dh e[; fo”शताएं इस  
i dkj g§ (**The Salient Features of the Lokpal and Lokayuktas Act (2013)**)%

- यह केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने का प्रयास करता है और इस प्रकार केंद्र और राज्यों में राष्ट्रों के लिए भ्रष्टाचार विरोधी रोडमैप प्रदान करता है। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य और समूह ए,बी,सी और डी के अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।
- लेकपाल में एक अध्यक्ष होता है जिसमें अधिकतम 8 सदस्य होते हैं जिनमें से 50 प्रति”त न्यायिक सदस्य होंगे।
- लेकपाल के लगभग 50 प्रति”त सदस्य एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे।
- लेकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति के माध्यम से होगा जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधी”। या मुख्य द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधी”। शामिल होंगे। भारत के न्याय और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति।

- एक खोज समिति चयन की प्रक्रिया में चयन समिति की सहायता करेगी। खोज समिति के 50 प्रति”त सदस्य भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे।
- प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ फँकायतों से निपटने के लिए विषय वस्तु बहिष्करण और विरोध प्रक्रिया के साथ लोकपाल के दायरे में लाया गया है।
- लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में सरकार के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे।
- लोकपाल के पास लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के लिए सीबीआई सहित किसी जांच एजेंसी पर

यकृदक; प्रति द्वि एफ़; फो”शताएं : लोकायुक्त की विषेषताएं निम्नलिखित हैं :

। जपुक्सेड फोफो/क्रक, ॥ : लोकायुक्त की संरचना सभी राज्यों में समान नहीं है। राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदे”॥ और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने लोकायुक्त और साथ ही उपलोकायुक्त का निर्माण किया है जबकि हिमाचल प्रदे”॥, बिहार और उत्तर प्रदे”॥ ने केवल लोकायुक्त बनाया है। पंजाब और उड़ीसा जैसे राज्य हैं जिन्होंने लोकपाल के रूप में अधिकारियों को नामित किया है। यह एआरसी रिपोर्ट के अनुसार नहीं था।

फु; फ्लॉर : लोकायुक्त और उपलोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उन्हें नियुक्त करते समय, अधिकां”॥ राज्यों में राज्यपाल परामर्श करते हैं :

1. राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी”॥
2. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता

; क्लॉर्क : उत्तर प्रदे”॥, हिमाचल प्रदे”॥, आंध्र प्रदे”॥, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक और असम राज्यों में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित है। लेकिन बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में कोई विरोध योग्यता निर्धारित नहीं है।

द्वि; लक्ष्य : अधिकां”॥ राज्यों में, लोकायुक्त के लिए निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, का होता है। वह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है।

तक्ष : अधिकां”॥ राज्यों में, लोकायुक्त अनुचित प्रासादनिक कार्रवाई के खिलाफ नागरिक से प्राप्त फँकायत या स्वतः के आधार पर जांच शुरू कर सकता है। लेकिन उन्हें उत्तर प्रदे”॥, हिमाचल प्रदे”॥ और असम राज्यों में अपनी पहल पर जांच करने का अधिकार नहीं है।

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति सीबीआई के निवेदन के चयन की सिफारिश करेगी।
- यह स्पष्ट समय—सीमा निर्धारित करता है। प्रारंभिक जांच के लिए, यह तीन महीने के लिए तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। जांच के लिए यह छह महीने का होता है जिसे एक बार में छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। परीक्षण के लिए यह एक वर्ष है जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसे प्राप्त करने के लिए, विवेदित अदालतें स्थापित की जानी हैं।
- यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अधिकतम सजा को 7 से बढ़ाकर 10 साल करता है। अधिनियम की धारा 7,8,9 और 12 के तहत न्यूनतम सजा अब तीन साल और धारा 15 (प्रयास के लिए सजा) के तहत न्यूनतम सजा अब दो साल होगी।
- सरकार द्वारा पूर्ण या आंतरिक रूप से वित्तपोषित संस्थान लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में हैं, लेकिन सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों को बाहर रखा गया है।
- विवेदित अंदान विनिमय अधिनियम के संदर्भ में विवेदित स्त्रोत से प्रति वर्ष 10 लाख रुपये से अधिक का दान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाया जाता है।
- इसमें इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 365 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त संस्थानों की स्थापना के लिए एक जनादेश शामिल है।

**लोकसेवक में भागीदारी की धारा 21** में परिभाषित

%

1. कोई व्यक्ति जिसमें वर्तमान एवं पूर्व मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, राज्य विधान मंडल के सदस्य, विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष।
2. इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा निगमित, पंजीकृत/गठित किसी कानूनी या गैर कानूनी निकाय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष/सदस्य।
3. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 द्वारा या उसके अधीन गठित किसी नगरपालिका समिति या परिषद् का कोई प्रधान/उपप्रधान।

4. हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 द्वारा या उसके अधीन गठित या गठित की गई निगम का कोई महापौर, वरिष्ठ या उप-महापौर।
  5. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 द्वारा या उसके अधीन गठित किसी जिला परिषद् का कोई प्रधान, उप प्रधान तथा किसी पंचायत समिति को कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष।
  6. सरकारी समितियों से सम्बन्धित विधि के अधीन निगमित या पंजीकृत किसी समिति का प्रधान, उपप्रधान व प्रबन्ध निदेशक।
  7. किसी विविधालय का कोई कुलपति या कोई प्रति कुलपति या कुल सचिव।
- इसी प्रकार 'पंचायत' से अभिप्राय है कि कोई पंचायत, जिसमें किसी लोकसेवक जिनमें उच्चाधिकारी एवं समस्त कर्मचारी भी शामिल है, द्वारा किया गया कोई अभिकथन या पंचायत का कृत्य अधिरोपित है। 'पंचायत' का तात्पर्य है किसी व्यक्ति द्वारा दावा कि अधिकार जिसका वह हकदार है, उसे इन्कार किया जाता है या किसी लोकसेवक के कार्य की भूलचूक या किसी कृत्य द्वारा अयुक्तियुक्त विलम्बित किया गया है या कार्य जिसकी पंचायत की गई है, कुप्रासन की केटैगरी / श्रेणी में आता है।
  - कुप्रासन से अभिप्राय है, कोई कार्य जो अन्यायपूर्ण, अनीतिपूर्ण, अयुक्तियुक्त, दमनपूर्ण, अनुचित, पक्षपातपूर्ण या विधि द्वारा समर्पित न हो।
  - 'भ्रष्टाचार' में भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अथवा भ्रष्टाचार निवारण के लिये तत्समय लागू किसी विधि के अधीन दण्डनीय कोई कृत्य शामिल है।
  - इस अधिनियम के अधीन किसी जांच पड़ताल, छानबीन, लोकायुक्त या उसके अमले के सदस्यों द्वारा प्राप्त की गई कोई सूचना तथा किसी भी सूचना का कोई साक्ष्य गोपनीय समझा जायेगा।
  - इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जो जानबूझ कर या विद्वपूर्वक इस अधिनियम के अधीन कोई झुठी पंचायत करता है तो दोष सिद्धी पर पंचायतकर्ता को कठोर कारावास (जो 3 वर्ष तक हो सकता है) या

जुर्माने से (जो 10 हजार रूपये तक हो सकता है) या दोनों रूप में दंडित किया जायेगा।

भ्रष्टाचार फैलाने में समाज का हर वर्ग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी है। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सभी ने इसे अपनी स्वार्थपूर्ति हेतु पोषित किया है जोकि कडवा सच है। लोकायुक्त जैसी बेहतर महत्वपूर्ण व्यवस्था होने के साथ—साथ समाज के सभी वर्गों से संवाद, विचार एवं परिचर्चा के आधार पर स्थायी नैतिक मूल्यों के प्रति, पुनर्विं”वास जागृत करना होगा। राजनैतिक इच्छा—”व्यक्ति को जनमत से तैयार करना होगा। जब आम व्यक्ति प्र”ासनिक कुरीतियों को दूर करने के लिये संकल्प लेगा और अपना रचनात्मक सहयोग देगा तभी से संस्थाएं मजबूत होंगी। आप भी दे”। के प्रति अपने कर्तव्य को निभाये और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाएं।

### लोकायुक्त का कार्यक्षेत्र एवं भावितयां

भारतीय जनतांत्रिक प्रणाली को मजबूत एवं पारद”र्श बनाने के लिए समय—समय पर हमारे प्र”ासन एवं सरकारों ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इन्हीं प्रयासों की कड़ी को और मजबूत करते हुए हरियाणा सरकार ने अपने एक अभूतपूर्व फैसले में राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की है, जो न केवल भ्रष्टाचार पर अंकु”। लगायेगा बल्कि लोकसेवकों की स्वेच्छाचारिता पर भी लगाम कसेगा।

“दि हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002” राज्य में 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ और जस्टिस श्री प्रीतमपाल (पूर्व जज पंजाब एवम् हरियाणा हाई कोर्ट) 18 जनवरी 2011 को हरियाणा के नये लोकायुक्त नियुक्त किये गये हैं ताकि भ्रष्टाचार पर अंकु”। लगाने की जो मुहिम सरकार ने शुरू की है उसे और तेजी प्रदान की जा सके।

#### 1. लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति

लोकायुक्त से अभिप्राय है, धारा-3 के अधीन ‘दि हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002’ के अन्तर्गत प्रावधान है कि ऐसे लोकसेवक जो स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनाव”यक या लाभ पंहुचाने या पक्षपात करने के लिये अथवा किसी व्यक्ति को अनाव”यक कष्ट या क्षति पंहुचाने के लिये इस रूप में अपनी हैसियत का जानबूझ कर या साभिप्राय दुरुपयोग किया, ऐसे लोकसेवक के रूप में अपनी हैसियत में भ्रष्टाचार का दोषी है, ईमानदारी में कमी है या अपनी आय के स्त्रोतों से असंगत आर्थिक साधन या सम्पत्ति

लोकसेवक द्वारा व्यक्तिगत रूप में या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा धारण की गई है, ऐसे व्यक्ति इस दायरे में आते हैं।

#### 8-4-5- | ijhe dkVl vkj bl dh | j puk (**Supreme Court and its Composition**)

भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में पहचान प्राप्त करने के दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। स्वतन्त्रता मिलने से पूर्व 'चैंबर ऑफ प्रिंसेस' ही भारत की फेड्रल न्यायिक व्यवस्था का कार्य देखते थे। 1958 तक सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक कार्यालय भी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का दफ्तर ही होता था। लेकिन 1958 के बाद सुप्रीम कोर्ट को वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के गठन होने के बाद इसके द्वारा अब तक लगभग 24000 से अधिक के फैसले लिए जा चुके हैं।

देश के सर्वोच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य व सात न्यायाधी”ों के रूप में किया गया था। लेकिन समय के साथ न्यायालय के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ ही यह पीट समय पर सभी मामलों को निपटाने में समर्थ नहीं रही। परिणामस्वरूप न्यायालय में न्यायाधी”ों की संख्या में भी वृद्धि की जाने लगी। 1950 में प्रारंभिक संख्या स्त्रोत से बढ़कर 1956 में 111960 में 141978 वर्ष में 181986 में 26 और इसे बढ़ाकर 2008 में 31 न्यायाधी”ों की कर दी गई। इसके साथ ही यह न्यायाधी”ों छोटी खंडपीठों के रूप में भी निर्णय लेते हैं। कुछ ऐसे केस जिनमें कानून के मूल प्र”नों की विस्तृत व्याख्या करनी हो तब संवैधानिक पीठ के रूप में पाँच या इससे अधिक न्यायाधी”ों यह काम करते हैं। अगर किसी कानूनी मामले में छोटी पीठ उसे सुलझाने में असमर्थ रहती है तब उसे बड़ी पीठ के पास विचार करने के लिए भेज सकती है।

vi hy ij | puk : भारत में सुप्रीम कोर्ट सभी न्यायलयों में सबसे ऊंची संस्था मानी जाती है। अन्य कोर्ट में जिन मामलों में संविधान की व्याख्या की जरूरत होती है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर निर्णय देती है। सिविल एवं आपराधिक मामलों के संबंध में भी यदि संविधान संबंधी किसी प्र”न उठने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर उसका निर्णय हो सकता है।

ij ke”k nkrk : सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस किसी भी मामले में सलाह देने का माना जाता है जो देश के राष्ट्रपति के सम्मुख रखा जाता है। यह मामला वैधानिक या सार्वजनिक महत्व से संबंधित हो सकता है।

| fo/kku dk | j{kld : संविधान द्वारा निर्मित सुप्रीम कोर्ट, संविधान का संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। यह कार्य दो प्रकार से किया जाता है। एक तो सर्वोच्च संघीय न्यायालय के रूप में उन मामलों में जहां केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के बैंटवारे से संबंधित कोई विवाद हो, और दूसरा भारत के प्रत्यके नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रक्षक के रूप में कार्य करता है।

इन कार्यों को करते समय कभी—कभी सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लागू किए कानूनों की समीक्षा करने की भी जरूरत हो सकती है।

; kfpdk | c/kh dk; ' : संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट याचिका भी जारी करने का अधिकार रखती है।

f0fkhUu dk; l : उपरोक्त कार्यों के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 में भारत का सुप्रीम कोर्ट निम्न प्रकार के विभिन्न कार्य निर्देशित किए गए हैं :

1. अपने अधीनस्थ न्यायलयों के कार्यों की जांच करना।
2. अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति व विभिन्न प्रकार की सेवा संबंधी नियम व शर्तों के साथ उन कर्मचारियों की पदोन्नति या पद से हटाने संबंधी कार्य
3. यदि कोई व्यक्ति न्यायलय की अवहेलना या अवमानना करता है तब उसे दंड देने का कार्य।
4. भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के साथ अन्य विभिन्न पदाधिकारियों के चयन में यदि किसी प्रकार का विवाद होता है, तब उसमें निर्णय लेने का कार्य।
5. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों के गलत व्यवहार की जांच करना। अंत में कहा जा सकता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट अपने विभिन्न कार्यों के माध्यम से “दू” में कानून एवं व्यवस्था को भली प्रकार से लागू करना होता है।

### सर्वोच्च न्यायालय की भावितयाँ

vnkyr dh voekuuk (सिविल या आपराधिक) के लिए 6 महीने की साधारण कारावास या 2000 तक जुर्माना के साथ दंडित करने की शक्ति। नागरिक अवमानना का अर्थ है किसी भी निर्णय के प्रति अवज्ञा।

आपराधिक अवमानना का अर्थ है किसी भी कार्य को करना जो न्यायालय के अधिकार को कम करता है या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप का कारण बनता है।

| okPp ॥; k; ky; ; k mPp ॥; k; ky; के सेवानिवृत्त न्यायाधी”ों की नियुक्ति अनुच्छेद 128 CJI किसी भी समय राष्ट्रपति की पिछली सहमति से और ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है।

जो किसी व्यक्ति को पहले अनुसूचित जाति के न्यायाधी”I के पद पर नियुक्त कर सकता है।

dk; bkgd e[; ॥; k; k/kh”k dh fu; fDr अनुच्छेद 126 जब CJI का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधी”I अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों, तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति न्यायालय के न्यायाधी”I की नियुक्ति कर सकता है।

| ij h{k. k {ks=kf/kdkj: पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 137 को किसी भी गलती या त्रुटि को दूर करने के उद्देश्य से किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है, जो निर्णय या आदेश में रद्द हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले स्पष्ट मूल्य के हैं और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

| okPp ॥; k; ky; ds ॥; k; k/kh”k dks gVku

mPpre ॥; k; ky; के एक न्यायाधी”I को गलत व्यवहार या न्यायाधी”I की अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कुल सदस्यता और बहुमत के दो—तिहाई के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है।

इसलिए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को न्यायपालिका की आवश्यकता है क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य उचित जांच और संतुलन के बिना अपनी प्रमुखता खो देते हैं।

| ij he dkVl dk vf/kdkj {ks= Vkj dk; :

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों और कार्यों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124—147 में किया गया है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था का प्रतिरूप है जिसका मुख्य कार्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट द्वारा सुनाये गए फैसलों के विरुद्ध अपील सुनकर निर्णय देना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न

राज्यों के मध्य हुए विवादों या मौलिक अधिकारों व मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी हुई अपीलों को सुप्रीम कोर्ट में सीधे ही सुना जाता है। विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है:

| ॥kh; ॥; k; ky; : गणराज्य रूप में भारत के प्रगति तंत्र को राज्य व केंद्रीय शासित राज्यों के रूप में विभाजित किया गया है। अनुच्छेद 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य यह देखना है कि राज्य व केंद्र शासित राज्यों में लिए जाने वाले निर्णय विधिनुसार लिए जा रहे हैं।

| fo/kku o dkum u dh ॥; k : सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय संविधान की व्याख्या करना एक मुख्य कार्य माना जाता है। इस व्याख्या का उपयोग किसी विधि सम्मत मामले में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।

#### 8-5- vi uh i ḫfr tkp (Check your progress)

1. वर्तमान समय तक कितने संविधान में कितने संगठन विधेयक पेरियां किए जा चुके हैं?
2. संविधान में कुल कितने भाग हैं?
3. सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है?
4. वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायधीं हैं?

#### 8-6- | kj kdk (Summary)

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना कि अमेरिका में लेकिन फिर भी यह सर्वोच्च न्यायालय की विधानमण्डल और कार्यपालिका की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखने वाला एक मात्र साधन है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस अधिकार की रक्षा के लिए समय—समय पर निर्णय देकर सराहनीय भूमिका निभाई है। केवानन्द भारती तथा मिनर्वा मिल्ज जैसे मुकद्दमों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देकर न्यायिक पुनर्निरीक्षण के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभाई है।

इसलिए सुप्रसिद्ध विद्वान् जी० जो० जो० (G.N. Joshi) का कहना है, “संघ सरकार तथा राज्यों की सरकारें अपने लिए निर्धारित कार्य—क्षेत्र में कार्य कर रही हैं या नहीं, मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य पर लगाए प्रतिबन्धों का पालन होता है या नहीं तथा कानून व सरकार के कार्यों की संवैधानिकता के सम्बन्ध में निर्णय करना न्यायालयों का

आव”यक कर्तव्य है। ..... अतः कानून की सर्वोच्चता या कानून के शासन को बनाए रखना न्यायालयों की शक्ति भी है और दायित्व भी।” संविधान के अनुच्छेदों की दृष्टि से कोई कानून न्यायसंगत है या नहीं, इसका अन्तिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। “न्यायाधी”। मुखर्जी के अनुसार “जहाँ विधि निर्माण की कोई सीमा निर्दिष्ट है, वहाँ कोई प्रौद्योगिकायत होने पर इस न्यायालय को इस बात की छानबीन करनी होगी और इस बात का पक्का पता करना होगा कि इस प्रकार की सीमा का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ और यदि कोई उल्लंघन हुआ हो तो न्यायालय साहसपूर्वक इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगा, क्योंकि यह न्यायालय संविधान का पालन कराने के लिए शपथबद्ध है।”

#### 8-7- सूचक भाव (Key Words)

न्यायालय के अधिकार के अन्तर्गत के विषय आते हैं जिन पर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार प्राप्त है।

न्यायालय के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में उनका न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।

न्यायालय के अधिकार में ऐसे मुकदमे आते हैं जिनका प्रारूप निचली न्यायालयों से होता है, परन्तु उनके निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

न्यायालय के अधिकारों में उन मामलों को शामिल किया जाता है जिसके तहत किसी अपराधी को उम्र कैद या मृत्यु दण्ड दिया गया हो, उनके विरुद्ध प्रौद्योगिकायतें सिधे सर्वोच्च न्यायालयों में हो सकती है।

न्यायालय के अधिकारों में सभी निर्णयों को प्रकाशित करके भविष्य के लिए रखा जाता है और इनके न्याय सभी उच्च न्यायालयों के लिए मान्य होते हैं इसलिए इनको अभिलेख न्यायालय कहा जाता है।

#### 8-8- Lo; a e॥; kdu g॥ i॥u (Self Assessment Questions)

Q.1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।

- Q.2. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, क्षेत्राधिकार व स्थिति की विवेचना करें।
- Q.3. भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से संविधान की रक्षा करता है।
- Q.4. न्यायिक पुनर्निरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है ? भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की उपयोगिता की आलोचनात्मक व्याख्या करें।
- Q.5. उच्च न्यायालय के संगठन तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए ?
- Q.6. राज्य के उच्च न्यायालय की संरचना, शक्तियों तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
- Q.7. न्यायिक पुनर्निरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है ? इसके पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए।

8-9- vi uhl i xfr dh tkp djus ds fy, mUkj (**Answer check your progress**)

1. 126
2. 22
3. 65 वर्ष
4. अनुच्छेद 124 में
5. 33

8-10- I UnHk xJFk@funF"kr i Frd@ (**References/Suggested Reading**)

1. राजनीतिक सिद्धान्त; ज्योति बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली
2. A History of Political Thought, PHI Learning Private Limite, New Delhi.
3. Political Theory, Prentice-Hall of India Pvt. Ltd.
4. Indian Political thought, Person Education, New Delhi.

<b>Subject : jktuhfrd foKku</b>	
Course Code : <b>BA101</b>	Author : <b>Dr. Deepak</b>
Lesson No. : <b>9</b>	Vetter :
<b>vkj -Vh-vkbz % bl dh fo”शताएं और प्रक्रियाएं, लोकपाल और yksdk; Dr</b>	

---

वृ/; क; & 9 वृक्ष -Vh-vkbz % bl dh fo”शताएं और प्रक्रियाएं,  
yksdi ky vक्ष yksdk; Dr

---

- 9-1 vf/kxe mnñ”; (**Learning Objectives**)
- 9-2- iLrkouk (**Introduction**)
- 9-3- v/; ; u ds eq[; fcUnq (**Main Points of Text**)
- 9-3-1- I ipuk ds vf/kdkj dh fo”शता (**Features of Right to Information**)
- 9-3-2- I ipuk ds vf/kdkj vf/kfu; e 2005 ds vrxxr vkus okys I xBu (**Organizations under Right to Information Act, 2005**)
- 9-3-3- I ipuk dk vf/kdkj gsrq vkonu ifØ; k (**Application procedure for right to information**)
- 9-3-4- I ipuk dk vf/kdkj es yki j okgh gsrq nMfo/kku (**Penalty for negligence in right to information**)
- 9-3-5- vक्ष Vhvkbz vf/kfu; e ds mnñ”; (**Objectives of RTI Act**)
- 9-4- i kB ds vkxs dk eq[; Hkkx (**Further main body of the text**)
- 9-4-1- I ipuk feyus dh r; I hek (**Information Getting Time Limitation**)
- 9-4-2- vf/kfu; e ds eq[; i ko/kku (**Main Provisions of the Act**)
- 9-4-3- Hkkj r es yksdi ky rFkk yksdk; Dr (**Lokpal and Lokayukta in India**)
- 9-4-4- yksdi ky , o; yksdk; Dr ¼i d'kk/ku½ fo/ks; d] 2016 (**Lokpal and Lokayukta (Amendment) Bill, 2016**)
- 9-4-5- लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं भावितयाँ (**Jurisdiction and Powers of Lokpal**)
- 9-4-6- orZku yksdi ky I LFkk dh fLFkr (**Current Status of Lokpal Institution**)
- 9-5- vi uh i xfr tkp; (**Check your progress**)
- 9-6- I kj kñ’k (**Summary**)
- 9-7- सूचक भाब्द (**Key Words**)
- 9-8- Lo; a eW; kdu gñw i z'u (**Self Assessment Questions**)
- 9-9- vi uh i xfr dh tkp djus ds fy, mÙkj (**Answer check your progress**)
- 9-10- I UnHkz xJFk@funF”kr i Lrd; (**References/Suggested Reading**)

## 9-1 विषयों; (**Learning Objectives**)

इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे :—

- सूचना के अधिकार का अध्ययन
- सूचना के अधिकार की विशेषताओं की जानकारी
- सूचना के अधिकार की प्रक्रिया का अध्ययन
- लोकपाल एवं लोकायुक्त का अध्ययन
- लोकपाल की शक्तियों का अध्ययन

## 9-2- इलेक्ट्रॉनिक (Introduction)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 Right to Information Act, 2005 (RTI) को 12 अक्टूबर 2005 को लागु किया गया था। सूचना का अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों के समानांतर रखा गया है। इस अधिनियम के लागु होने से पूर्व भारतीय नागरिकों को सरकार के कार्यक्रमों की कोई विस्तृत जानकारी नहीं होती थी। जिस कारण भ्रष्टाचार को निरंतर बढ़ावा मिल रहा था, क्योंकि लोग सरकार के किसी भी कार्य का लेखा—जोखा नहीं जुटा पाते थे। जिस कारण सरकार और नागरिकों के मध्य अपारदर्शिता का विस्तार हो रहा था।

अतः भ्रष्टाचार के रोकथाम हेतु एवं जनता के समक्ष सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाने एवं आम नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ने हेतु 2005 में इस अधिनियम को लागु किया गया। जो वर्तमान में पूरे भारत में लागु है। इस अधिकार के लागु होने के पारदर्शिता भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह अधिकार प्रदान किया गया। जिससे वह जब चाहें, जहाँ चाहे, जिस क्षेत्र में चाहें सरकार के किसी भी कार्य का पूर्ण लेखा—जोखा प्राप्त कर सकते हैं।

## 9-3- विषयों; मुख्य बिंदु (Main Points of Text)

### 9-3-1- इलेक्ट्रॉनिक विषयों की विशेषता (Features of Right to Information)

यह सभी भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी भी क्षेत्र एवं कार्य से सम्बन्धित सूचना जब चाहें सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार

अधिनियम 2005 (RTI Act 2005) भ्रष्टाचार पर अंकु”ता लगाने के साथ—साथ जनता का सरकार के प्रति वि”वास भी जाग्रत करता है।

यह सरकार के समस्त कार्यों में पारदर्शिता लाने का कार्य करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का लाभ समस्त नागरिकों को मिले इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन—यापन करने वाले नागरिकों हेतु इसे नि:”ुल्क रखा गया है। यह आर.टी.आई. पत्र लिखने और उसको जमा करने हेतु नागरिकों की सहायता करता है।

यह नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह जीवन और आजादी के मामलों से सम्बन्धित किसी भी सूचना को 48 घण्टे के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा के अन्य मामलों में सूचना प्राप्त करने हेतु उन्हें 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करवाना सुनिश्चित किया गया है। समय सीमा से पहले सूचना नहीं देने पर जुर्माने के तौर पर आवेदनकर्ता को नि:”ुल्क सूचना प्रदान करवाई जाती है।

9-3-2- | puk ds vf/kdkj vf/kfu; e 2005 ds vr xl vkus okys | xBu

#### **(Organizations under Right to Information Act, 2005)**

- लोक प्राधिकरण
- सरकार द्वारा स्वपोषित निजी निकाय

9-3-3- | puk dk vf/kdkj gq; vkonu i fØ; k (**Application procedure for right to information**) –

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह लिखित पत्र के माध्यम से या फिर प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रचलित फॉर्म या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है। इसके अंतर्गत वह जिस कार्यालय या विभाग से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करना चाहता है। उसे उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को पत्र भेजना होता है।

9-3-4- | puk dk vf/kdkj ei yki jokgh gq; nMfo/kku (**Penalty for negligence in right to information**) & अगर आप किसी विभाग से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं और निर्धारित समय सीमा (जीवन और आजादी से सम्बन्धित मामलों में 48 घण्टे, अन्य मामलों में 30 दिनों के भीतर) के प”चात् भी वह अधिकारी आपको सूचना प्रदान नहीं करवाता तो ऐसे में यह माना जाता है कि वह अधिकारी नागरिकों को सूचना नहीं देना चाहता और ऐसे में

आर.टी.आई. एकट 2005 के उल्लंघन के अपराध के मामले में उस अधिकारी पर कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही के तौर पर उस अधिकारी को निलंबित भी किया जा सकता है या 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

### 9-3-5- वक्तव्यकाल वक्तव्यकाल के उद्देश्य (Objectives of RTI Act) :

1. नागरिकों को सरकार से सवाल करने का अधिकार दें।
2. यह अधिनियम सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
3. यह अधिनियम सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने और लोगों के लिए बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद करता है।
4. इस अधिनियम में बेहतर जानकारी वाले नागरिकों के निर्माण की परिकल्पना की गई है जो सरकारी तंत्र के कामकाज के बारे में आवश्यक निगरानी रखेंगे।

### प्रमुख वक्तव्यकाल वक्तव्यकाल के उद्देश्य (Objectives of RTI Act) :

- धारा 2 (एच) : लोक प्राधिकरण का अर्थ है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के अधीन सभी प्राधिकरण और निकाय। सार्वजनिक निधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित नागरिक समाज भी आरटीआई के दायरे में आते हैं।
- धारा 4 1 (बी) सरकार को सूचनाओं को बनाए रखना और सक्रिय रूप से प्रकट करना होता है।
- धारा 7 : पीआईओ द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करता है।
- धारा 8 : केवल न्यूनतम जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई है।
- धारा 8 (1) में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रस्तुत करने पर छूट का उल्लेख है।
- धारा 8 (2) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत छूट प्राप्त जानकारी के प्रकटीकरण का प्रावधान करती है यदि व्यापक जनहित की सेवा की जाती है।
- धारा 19 : अपील के लिए दो स्तरीय तंत्र।
- धारा 20: समय पर जानकारी प्रदान करने में विफलता, गलत, अधूरी या भ्रामक या विकृत जानकारी के मामले में दंड का प्रावधान है।
- धारा 23 : निचली अदालतों को वादों या आवेदनों पर विचार करने से रोक दिया जाता है। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारत

के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का रिट अधिकार क्षेत्र अप्रभावित रहता है।

Vkj Vhvkbz vf/kfu; e dk egRo

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को शासन में प्रचलित सत्ता की गोपनीयता और दुरुपयोग पर सवाल उठाने का अधिकार देता है।
- केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों के माध्यम से ही ऐसी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है।
- सूचना का अधिकार सूचना को सार्वजनिक हित के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि यह नागरिकों के हितों के लिए प्रासंगिक है और एक पारदर्शी और जीवंत लोकतंत्र के कामकाज के लिए कए महत्वपूर्ण स्तंभ है।
- प्राप्त जानकारी न केवल सरकार को जवाबदेह बनाने में मदद करती है बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी होती है जो समाज के समग्र हितों की सेवा करती है।
- हर साल, लगभग छह मिलियन आवेदन आरटीआई अधिनियम के तहत दायर किए जाते हैं, जिससे यह विवरण स्तर पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सन्तान आइन कानून बन जाता है।
- ये एप्लिकेशन देने के सर्वोच्च कार्यालयों पर सवाल उठाने के लिए बुनियादी अधिकारों और अधिकारों के वितरण के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराने से लेकर कई मुद्दों पर जानकारी मांगते हैं।
- आरटीआई अधिनियम का उपयोग करते हुए, लोगों ने जानकारी मांगी है कि सरकारें प्रकट नहीं करना चाहेंगी क्योंकि यह राज्य द्वारा भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के उल्लंघन और गलत कामों को उजागर कर सकती है।
- नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों, निर्णयों और कार्यों के बारे में जानकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साधन है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि आरटीआई संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 से बहने वाला एक

gky ds | #kks/ku

- आरटीआई संघीय विधेयक 2013 राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरणों की परिभाषा के दायरे से हटा देता है और इसलिए आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाता है।

- मसौदा प्रावधान 2017 जो आवेदक की मृत्यु के मामले में मामले को बंद करने का प्रावधान करता है, व्हिसलब्लोअर के जीवन पर और हमले कर सकता है।
- प्रस्तावित आरटीआई सं”गोधन अधिनियम 2018 का उद्देश्य केंद्र को राज्य और केंद्रीय सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन तय करने की शक्ति देना है, जो कि आरटीआई अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से संरक्षित है। यह कदम सीआईसी की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमज़ोर करेगा।
- अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारित 5 साल के कार्यकाल को जितना निर्धारित किया गया है, उसे बदलने का प्रस्ताव है।

Vkj Vhvkbz vf/kfu; e & | c) pukf; ka

- विभिन्न प्रकार की जानकारी मांगी जाती है जिसका कोई सार्वजनिक हित नहीं होता है और कभी—कभी कानून का दुरुपयोग करने और सार्वजनिक अधिकारियों को परेंगान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए –
  - हता”। और विंगाल जानकारी के लिए पूछना।
  - आरटीआई दायर करके प्रचार प्राप्त करने के लिए।
  - सार्वजनिक प्राधिकरण को परेंगान करने या दबाव बनाने के लिए प्रति”गोधी उपकरण के रूप में आरटीआई दायर की गई।
- दे”। में बहुसंख्यक आबादी के बीच अं॑क्षा और अनभिज्ञता के कारण आरटीआई का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- हालांकि आरटीआई का उद्देश्य फैकायत निवारण तंत्र बनाना नहीं है, सूचना आयोगों के नोटिस अक्सर फैकायतों के निवारण के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को प्रेषित करते हैं।

| puk ds vf/kdkj vkj futrk ds vf/kdkj ds chp vrj

निजता का अधिकार और सूचना का अधिकार दोनों ही आधुनिक समाज में आवश्यक मानव अधिकार हैं जहां तकनीकी सूचना का उल्लंघन बहुत आम है। अधिकांश मामलों में सरकारों को व्यक्तियों के प्रति जवाबदेह ठहराने में ये दोनों अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं।

सूचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति को सरकारी निकायों के पास मौजूद जानकारी तक पहुंचने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। साथ ही, निजता का अधिकार कानून व्यक्तियों को उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, पहुंच और उपयोग को नियंत्रित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो सरकारों और निजी निकायों के पास है।

सूचना का अधिकार अधिनियम बनाम सूचना के गैर प्रकटीकरण के लिए कानून :

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (धारा 123,124 और 162) के कुछ प्रावधान दस्तावेजों के प्रकटीकरण को रोकने का प्रावधान करते हैं।
  - इन प्रावधानों के तहत, विभाग के प्रमुख राज्य के मामलों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर सकते हैं और केवल यह शपथ लेते हुए कि यह एक राज्य रहस्य है, जानकारी का खुलासा नहीं करने का अधिकार होगा।
  - इसी प्रकार किसी भी लोक अधिकारी को सरकारी वि"वास में उसे की गई संसूचनाओं का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1912 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित जानकारी का खुलासा करना अपराध होगा।
- केंद्रीय सिविल सेवा अधिनियम एक सरकारी कर्मचारी को सरकार के सामान्य या वि"ष आदे" के अलावा किसी भी आधिकारिक दस्तावेज के साथ संवाद या भाग नहीं लेने का प्रावधान करता है।
- आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 यह प्रावधान करता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी किसी दस्तावेज को गोपनीय के रूप में चिह्नित कर सकता है ताकि उसके प्रकार"न को रोका जा सके।

## निश्कर्ष

- व्यवस्थित विफलताओं के कारण उत्पन्न कुछ बाधाओं के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम अपने पूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। इसे सामाजिक न्याय, पारदर्शिता हासिल करने और एक जवाबदेह सरकार बनाने के लिए बनाया गया था।
- यह कानून हमें शासन की प्रक्रियाओं को फिर से डिजाइन करने का एक अमूल्य अवसर प्रदान करता है, वि"ष रूप से जमीनी स्तर पर जहां नागरिकों का इंटरफेस अधिकतम है।
- यह सर्वविदित है कि शासन में सुधार के लिए सूचना का अधिकार आव"यक है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। शासन में जवाबदेही लाने के लिए बहुत कुछ करने की आव"यकता है, जिसमें व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा, शक्ति का विकेंद्रीकरण और सभी स्तरों पर जवाबदेही के साथ अधिकार का संलयन शामिल है।

- जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग से उचित रूप से निपटा जाना चाहिए अन्यथा जनता इस ‘सन’गाइन एक्ट’ में विवास और विवास खो देगी।

9-4- i kB ds vkxs dk ej[ ; Hkkx (**Further main body of the text**)

9-4-1- I puk feyus dh r; I hek (**Information Getting Time Limitation**) & सूचना के अधिकार की खासियत ही यही है कि एक तय समय के भीतर ही सूचना ली जा सकती है, पी.आई.ओ. को आवेदन देने के 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए। यदि आवेदन सहायक पी.आई.ओ. को दिया गया है तो सूचना 35 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए।

सूचना देने में यदि देर की जाती है या सूचना की प्राप्ति से सूचना लेने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो अधिनियम के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक अपील दायर की जा सकती है। सूचना प्राप्ति के 30 दिनों और आर.टी.आई. अर्जी दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर प्रथम अपील दायर की जा सकती है और यदि सूचना लेने वाला व्यक्ति सूचना से संतुष्ट नहीं है तो द्वितीय अपील भी कर सकता है।

9-4-2- Vf/kfu; e ds ej[ ; i kku (**Main Provisions of the Act**) & इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है, यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्बन्धित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कम्प्यूटर में सुरक्षित रखेंगे।

इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक (CAG) और निर्वाचन आयोग (Election Commission) जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे सम्बन्धित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया

जाएगा। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर (यहाँ जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी है) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है।

इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं।

राष्ट्र की संप्रभुता, एकता—अखण्डता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है।

9-4-3- *Hkkj r e॥ yksdi ky rFkk yksdk; Dr (Lokpal and Lokayukta in India)* & आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इस बात की अधिकाधिक महसूस की जा रही है कि राज्य में एक ऐसा स्वतंत्र और निष्पक्ष अभिकरण होना चाहिए जो प्रासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों पर निर्भिकतापूर्वक विचार कर सके तथा इस संबंध में जनता की फ़िकायतों की समुचित छान—बीन कर उन्हें दुर करने की दिशा में प्रभाव गाली भूमिका निभा सके और इस प्रकार जनता में प्रासन के प्रति निरंतर गिरते जा रहे विवास को पुनः ऊपर उठा सके। ओम्बुड्समैन एक ऐसा ही स्वतंत्र और सर्वोच्च अधिकारी होता है जो जनता का विवास प्राप्त करने के लिए उसकी फ़िकायतों का निराकरण करने हेतु उचित कार्यवाही करता है। स्वीडन का ओम्बुड्समैन ऐसी ही संस्था है।

D; k gS yksdi ky vkj yksdk; Dr & लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने संघ (केन्द्र) के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। ये संस्थाएँ बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं। ये Ombudsman का कार्य करते हैं और कुछ नियंत्रण श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करते हैं।

, ॥ ॥ ॥ LFkkvks dh vko”; drk D; ks gS & खराब प्रासन दीमक की तरह है जो धीरे—धीरे किसी राष्ट्र की नींव को खोखला करता है तथा प्रासन को अपने कार्य पूर्ण करने में बाधा डालता है। भ्रष्टाचार इस समस्या की जड़ है। अधिकतर भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएँ पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी CBI को ‘पिंजरे का तोता’ और ‘अपने मालिक की आवाज’ बताया है। इनमें से कई एजेंसियों में नाममात्र शक्तियों वाले केवल परामर्शी निकाय हैं और उनकी सलाह का शायद ही अनुसरण किया जाता है। इसके अलावा आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही को भी समस्या है, क्योंकि इन एजेंसियों पर नजर रखने के लिए अलग से कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। इस संदर्भ में,

एक स्वतंत्र लोकपाल संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है, जिसने कभी समाप्त न होने वाले भ्रष्टाचार के खतरे का एक समाधान प्रस्तुत किया है।

**पृथग्भूमि** – लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन संस्था की अधिकारिक शुरुआत वर्ष 1809 में स्वीडन में हुई। 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास हुआ और यह द्वितीय विंयुद्ध के बाद तेजी से आगे बढ़ा। 1962 में न्यूजीलैंड और नार्वे ने यह प्रणाली अपनाई और ओम्बुड्समैन के विचार का प्रसार करने में यह बेहद अहम सिद्ध हुआ। वर्ष 1967 में एक वर्ष 961 के व्हाट्ट रिपोर्ट (Whyatt Report) की सिफारिं<sup>1</sup> पर ग्रेट ब्रिटेन ने ओम्बुड्समैन संस्था को अपनाया तथा लोकतांत्रिक विंव में इसे अपनाने वाला पहला बड़ा दे<sup>2</sup> बन गया। गुयाना प्रथम विकास<sup>3</sup> दे<sup>2</sup> था, जिसने वर्ष 1966 में ओम्बुड्समैन का विचार अपनाया। इसके बाद मौरी<sup>4</sup> एस, सिंगापुर, मलें<sup>5</sup> या के साथ भारत ने भी इसे अपनाया। भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1960 के दे<sup>2</sup>क ही शुरुआत में कानून मंत्री V<sup>6</sup> ksd d<sup>7</sup>ekj | u ने संसद में प्रस्तुत किया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द प्रख्यात विधिवेत्ता M<sup>8</sup> , y- e- f | koh ने पे<sup>9</sup> किया। वर्ष 1966 में प्रथम प्र<sup>10</sup>ासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों (सांसद सदस्य भी शामिल) के विरुद्ध प्र<sup>11</sup>ाकायतों को देखने के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर दो स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिं<sup>1</sup> की थी। वर्ष 1968 में लोकसभा में लोकपाल विधेयक पारित हुआ, लोकसभा के विघटन के साथ ही यह कालातीत हो गया और इसके बाद से यह लोकसभा में कई बार कालातीत हुआ। वर्ष 2011 तक विधेयक पारित करने के लिए आठ प्रयास किये गए, लेकिन सभी में अस फलता ही मिली। वर्ष 2002 में , e-, u-odV py<sup>12</sup> k की अध्यक्षता में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित आयोग ने लोकपाल व लोकायुक्तों की नियुक्ति कर सिफारिं<sup>1</sup> करते हुए प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखने की बात कही। वर्ष 2005 में 0hj l i k ekoyh की अध्यक्षता में द्वितीय प्र<sup>13</sup>ासनिक सुधार आयोग ने सिफारिं<sup>1</sup> की कि लोकपाल का पद जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। वर्ष 2011 में सरकार ने i l k e[kt]h की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने हेतु सुझाव देने तथा लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए गठित किया। vlluk g tkjs के नेतृत्व में 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन' ने केन्द्र में तत्कालीन UPA सरकार पर दबाव बनाया और इसके परिणामस्वरूप संसद के दोनों सदनों

में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक, 2013 पारित हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दे दी और 16 जनवरी, 2014 को यह लागू हो गया।

9-4-4- yksdi ky , oI yksdk; Dr ॥ ॥'ks/ku॥ fo/ks; d] 2016 (**Lokpal and Lokayukta (Amendment) Bill, 2016**) & लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को सं”गोधित करने के लिए यह विधेयक संसद ने जुलाई 2016 में पारित किया। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। इसके द्वारा वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 44 में भी सं”गोधन किया गया जिसमें प्रावधान है कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोकसेवक को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। सं”गोधन विधेयक के द्वारा 30 दिन की समय—सीमा समाप्त कर दी गई। अब लोकसेवक अपनी सम्पत्तियों और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप में एवं तरीके से करेंगे। यह ट्रस्टियों और बोर्ड के सदस्यों को भी अपनी तथा पति/पत्नी की परिसम्पत्तियों की घोषणा करने के लिए दिए गए समय में भी बढ़ोतरी करता है, उन मामलों में जहाँ वे एक करोड़ रुपये से अधिक सरकारी या 10 लाख रुपये से अधिक विदेशी धन प्राप्त करते हो।

yksdi ky dh I jpu& & लोकपाल एक बहु—सदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश”। या असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, जिनके पास भ्रष्टाचार निरोध नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशेषज्ञान एवं अनुभव हो। आठ अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य तथा न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश”। या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश”। होना चाहिए। गैर—न्यायिक सदस्य असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति, जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 वर्षों का विशेषज्ञान एवं अनुभव हो। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की

सिफारि”। पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चयन समिति प्रधानमन्त्री जो कि चेयरपर्सन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधी”। या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधी”। और एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर गठित होती है। लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम आठ व्यक्तियों का एक सर्च पैनल (खोजबीन समिति) गठित करती है।

yksdiky [kstchu | fefr & लोकपाल अधिनियम, 2013 के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उन अभ्यर्थियों की एक सूची बनाएगा जो लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या सदस्य बनाने के इच्छुक हो। इसके बाद यह सूची उस प्रस्तावित आठ सदस्यीय खोजबीन समिति के पास जाएगी जो नामों की शॉर्टलिस्ट करेगी और प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गए नामों में से नाम चुन भी सकती है और नहीं भी चुन सकती। सितम्बर, 2018 में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधी” jstuk i dk”k ns kbz की अध्यक्षता में एक खोजबीन समिति गठित की थी। 2013 का अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि राज्य सरकारें इस अधिनियम के लागू होने के एक साल के अंदर लोकायुक्त का पद स्थापित करें।

**9-4-5- लोकपाल का क्षेत्राधिकार एवं भावितयाँ (Jurisdiction and Powers of Lokpal)** & लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमन्त्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए.बी.सी. और डी. अधिकारी तथा केन्द्र सरकार के अधिकारी शामिल है। लोकपाल का प्रधानमन्त्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबद्ध न हो। संसद में कहीं गई किसी बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। इसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति भी शामिल है जो ऐसे किसी निकाय/समिति का प्रभारी (निदेशक/प्रबंधक/सचिव) है या रहा है जो केन्द्रीय कानून द्वारा स्थापित हो या किसी अन्य संस्था का जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित/नियंत्रित हो और कोई अन्य व्यक्ति जिसने घूस देने या लेने में सहयोग दिया हो। लोकपाल अधिनियम यह आदेश देता है कि सभी लोकसेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की परिसंपत्तियों व देयताओं को प्रस्तुत करें। इसके पास CBI की जाँच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है। यदि लोकपाल ने कोई मामला CBI को सौंपा है तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले के जाँच

अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। लोकपाल की जाँच इकाई को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ दी गई हैं। विंषु परिस्थितियों में लोकपाल को उन परिसंपत्तियों, आमदनी, प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के साधनों से पैदा या प्राप्ति की गई है। लोकपाल को ऐसे लोकसेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। लोकपाल की प्राथमिक जाँच के दौरान रिकार्ड को नष्ट करने से रोकने का निर्देश देने का अधिकार है।

लोकसभा संसद भारत की प्रासानिक संरचना में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में बेहद जरूरी परिवर्तन बदलाव ला सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसमें कुछ खामियाँ और कमियाँ भी हैं जिन्हें दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता है। संसद द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पाँच वर्ष बाद किसी तरह से लोकपाल की नियुक्ति हो पाई, जो राजनीतिक इच्छावित में कमी का संकेतक है। लोकपाल अधिनियम में राज्यों से भी इसके लागू होने के एक साल के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए कहा गया है, परन्तु केवल 16 राज्यों ने लोकायुक्त की स्थापना की। लोकपाल राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है क्योंकि स्वयं नियुक्त राजनीतिक दलों के सदस्यों से गठित है। लोकपाल की नियुक्ति में एक प्रकार से चालाकी की जा सकती है क्योंकि यह निर्धारित करने का कोई मानदंड नहीं है कि कौन एक 'प्रख्यात न्यायविद' या 'सत्यनिष्ठा' का व्यक्ति है। वर्ष 2013 का अधिनियम व्हिसल ब्लॉअर को कोई ठोस सुरक्षा नहीं देता। यदि आरोपी व्यक्ति निर्दोष पाया जाए तो निकायतकर्ता के विरुद्ध जांच शुरू करने का प्रावधान लोगों को निकायत करने से हतोत्साहित ही करेगा। इसकी सबसे बड़ी कमी न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखना है। लोकपाल को कोई संवैधानिक आधार नहीं दिया गया है और लोकपाल के विरुद्ध अपील का कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है। लोकायुक्त की नियुक्ति से सम्बन्धित विनाश विवरण पूरी तरह से राज्यों पर छोड़ दिया गया है। कुछ सीमा तक CBI की कार्यात्मक स्वतंत्रता की आवश्यकता को इसके निर्देशक की नियुक्ति में इस अधिनियम में संगोधन करके पुरा किया गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध निकायत उस तिथि से सात साल के बाद पंजीकृत नहीं की जा सकती जिस तिथि को ऐसी निकायत में कथित अपराध किए जाने का उल्लेख हो।

| ►ko & भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए कार्यात्मक स्वायत्तता तथा मानव शक्ति की उपलब्धता दोनों मामलों में ओम्बुड्समैन (लोकपाल) संस्था को मजबूत किया जाए। स्वयं को सार्वजनिक जाँच का विषय बनाने के लिए इच्छुक एक अच्छे नेतृत्व के साथ—साथ अधिक पारदर्शिता, अधिक सूचना के अधिकार तथा नागरिकों और नागरिक समुहों के संवित्करण की आवश्यकता है। लोकपाल की नियुक्ति ही स्वयं में पर्याप्त नहीं है। सरकार को उन मुद्दों को भी हल करना चाहिए जिनके आधार पर लोग लोकपाल की मांग करते हैं। मात्र जाँच एजेंसियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करना सरकार के आकार में तो वृद्धि करेगा, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि इससे प्रासनिक कार्यों में भी सुधार हो जाए। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त उनसे वित्तीय प्रासनिक और कानूनी रूप से अवश्य स्वतंत्र होने चाहिए जिनकी जाँच एवं जिन्हें दण्डित करने के लिए उन्हें कहा जाता है। लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्तियाँ पारदर्शिता से होनी चाहिए ताकि गलत प्रकार से लोगों के पदस्थापित होने की संभावना को कम किया जा सके। किसी एक संस्था या प्राधिकारी में अत्यधिक शक्ति के संचयन को टालने के लिए समुचित जवाबदेही व्यवस्था के साथ विकेंद्रीकृत संस्थाओं के बाहुल्य की आवश्यकता है।

**9-4-6- orleku ykdi ky | LFkk dh fLFkfr (Current Status of Lokpal Institution)**  
 & प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इसी वर्ष मार्च के मध्य में सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश के उपर्युक्त घोश देने के पहले लोकपाल के लिए किया, जिसे राष्ट्रपति ने विधिवत मंजूरी दे दी। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा चार न्यायिक और चार गैर-न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। न्यायिक सदस्यों में अधिकारी और जस्टिस अजर कुमार त्रिपाठी है। इनके साथ SSB की प्रमुख व्यक्ति और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव फूसिंक देवजी तथा अर्थात् अधिकारी व्यक्ति जो गैर-न्यायिक सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही देश में लोकपाल नाम की संस्था अस्तित्व में आ गई है।

**9-5- vi uhi ixfri tkpi (Check your progress)**

निचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपने उत्तर देना है :—

- (i) सूचना का अधिकार कब लागू किया?
- (ii) सूचना का अधिनियम कब पास हुआ?

- (iii) भारत में लोकपाल संस्था का गठन कब किया?
- (iv) लोकपाल संस्था का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया?
- (v) सूचना के अधिनियम के तहत सूचना देने की समय सीमा कितनी है?

#### 9-6- **I kj k<sup>2</sup>'k (Summary)**

सरकार में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने एवं जनता का ध्यान सरकार के कार्यों की तरफ खींचने एवं नागरिकों में राजनीतिक चेतना के बढ़ावे हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागु किया गया था। यह एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि इसके द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया था, साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकु”। लगाने का यह सबसे बेहतरीन मार्ग था।

#### 9-7- **सूचक भाव्य (Key Words)**

सूचना का अधिकार, लोकपाल, लोकायुक्त

I puk dk vf/kdkj & सूचना के अधिकार से हमारा अभिप्राय उस अधिकार से है जिसके माध्यम से हम किसी सरकारी संस्था से कोई जानकारी की मांग कर सकते हैं।

yksdiky & लोकपाल संस्था का गठन भारत में मार्च 2019 में किया गया। लोकपाल केन्द्र सरकार की वह संस्था है जो भ्रष्टाचार पर अंकु”। लगाने का प्रयास करती है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं।

yksdk; Dr & लोकायुक्त सदस्यों का गठन राज्यों में भ्रष्टाचार पर अंकु”। लगाने के लिए किया जाता है।

#### 9-8- **Lo; a eY; kdu gsw i t'u Self Assessment Questions :**

- Q.1. सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए।
- Q.2. सूचना के अधिनियम के क्या—क्या प्रावधान हैं?
- Q.3. लोकपाल के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या कीजिए?
- Q.4. लोकायुक्त की शक्तियों की व्याख्या कीजिए।

#### 9-9- **vi uh i xfr dh tkp djus ds fy, mÙkj (Answer check your progress)**

- (i) 12 अक्टूबर 2005 को
- (ii) 2005 में

(iii) मार्च 2010 में

(iv) 2013 में

(v) 30 दिन

#### 9-10- | UnHk@funF"kr i Frdi (References/Suggested Reading)

1. Public Administration, McGraw Hill : Laxmi Kant. M
2. New Horizons of Public Administration; Mohit Bhattacharya; Jawahar Publisher & Distribution.
3. Indian Administration; S.R. Maheshwari, Orient Black Swan.
4. Public Administration Theory and Practice; Hoshiar Singh and Pardeep Sachdeva; Pearson.
5. प्रा"सनिक चिंतक; प्रसाद एण्ड प्रसाद सत्यनारायण; जवाहर पब्लिके"न एण्ड डिस्ट्रीब्यू"न।